

भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 17—सितम्बर 23, 2005 (भाद्रपद 26, 1927)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 17—SEPTEMBER 23, 2005 (BHADRA 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय कार्यालय

मादाम कामा रोड

मुंबई-400 021, दिनांक 14 सितम्बर 2005

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों के दो रिक्त-स्थानों के लिए चुनाव लड़ने वाले वैध रूप से नामित उम्मीदवारों के नाम एवं पते सूचित करने वाली, दिनांक 31 अगस्त, 2005 को जारी सूचना के संदर्भ में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को बैंक ऑडिटोरियम, भारतीय स्टेट बैंक, मादाम कामा रोड शाखा के पीछे, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में बैंक के शेयरधारकों की महासभा में हुए चुनाव में निम्नलिखित उम्मीदवारों को बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में विधिवत घोषित किया गया है।

1. डॉ. अशोक झुनझुनवाला,
प्रोफेसर,
टेलीकॉम एंड नेटवर्कस,
(टीनेट) ग्रुप,
विद्युत अभियांत्रिकी विभाग,
आई आई टी, मद्रास,
चेन्नई-600 036
2. श्री सुमन कुमार बेरी,
एन-42, पंचशील पार्क,
नई दिल्ली-110 017

के. अशोक किणी

प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (राष्ट्रीय बैंकिंग)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिसूचना

नई दिल्ली,

भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य (संशोधित) विनियमावली, 2005

सं. सी एफ जी / 2005-भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके, भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मंडल केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली 1982 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली, बनाता है, नामतः :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) ये विनियम, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2005 कहलायेंगे।

(2) यह विनियमावली शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगी।
2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली 1982 (जिसे यहाँ इसके पश्चात उक्त विनियमावली कहा गया है), में विनियम 14 के खंड (i) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः :-

“(i) इस विनियमावली की अनुसूची I, II और III में वर्णित प्रारूप में प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को अथवा प्रत्येक वर्ष में ऐसी किसी अन्य तारीख को, जो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, सामान्य निधि का तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरणी; और”
3. उक्त विनियमावली में अनुसूची I, II, I-क, II-क के लिए, क्रमशः अनुसूची I, II, I-क और II-क प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :-

अनुसूची I

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

यथा दिनांक को तुलन पत्र _____

सामान्य निधि

गत वर्ष

इस वर्ष

रुपये

रुपये

देयताएँअनुसूचियाँ

1. पूँजी I
2. आरक्षित निधियाँ II
3. लाभ और हानि लेखा III
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर
5. देय बिल
6. जमा राशियाँ IV
7. उधार राशियाँ V
8. चालू देयताएँ एवं आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान
9. अन्य देयताएँ

योग

आस्तियाँ

1. नकदी एवं बैंक शेष VI
2. निवेश VII
3. ऋण एवं अग्रिम VIII
4. भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र IX
5. अचल आस्तियाँ X
6. अन्य आस्तियाँ XI

योग

सामान्य निधि

गत वर्ष	इस वर्ष
रुपये	रुपये
आकस्मिक देयताएँ	
(i) स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पुरांकन तथा अन्य दायित्व	
(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	
(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर	
(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	
(v) बैंक पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	
(vi) संग्रहण के लिए बिल	
(vii) सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	
(viii) भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	
(ix) अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	

अनुसूची II

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

यथा _____ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा		सामान्य निधि	
गंत वर्ष		इस वर्ष	
रुपये	व्यय	रुपये	
			<u>अनुसूचियाँ</u>
	1. ब्याज		
	2. ऋण बीमा, फीस और प्रभार		
	3. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		
	4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		
	5. लेखा परीक्षा की फीस		
	6. भाड़ा, कर, बिजली एवं बीमा प्रीमियम		
	7. संचार व्यय		
	8. विधि विषयक व्यय		
	9. अन्य व्यय		XII
	10. मूल्य ह्रास		
	11. संभावित ऋण हानियों / आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान		
	12. अधोनीत लाभ		
	योग		
	आयकर के लिए प्रावधान		
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ		
	आय		
	1. ब्याज और बट्टा		XIII
	2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस		
	3. अन्य आय		XIV
	4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि		
	योग		
	लाभ, नीचे लाया गया		
	पूर्ववर्ती वर्षों की अधिक्य आय / ब्याज-कर प्रावधान का पुनरांकन		

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

गत वर्ष रुपये		सामान्य निधि इस वर्ष रुपये
अनुसूची I :	<p>पूँजी :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकृत 2. निर्गमित एवं प्रदत्त : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त) 	
अनुसूची II :	<p>आरक्षित :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षित निधि 2. सामान्य आरक्षित 3. अन्य आरक्षित राशियाँ : निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएं) 4. आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1), (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि 	
अनुसूची III :	<p>लाभ और हानि लेखा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष 2. घटाकर : विनियोजन : <ul style="list-style-type: none"> - आरक्षित निधि को अंतरित - निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित - ऋण शोधन निधि को अंतरित - आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित - लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के लिए प्रावधान 3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरणीय) 	
अनुसूची IV :	<p>जमा राशियाँ :</p> <ol style="list-style-type: none"> (क) भारत में (ख) भारत के बाहर 	

(2)

अनुसूची V:

उधार राशियाँ :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :
 - (क) न्यासी प्रतिभूतियों पर
 - (ख) विनिमय बिलों पर
 - (ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से
2. भारत सरकार से
3. अन्य स्रोतों से
 - (क) भारत में
 - (ख) भारत के बाहर

अनुसूची VI :

नकदी एवं बैंक में शेष :

1. हाथ में नकदी
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष
3. अन्य बैंकों में शेष
 - (क) भारत में
 - i) चालू लेखों में
 - ii) अन्य जमा लेखों में
 - (ख) भारत के बाहर
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि

(3)

अनुसूची VII :**निवेश :**

(मूल्य में हास का निवल, यदि कोई है)

1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ-
मूल्य पर इसमें से जो भी कम हो
2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक
3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉण्ड
5. अन्य

अनुसूची VIII :**ऋण एवं अग्रिम :**

1. विदेशी सरकारें
2. बैंक :
(क) भारत में
(ख) भारत के बाहर
3. वित्तीय संस्थाएं :
(क) भारत में
(ख) भारत के बाहर
4. अन्य

अनुसूची IX :**भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र**

- (क) भारत में
- (ख) भारत के बाहर

(4)

अनुसूची X:**अचल आस्तियाँ :**

(लागत पर मूल्य ह्रास घटाकर)

1. परिसर
2. अन्य

अनुसूची XI:**अन्य आस्तियाँ :**

1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज
क) निवेशों पर / बैंक शेष राशियों पर
ख) ऋणों पर / अग्रिम राशियों पर
2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त -
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.को
प्रदत्त
3. विविध पक्षों के पास जमा राशियाँ
4. प्रदत्त अग्रिम आय कर
5. अन्य

अनुसूची XII :**अन्य व्यय :**

1. निर्यात संवर्धन व्यय
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय
3. मरम्मत और रखरखाव
4. मुद्रण और लेख सामग्री
5. अन्य

अनुसूची XIII :**ब्याज और बट्टा :**

1. ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई /
पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा
2. निवेश / बैंक शेष राशियों पर आय

अनुसूची XIV :**अन्य आय :**

1. बिक्री / निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल
लाभ
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों पर निवल
लाभ
3. अन्य

अनुसूची I-क

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

यथा दिनांक _____ को तुलन पत्र

गत वर्ष रुपये	निर्यात विकास निधि इस वर्ष रुपये
<u>देयताएँ</u>	
1. ऋण : (क) सरकार से (ख) अन्य स्रोतों से : 2. अनुदान : (क) सरकार से (ख) अन्य स्रोतों से 3. उपहार, दान, उपकृतियाँ : (क) सरकार से (ख) अन्य स्रोतों से 4. अन्य देयताएँ 5. लाभ-हानि लेखा	
योग	
<u>आस्तियाँ</u>	
1. बैंक शेष (क) चालू लेखों में (ख) अन्य जमा लेखों में 2. निवेश 3. ऋण एवं अग्रिम : (क) भारत में (ख) भारत के बाहर 4. भुनाये गये, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र (क) भारत में (ख) भारत के बाहर 5. अन्य आस्तियाँ (क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज (i) ऋण और अग्रिम राशियाँ (ii) निवेश / बैंक शेष राशियाँ (ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर (ग) अन्य	
योग	

(2)

निर्यात विकास निधिगत वर्षइस वर्षरुपयेआकस्मिक देयताएँरुपये

- (i) स्वीकृतियों, गारंटियों, परांकन तथा अन्य दायित्व
- (ii) वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर
- (iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर
- (iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ
- (v) बैंक पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है
- (vi) संग्रहण के लिए बिल
- (vii) सहभागिता प्रमाणपत्रों पर
- (viii) भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल
- (ix) अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है

अनुसूची II-क

यथा ————— को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा	
गत वर्ष रुपये	निर्यात विकास निधि इस वर्ष रुपये
	व्यय
	1. ब्याज
	2. अन्य व्यय
	3. लाभ तुलनपत्र को ले जाया गया योग
	योग
	आय कर के लिए प्रावधान तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ
	आय
	1. ब्याज और बट्टा
	(क) ऋणों और अग्रिम राशियाँ
	(ख) निवेश / बैंक शेष राशियाँ
	2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस
	3. अन्य आय
	4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि
	योग
	लाभ नीचे लाया गया
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर का प्रावधान का पुनरांकन

4. उपर्युक्त विनियमावली में, अनुसूची II - क, के बाद, निम्नलिखित अनुसूची अन्तः स्थापित की जाएगी, नामतः:-

अनुसूची III

को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी		राशि (लाख रुपये)	
विवरण	को समाप्त वर्ष (इस वर्ष)	को समाप्त वर्ष (गत वर्ष)	
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें			
निम्नलिखित के लिए समायोजन			
- अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ) / हानि			
- निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ) / हानि			
- मूल्य हास			
- बट्टे में डाले गए बांड निर्गम पर बट्टा / व्यय			
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेख से अंतरण			
- ऋणों / निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान / बट्टे खाते डालना			
- अन्य - उल्लेख करें			
निम्नलिखित के लिए समायोजन			
- अन्य आस्तियाँ			
- चालू देयताएँ			
परिचालनों से नकदी निर्माण			
आय कर / ब्याज कर की अदायगी			
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह			
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
- अचल आस्तियों की निवल खरीद			
- निवेशों में निवल परिवर्तन			
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी / से जुटायी गयी निवल नकदी			
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
- लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से			
- लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से			
- लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल)			
- ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर से			
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह			
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि (गिरावट)			
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य			
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य			

टिप्पणी : भारत सरकार ने मुख्य विनियमावली को अनुमोदित कर दिया है देखिए पत्र सं. एफ एन 14 (18) / 76 / आइ एफ.1 दिनांकित 24 जुलाई 1987 (शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की अपेक्षा को भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम की धारा 39 (1) में दिनांक 30 दिसंबर 1998 से प्रभावी करके अंतः स्थापित किया गया है) । विनियम 14 और अनुसूचियों में किए गए संशोधनों को शासकीय राजपत्र में 9 फरवरी 2002 को, विनियम 8 को 9 फरवरी 2002, विनियम 3, 5 और 7 को 9 फरवरी 2002, विनियम 4 और 10 को 19 दिसंबर 2003 तथा विनियम 6 को 19 दिसंबर 2003 को प्रकाशित किया गया था ।

एस श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2005

संख्या: यू.16/53/99-चि.शा.2(हैदराबाद): कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसक निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त हैदराबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

<u>नाम</u>	<u>अवधि</u>	<u>केन्द्र का नाम</u>
डा. ए. चन्द्राशेखर	3.9.2005 से 2.9.2006 तक	हैदराबाद

डा. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066,

सं. के.भ.नि.आ. 1(4)44/2005/ई.जैड-- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाये।

क्र.सं.	कोड सं०	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि	
1	एएस/5712	मे० एच एल एन्टरप्राइसेस, बारबिया, अरुणाचल प्रदेश	1.4.05	1.4.05
2	एएस/5749	मे० एएमपीएस, आर.जी. बारबाह रोड, गुवाहाटी	2.5.05	2.5.05
3	एएस/5734	मे० बाबा गणेश ट्रेवल, शंकर नगर, नूनमाटी, गुवाहाटी	7.4.05	7.4.05
4	एएस/5579	मे० जे.एस. एन्टरप्राइजेस, सालबारी, नूनमाटी, गुवाहाटी	29.12.04	29.12.04
5	एएस/5663	मे० आसाम बोर्ड ऑफ वक्फस, दिसपूर, गुवाहाटी-6	18.2.05	18.2.05
6	एएस/3857	मे० सेंट फ्रांसिस डी असोसी स्कूल, गुरुचूक, गुवाहाटी	1.3.02	1.3.02
7	एएस/5617	मे० यशाना, लचीत नगर, गुवाहाटी	1.2.05	1.2.05
8	डब्ल्यूबी/38389	मे० दि पनीहाटी बो-ओप, नार्थ 24-परगनास	1.4.02	1.4.02
9	डब्ल्यूबी/30872	मे० दिपक कुमार रॉय, महेशमती, मालदा	1.11.02	1.11.02
10	डब्ल्यूबी/31260	मे० कदमगाची ओ डीमिटी एस के यू एस लि० (मिनी बैंक) पी.ओ. खान्दी, डि० उत्तर दिनाजपुर	1.10.04	1.10.04
11	डब्ल्यूबी/41443	मे० मिडो फूड स्पेसिलिटीस, कोलकाता	1.7.04	1.7.04
12	डब्ल्यूबी/31267	मे० इसलामपुर महिला क्रेडिट को-ओप सोसायटी लि०, देशबन्धुपारा, डि० उत्तर दिनाजपुर, सिक्किम	1-9-04	1.09.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

डॉ. ए. के. चण्डोक
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

फार्म बी

(कृपया नियम 27 देखें)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2005

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमावली, 1985 के नियम 27 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 13 की उप-धारा 1 के अधीन सूचना

यह सूचित किया जाता है कि:-

(1) (क) अंतिम क्षेत्रीय योजना (Final Regional Plan) तैयार कर ली गई है; और

(ख) उसकी एक प्रति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कोर-IV-बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, सीधी रोड, नई दिल्ली-110 003 स्थित कार्यालय में सभी कार्यदिवसों को 11:00 बजे प्रातः से 3:00 बजे दोपहर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी ।


सदस्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110058, 30 अगस्त, 2005

सं. २०-५२/के.पं./२००५- जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो कर्नाटक राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा ।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन अप्रैल १९९४ से मार्च १९९७ तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (कर्नाटक) का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है, और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए ।


(प्रेमराज शर्मा)
रजिस्ट्रार

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

कर्नाटक

भाग I. आयुर्वेद

के.पं.संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीशन संख्या एवं पंजीशन तिथि	पता
84735	ए. अजय रामलिंगम ए.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९८६	10918 8.2.95	एम.आई.जी. ३६, गंगोत्री लेआउट, जिला मैसूर ।
84736	आबले अनवर हुसैन सैयद रसूल सैयद रसूल आबले	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९८८	10887 13.1.95	आबले हाउस, बिस्ती गली पो.आ. झलिकुटा तालूक मुद्देगोहल, जिला बीजापुर ।
84737	अजय ए. रामलिंगम ए.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९०	2140 8.2.95	एम.आई.जी. ३६, गंगोत्री लेआउट, सक्कीपुरम, मैसूर ।
84738	अजीथनाथा इन्द्रा के. अपराजिथा इन्द्रा के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९४	11228 13.5.96	ग्राम केलापेटे, काशिपटना पोस्ट, बेतठनगडी तालूक, दक्षिण कन्नड जिला ।
84739	अकेन श्रीनिवास नरसय्या नरसय्या गौरय्या अकेन	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९३	10878 10.01.95	२१/७८, दातानगर, दार्जीपेट, सोलापुर ।
84740	अल्लाहासाहेब नबीसाहेब यादवा नबीसाहेब	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९३	2186 23.2.96	म.नं.एल.आर.३४, नन्दिनी लेआउट, बंगलौर ।
84741	अम्बा भवानी पी. प्रेमाकुमार जी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९६	11400 1.1.97	नं. ५१/२६, "नन्दना" २०वीं क्रॉस, २२वीं मैन विजयनगर, बंगलौर ।

84742	अम्बुजाक्षम्मा बी. रमैया	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	10795 2.8.94	३७६६, थिम्पनाकुन्टे, कुम्भारपेट, कुम्भारियप्पा मैन रोड, दौडाबल्लापुर, बंगलौर ।
84743	अम्बुजाक्ष्मी एम. नारायण स्वामी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८७	2127 15.10.94	नं. १७, येल्तप्पा स्ट्रीट, विक्रमवल्ली, बंगलौर ।
84744	अमिया कुमारी सुन्दरा कुट्टियन	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६८७	11301 17.8.96	म.नं. ४ (१) पनीयुर पोस्ट उडुपी तालूक, दक्षिण कन्नड जिला ।
84745	अमोघासिद्धा काशप्पा हट्टी काशप्पा करप्पा हट्टी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11351 4.10.96	अरताल पोस्ट, आठन तालूक, जिला बेलगाम ।
84746	अमरिता एस. पुराणिक डी. सीथारम्मा प्रसाद	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11340 12.9.96	नं. ३४, हेन्नुर रोड, अन्नकोट्टी लेआउट स्ट्रीट, थोमस टाउन, बंगलौर ।
84747	आनन्दा एम.जी. डी. गंगलीमैयाह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11344 12.9.96	नं. १४७२, कल्याणनारा टी. दासराहल्ली, बंगलौर नोर्थ तालूक, बंगलौर ।
84748	आनन्दकुमार मूक्तासासप्पा मूक्तासाप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६६	11159 24.1.96	द्वारा एस.सी. होसामनी (एडवोकेट) हैगोर रोडीव पो.आ. एवं तालूक गडग जिला धारवाड़ ।
84749	अनन्दासायना जी.एव. हनुमन्तप्पा जी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11213 18.4.96	“हेमाकुटा”, त्यागराजनगर, चत्ताकोरे पोस्ट एवं तालूक, जिला चित्रदुर्ग ।
84750	अंगडी अन्दानप्पा वीरप्पा वीरप्पा अन्दानप्पा अंगडी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10881 ११.१.९५	द्वारा आई.ए. अंगडी, पोस्ट होले-अलूर तालूक रोन, जिला धारवाड़ ।

84751	अनिल कुमार एस. कल्याणी शिवापुररप्पा जी. कल्याणी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11357 9.10.96	स्टेशन रोड, होले-अलूर पोस्ट, रोम तालूक जिला धारवाड़ ।
84752	अमिता के. के. तारानाथा भट	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	11405 3.1.97	द्वारा नूतन क्लोथ सेन्टर, जयपुरा पोस्ट, कोप्पा तालूक, चिकमगलूर जिला ।
84753	अनिया कुमारी बी.बी. बी.एस. बिडप्पा	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11425 3.2.97	कोवरकोल्ली इस्टेट, पी.बी.नं.३, सोमवारपेट, पोस्ट सोमवारपेट तालूक कोदगु जिला ।
84754	अन्नाप्पा सूदा एच. प्रोजा सूदा के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	2133 21.12.94	अरक्षश्वरा निलाया, ६वीं क्रास, चामुन्देश्वरी नगर, मान्ड्या ।
84755	अनूपमा कामथ के. के.सी.बी.कामथ	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11257 14.6.96	द्वारा बी. मोहनदास नाथक हाउस नं. ८/१३०, पीछे एम.आई.टी, २वीं ब्लाक, मणिपाल ।
84756	अनुराधा ए. डी.बी. मुक्नेश	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11224 10.5.96	डोम्मासन्ना पोस्ट, अनेकल तालूक, जिला बंगलौर ।
84757	अनुराधा बी.एम. मल्लोजीराव बी.आर.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	10840 20.10.94	द्वारा परमलया स्टोर्स मेन रोड, पो.आ. एवं तालूक बैलूर, जिला हसन ।
84758	अनुराधा एम. विश्वेश्वरैया एम.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11115 27.11.95	“श्रीरंगा” ११६, १०-क्रास, २६ मेन रोड, जे.पी. नगर, १-फेस, बंगलौर ।
84759	अनुराधा नदकरनी प्रधान कुमार बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	10968 19.4.95	निकट वरदराज टेम्पल, पो.आ. गोकर्णा, तालूक कुमाता, जिला एन.के. ।

84760	अपर्णा प्रभूदेव शनखीनमठ प्रभूदेव आर. शनखीनमठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10828 29.9.94	मिस्ट शिवाजी सर्कल पोस्ट मुधोल, जिला बीजापुर ।
84761	अरुणा कुमारी पी. विरुपक्शा एच.बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11170 12.2.96	म.नं. १४०/१ए, ३ ब्लॉक, ४ मैन रोड ध्यागराजनगर, बंगलौर ।
84762	अरुणम्मा पी. गोपाल रेड्डी पी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11210 18.4.96	देवरा एम.एस. दास डोर नं. २३ (२) वार्ड ग्राम अलागपण रोड, बरुसपेट, बेल्लारी ।
84763	असेमा परवीन सैयद इनायथुल्ला	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	10995 17.5.95	डोर नं. १३, वार्ड नं. २२, एक्स सर्विसमैन कालोनी, मैन रोड कौल बाजार, बेल्लारी ।
84764	आशा एन. नंजुनैयाह एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11249 16.96	नं. ६७३, रंगनाथा निलाया, हवनुर बाडावने बालकुन्दे, नागासद्रा पोस्ट, बंगलौर ।
84765	आशा एस. बी. कृष्णा मूर्थी	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11388 2.12.96	ग्राम अलेक्कादी, मुल्लतया पोस्ट, मुलिया तालुक दक्षिण कन्नड जिला ।
84766	आशा टी.के. कृष्णा मूर्थी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10731 26.4.94	२/४, २४वीं क्रॉस १५ मैन बनशनकारी, 11- स्टेज, बंगलौर ।
84767	आसिफअली एस. डोनारगौन शोक्रतअली	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11105 15.11.95	पो.आ. कोहल्ली, तालुक अठानी, जिला बेलगाम ।
84768	अशोक भट के. महालिंगेश्वरा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11123 7.12.95	पमाकुटी ग्राम करमिला, पो.आ. दुगलडका तालुक मुल्लिया, जिला डी.के. ।

84769	अशोक जी. मट्टीगट्टी गंगणा	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १९६३	10783 2.8.94	मीनेरी ओनी, पोस्ट नवलूर, जिला धारवाड़ ।
84770	अशोक मकुन्दप्पा आई.टी.आई. मुकुन्दप्पा बुदप्पा आई.टी.आई.	बी. ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १९६४	10999 20.5.95	पो. आ. बन्नीकोप्पा, तालूक शिराहट्टी, जिला धारवाड़ ।
84771	अशोका कुमार बी. बालाचन्द्र राव बी.	बी. ए. एम. एस. मैसूर वि. वि., मैसूर १९६५	11098 10.10.95	गुदुमाने, कन्नाडी-11, पो. आ. धर्मास्थला, तालूक बेलठनगमडी, जिला डी. के. ।
84772	अश्विनी के. टी. थिम्माशयप्पा के. आर.	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १९६५	11140 23.12.95	म. नं. ६१४/२५, १३-क़ास, ५ मैन रोड, विजयनगर, बंगलौर ।
84773	अश्विनी कुमार गोविन्दराव बदधिकर. गोविन्द राव बदधिकर	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १९६२	2210 13.2.97	निकट बस स्टैण्ड बदधिकर होस्पिटल, बनहट्टी पोस्ट, जमखन्डी तालूक, जिला बीजापुर ।
84774	अश्विनीकुमा गोविन्दा राव बडेहिकर गोविन्दराव बडावितार	बी. ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १९६६	11081 10.10.95	पो. आ. बनहट्टी, तालूक जमखन्डी, जिला बीजापुर ।
84775	बी. जयारामा शेट्टी भुजंगा शेट्टी	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १९६३	2132 21.11.94	१६, ४२१/१, ७वीं क़ास, २ मैन अमरज्योथी-नगर, दूसरा मैन विजयनगर ।
84776	बी. एस. महेशा शंकरराव बी. टी.	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १९६४	11073 22.9.95	पो. आ. बेलबिनाकोदिगे, तालूक कोप्पा, जिला विक्रमगलूर ।
84777	बाबालाडी खनदप्पा बासप्पा बाबालाडी बासप्पा गुरुलिंगप्पा	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १९६४	11199 29.3.96	ग्राम शिरानल, तालूक एवं जिला बीजापुर ।

84778	बाबालाडी खन्दा बासपा एम. शंकर जोशी बाबालाडी बासपा गुल्लिंगपा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10963 4.4.95	पो.आ. माला, तालूक ककला, जिला डी.के.।
84779	बाबालाडीमठ शंकरया शिवास्वरयया	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10906 2.2.95	ग्राम एवं पो.आ. चानदरगी तालूक रामादुर्गा, जिला बेलगाम।
84780	बाबूराजेन्द्र शिवारदी दीवादी शिवास्वदी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६६	10862 5.12.94	ग्राम एवं पो.आ. गुडीसागर, तालूक नवलगुन्द, जिला धारवाड़।
84781	बेबी शेडयी शिवाराम शेडटी एम.के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11387 2.12.96	शिरियास पोस्ट, उडुपी तालूक दक्षिण कन्नड जिला।
84782	बागली चन्द्रकला सिद्धपा सिद्धपा धर्मपा बागली	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10902 1.12.95	२२३, विवेकानगर क्वार्टर एवं जिला बीजपुर।
84783	बागली सुरेश पारासपा बागली पारासपा दुन्दुपा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11048 18.8.95	द्वारा ए.पी.बागली (एडवोकेट) माठापयी गली बागली बिल्डिंग, बीजपुर।
84784	बालानूर मंजूनाथ सिद्धपा बी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	10826 28.9.94	७,।मैन रोड, गांधीनगर, जिला बेल्लारी।
84785	बालाकृष्णा एस. डेवदाननजया	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६७६	10940 22.2.95	१६, कब्बन पेट, १६वीं क्रास, बंगलौर।
84786	बालाकृष्णा एम. कुन्हना बल्लियायम	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10856 2.12.94	शान्धी निलाया, ग्राम मुनवेडी, पोस्ट शान्तीगोडू, तालूक पुत्तूर, जिला डी.के.।

84787	बालाकृष्णा उदुप के. जनार्धना उदुप के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10729 26.4.94	“सुदर्शन” कुडी हराडी ग्रामा बाराकूर उडुपी डी.के.।
84788	बालासुब्रह्मण्या एस. हरिकृष्णा भट एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11046 16.8.95	टेनकावेलु हाउस, पो.आ. अरूर, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
84789	बालकृष्णा कुलकर्णी बलवन्त राव	वैद्य विशाद नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १६७०	11365 26.10.96	प्लॉट नं. ६६८, सैक्शन नं. ५, श्रीनगर मालामासुथी प्रसार, बेलगाम।
84790	बराठम्बे बी. एन. सिद्धप्पा	आयुर्वेद पिएफ नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १६७७	11002 22.5.95	म.नं. ६१६/२, पो.आ. रामगाला, तालूक हरपनहल्ली, तालूक जिला बेल्लारी।
84791	बासप्पा एस.हाडापड स्व.शिवायोगप्पा बासप्पा हाडापड	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11358 9.10.96	अथरगा पोस्ट, इन्दी तालूक, बीजापुर।
84792	बासरी हुल्लप्पा यालप्पा यालप्पा बासरी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10790 25.8.94	एम.आई.जी.आई. ६७, हुडको कालोनी, गडग, जिला धारवाड़।
84793	बासवनगौडा एच. दयावनगौडर हनूमन्तगौडा बी. दयावनगौडर	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11370 31.10.96	गुडगेरी पोस्ट, कुन्दागोल तालूक, जिला धारवाड़।
84794	बीना ए.जी. एम. गोपालाकृष्णा पिल्लई	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10737 26.04.94	१८०, “शान्धी” न्यू ब्यापनहल्ली एस्टेशन इन्दिरानगर, बंगलौर।
84795	बेल्लादा काशिदप्पा एस. शंकरप्पा बेल्लादा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2113 11.5.94	उमा क्लीनिक, पो.आ. कुशटगी, जिला रायचूर।

84796	भायलक्ष्मी टी.एस. सुब्बाराव टी.जी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९५	11223 10.5.96	नं. ३६६, ६वीं क्रॉस, बीडीए अवलहल्ली लेआउट गिरिनगर, बंगलौर ।
84797	भारथ एच. भोजपासु	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९३	11080 30.5.95	म.नं. २-११ आई, हसनगोदी अग्रामपी पो.आ. मल्ल, करक्ला, जिला डी.के. ।
84798	भारथी ए.पी. पूनावा ए.बी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १९९५	11217 23.4.96	पूंकुंजी इस्टेट होसेकेरी ग्राम, मारगोडु पोस्ट, मदीकेरी तालूक, गूर्ग जिला ।
84799	भारथी सी. सी. माल्लपा गौड	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १९७३	11237 14.5.96	म.नं. १६-७८, ८४ बारम्मा रोड, अनन्थापुर ।
84800	भार्गवी रामावन्ध एलल	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९०	11420 25.1.97	रामावन्ध नर्सिंग होम बेलनचे रोड ग्राम एवं पो.आ. हेबरी, तालूक करक्ला, जिला डी.के. ।
84801	भास्कर ए. ए. रामावन्धरैया	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९८३	2206 16.10.96	नं. १४०, १४ क्रॉस, २२ मैन रोड, राववेन्द्रा लेआउट, पदमान्ना नगर, बंगलौर ।
84802	भावना देवी यू. के. जनार्थना शर्मा	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९२	10873 28.12.94	३७३/ए, अक्कीचिक्कन्ना निलाया के.आर. मोहल्ला, जिला मैसूर ।
84803	भीमप्पा तोतार मुदाकप्पा तोतार	आयुर्वेद निष्पक नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १९७६	11360 11.10.96	उष्पीना बेतागेरी पोस्ट, तालूक एवं जिला धारवाड़ ।
84804	भुवनेश्वरी जे. आर. जयचन्द्र	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९५	11269 22.6.96	नं. १००७, १३ मैन, 11 क्रॉस, एच.ए.एल. ११ स्टेज इन्दिरानगर, बंगलौर ।

84805	विलेकल लिंगराज शंकराणा शंकराणा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10786 3.8.94	पो/२, जविन क्वार्टर्स, विद्यानगर, हुबली, जिला धारवाड़ ।
84806	बिरादर सुजाता इरनगौडा	बी.ए.एम.एस.	10921	३१, निकट इजिनियरिंग कालेज, मल्लिकार्जुन
	इरनगौडा बासवन्थाराया बिरादर	कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	14.2.95	आश्रम, विजया कालेज, पोस्ट एवं जिला बीजापुर ।
84807	बुसानुरमथ राजशेखर गंगाधर स्वामी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11171 16.2.96	एम.आई.जी.आई.२२६, हुडको कालोनी, जिला धारवाड़ ।
84808	चब्बी मदीवालणा बासणा चब्बी बासणा वीरभद्रा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10712 5.4.94	विष्काबेल्लीकट्टे पो.आ. गोवनकोप्पा, तालूक बैलहोंगल, जिला बैलगाँव ।
84809	चफेकर मंजीरे अरविन्द चफेकर अरविन्द दत्तत्रेय	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापुर १६६२	11121 7.12.95	म.नं. ६६७५/बी-४२, के.सी. रानी रोड, पो.आ. गडग, जिला धारवाड़ ।
84810	चयका एस. एस.पी. वासुकी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2151 30.5.95	'नन्दगोकुला' नं.४१३६/७, १ तल, बी.ब्लाक, २-स्टेज, २ मैन रोड, सुब्रामन्यनगर, बंगलौर ।
84811	चानगौदर शिवास्तरणा शिवागौडा शिवाणा चानगौदर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10794 18.8.94	ग्राम बडव्याकुडा पोस्ट हसुरी, रायबाग, तालूक बैलगाँव ।
84812	चंचलकर अनुराधा लायणा लायणा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10831 3.10.94	४, गोबाराचवल शाहपेट गली, पो.आ. एवं जिला बीजापुर ।
84813	चन्द्रकान्था देकरमणा भट के.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	10776 20.7.94	परजिता निलया, नेजर अहमदकट्टे कल्याणा मथ, सान्धेपेट उडुपी, डी.के. ।

84814	चन्द्रमौली आर. राजू एम.एन.एन.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11338 11.9.96	न. ५६/१, (१४/१) दूसरा क्रस व्हीलर रोड, सिन्धी कॉलोनी, फ़रेजर टाउन, बंगलौर ।
84815	चन्द्रन जी.आर. आर. गोपाल कृष्णन	बी.ए.एम.एस. केरल वि.वि., १६८८	11462 31.3.97	म.नं. ३/१६, पुष्पागिरी कोर्टाक्कनी रोड, कसारगोड, केरल राज्य ।
84816	चन्द्रशेखर कृष्णय्या आचार्य	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10994 16.5.95	कन्नजे हाउस, लैला ग्राम, पो.आ. दुर्गानगर, तालूक बेलठगे, जिला डी.के ।
84817	चन्द्रशेखर बी. जामबगी बालाकृष्णा ए. जामबगी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11134 18.12.95	आदी गंगा माली गली, पो.आ. रायबाग, जिला बेलगांव ।
84818	चन्द्रशेखर एच.जी. शिवकुमार एच.जी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2184 11.1.96	म.नं. ५६७, कैपेट, पो.आ. दामनगरे, जिला. चित्रदुर्ग ।
84819	चन्द्रशेखर वी. यज्ञन्ती विरुपक्षणा आई. यज्ञन्ते	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11372 5.11.96	ग्राम एवं पो.आ. हिरेश्णी, तालूक इन्दी, जिला बीजापुर ।
84820	चन्नाबासप्पा बेलागवी मल्लिकार्जुना सी. बेलागवी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11214 18.4.96	म.नं. १४, सामने आयुर्वेद महाविद्यालय, बीजापुर ।
84821	चन्नागौडरा आनन्दगौडा दानप्पागौडा दानप्पागौडा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11013 7.6.95	वीरभद्रेश्वरा कृपा, नेहरू नगर पो.आ. ब्यादगी जिला धारवाड़ ।
84822	चेरिका थोडुबिल उम्मेर जुबैदा उम्मेर सी.	वैद्य विद्वान आ. आयु. परिषद, विजयवाड़ा १६७६	10874 28.12.94	६४६, निकट के.एस.आर.टी.सी. डिपो, ग्राम एवं पो.आ. अन्देसोनपेट बंगारपेट, जिला कोलर के.जी.पी. ।

84823	चेस्फुल्ली भानू मूर्धे सी. श्रीनिवासैयाह	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६७८	10717 6.4.94	३५, ७वा क्रस ।।। मैन् बर्डिंगएल लेआट बासवेश्वरनगर, बंगलौर ।
84824	चित्रा एच.ए. सखन्बा ससमोदे	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	2180 26.12.95	म.नं. ६००/बी, विश्वमानवा डबल रोड, वेस्ट आफ १ क्रस, कुसेमनगर, मैसूर ।
84825	चौधरी चान्दलदेवी भीमराव भीमराव	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10792 16.8.94	३८, मंगोली रोड, बीजापुर ।
84826	चौधरी लक्ष्मी वीरन्ना चन्द्रधारा अराकेरी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६०	10745 6.5.94	ग्राम एवं पो.आ. बासवन बागेवाड़ी जिला बीजापुर ।
84827	चौगुले सुमित्रा पांडुरंग पांडुरंग केरम चौगुले	एम.एफ.ए.एम. फैक. आफ आयु.यू.वि.प., बम्बई १६७०	11130 14.12.95	द्वारा डा. सी.जी. शिन्दे गुरु होस्पिटल, जूनोपेट, पो.आ. रामदुर्गा, जिला बेलगाम ।
84828	चुरी प्रभूदेव लिंगवासणा लिंगवासणा चुरी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10765 13.6.94	चुरी क्लिनिक, ग्राम एवं पो.आ. हवेली जिला धारवाड़ ।
84829	डी.एन. अरुणकुमार नारायणराव	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10961 30.3.95	नं. ६८५, ।।। मैन्, ।।। क्रस, विद्यारन्यापुरम, मैसूर ।
84830	दासर मास्ती आययणा आययणा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11040 8.8.95	हकीम चौक, निकट गोल गुम्बास, बीजापुर ।
84831	दत्तात्री टी.आर टी.एस. रंगनाथ	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2195 3.9.96	म.नं. १७८, १०वा क्रस ३ स्टेज, गोकुलम, मैसूर ।

84832	दयानन्द एस. गोविन्दा भट एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2144 28.2.95	'गोविन्दा कृपा', १६७ पी. बंगल्लोरी क्रॉस, पो.आ. चन्द्रपुर, तालूक अनेकल, जिला बंगलौर ।
84833	दीपक एस.एम. मेधराज एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11252 5.6.96	'दनी विलास', जैन पेटे, मूढबिंदी पोस्ट, करक्ला तालूक, दक्षिण कन्नड जिला ।
84834	देशमुख प्रदीपकुमार यशवन्त यशवन्त देशमुख	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11026 12.7.95	पो.आ. मयानी, तालूक छटाव, जिला सतारा ।
84835	देशपांडे अलका जयराव श्रीपदा शंकर शास्त्री	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2212 27.2.97	'सुरभी' नं. ४८, दशा मैम, १८वां क्रॉस, बनदप्पा गार्डन एक्स्टेंशन, मुठयाला नगर, बंगलौर ।
84836	देशपांडे कविता विजया विजय शंकर देशपांडे	बी.ए.एम.एस. बम्बई वि.वि., बम्बई १६६१	11114 23.11.95	म.नं. ४४४, विटोवा देवागल्ली, विश्वलक्ष्मी सदन, पो.आ. खानपुरा, जिला बेलागाम ।
84837	देवकी एस.के. देशवा भट एस.एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11253 5.6.96	'शिवासदना, पलथमूले, पांजे पोस्ट, पुत्तुर तालूक जिला डी.के. ।
84838	देवराज एन.आर. के. राजगोपाल गौडा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11254 6.6.96	नं. १३७, ७वां क्रॉस, III ब्लॉक, ध्यागरामनगर, बंगलौर ।
84839	धारी धरमय नागप्पा निगप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10987 1.2.95	राजपूत गल्ली इन्दी रोड, जिला बीजापुर ।
84840	दिनेश सी.एच. कृष्णा भट सी.एच.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10911 2.2.95	चन्द्रकुलु हाउस, ग्राम एवं पो.आ. बडागन्नु तालूक पुत्तुर, जिला डी.के. ।

84841	दिनेश नायक जे. स्व. जे. नामदेव नायक	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2114 16.5.94	'नामदेव', कोर्ट रोड, उडुपी, जिला डी.के.।
84842	दिव्यालक्ष्मी आर. रमैयाह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11267 22-6-96	नं. ५, यू.ए.एस. लेआउट आर ए वी दूसरी सेज, संजयनगर बंगलौर नोर्थ तालूक, बंगलौर।
84843	दोडावाड फकीरया सोमलिंगया सोमलिंगया फकीरया दोडावाड	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड १६६३	10942 23.2.95	'पिथरु कृपा' मृधुंजय नगर मार्किट यार्ड, ग्राम एवं पो.आ. बैलहोंगल, जिला बेलगाम।
84844	दोडावाड फकीरया सोमलिंगया सोमलिंगया फकीरया दोडावाड	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2143 23.2.95	'पिथरु कृपा' मृधुंजय नगर मार्किट यार्ड, पो.आ. बैलहोंगल, जिला बेलगाम।
84845	दोड्डामणि शम्शुद बेगम अब्दुल रहीम साहेब अब्दुल रहीम साहेब दोड्डामणि	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड १६६४	11064 8.9.95	म.नं. वी-५६/७८, जवाला मस्जिद सामने जवाला गली, पो.आ. गडग, जिला धारवाड।
84846	दोड्डामणि शशिधर हनमन्तया हनमन्तया मल्लाय्य दोड्डामणि	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड १६६४	11197 29.3.96	एल.आई.जी-११४, हुडको कालोनी, पो.आ. गडग, जिला धारवाड।
84847	जी. शोमालया गुरुस्वामी पी.एम.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11084 10.10.95	नं. २३१६, जै-ब्लाक, सर्वगना रोड, कुम्पू नगर, मैसूर।
84848	जी.एस. गोपालाकृष्ण कन्धन जी.एस.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६८	10813 13.9.94	पो.आ. रोड, नववेधना क्लॉनिक, पो.आ. श्रीरामपुर, तालूक होलदुर्ग, जिला चित्रदुर्ग।
84849	गवीनामणि दोड्डाबासया बासया बासया गवीनामणि	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड १६६४	10898 १-2-95	द्वारा बी.पी. गवीनामणि पो.आ. कोडीहल तालूक हुंगुन्द, जिला बीजापुर।

84850	गडग मुरीगणा घान्ना वीरप्पा घान्नावीरप्पा वी. गडग	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	11167. 2.2.96	म.नं. ५०, पो.आ. हिल्कई, तालूक रायबाग, जिला बेलगाम ।
84851	गाला शन्तीलाल लखाप्पी गाला लखाप्पी के.	बी.ए.एम.एस. पूना वि.वि., पुणे १६७४	11059 5.9.95	म.न. २६, न्यू हाई स्कूल रोड, बी.बी. पुरम, बंगलौर ।
84852	गलियावर वन्दना जम्पन्ना जम्पन्नावर ए.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10931 14.2.95	हेन्ड्य कैम्प गडग गेलगेरी, पो.आ. एवं तालूक गडग, जिला धारवाड़ ।
84853	गनेश एम. देवागिरीमठ महादेवैयाह के. देवागिरीमठ	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2154 12.7.95	पो.आ. सुनाकल्ला बिदरी, तालूक रनबेन्नूर जिला धारवाड़ ।
84854	गनेश प्रसाद एस. शन्मुखाराम एन.पी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11124 7.12.95	म.नं. २२४, स्माल शोप स्ट्रीट, पो.आ. टी. नरसीपुरा, जिला मैसूर ।
84855	गनेशा पी. कृष्णा मूर्धे बी.एन.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	10855 2.12.94	निकट ओल्ड पंचायत आफिस पो.आ. पुत्तुर तालूक उडुपी, जिला डी.के ।
84856	गनेशा यू. कोटी पूजारी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11379 20.11.96	कपरी हाउस, उत्तुर पोस्ट, कुन्दापुर तालूक दक्षिण कन्नड जिला ।
84857	गंगाधर सी. स्व. चिक्कन्ना एच.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11328 9.9.96	द्वारा लक्ष्मी कांथ, म.नं. २०३/बी, चौथा ब्लॉक दूसरा मैन, राजाजीनगर, बंगलौर ।
84858	गंगम्मा बी.टी. बी. अजीथकुमार	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10861 5.12.94	थेमिस कोर्टेज जे.आर.एस. लेआउट, देवासन्ना के.आर. पुरम, बंगलौर ।

84859	गनीमर अक्कामहादेवी आवप्या आवप्या	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10863 5.12.94	निकट कालिदास आयुर्वेदिक कालेज, पो.आ. बादामी, जिला बीजापुर ।
84860	गायत्री के. माधवा के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11070 18.9.95	म.नं. १-१-५०, पो.आ. कुंजीबेलु, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
84861	गायत्री एम.बी. बाबूनाथ एम.बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10741 28.4.94	३०३, कैवली रोड, बंगलौर ।
84862	गीथा सन्नाय्या शेट	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11327 9.9.96	मुदुकेरी, हन्वल्ली ग्राम, बरकुर पो.आ. उडुपी तालूक, दक्षिण कन्नड जिला ।
84863	गीथा पी. राधाकृष्णा रामाव के.एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	11324 4.9.96	म.नं. ११००८, धई कास, एम.जी. रोड, तुमकुर ।
84864	गीथा प्रमू एम. राखेन्द्र प्रमू एम.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10730 26.4.94	'अनन्ध' प्रसाद दामबल अशोक नगर पो.आ. जिला मंगलौर ।
84865	गीथा एस. ए.एस. सन्तोष कुमार	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	10872 28.12.94	प्रकृति क्लीनिक पो.आ. साय्याजी तालूक सुल्लया, जिला डी.के. ।
84866	गीथा एस.पी. बी.आर. रामकृष्णा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2135 6.1.95	२४७६/१, २५ कास, १७ मैन बनशंकारी-२ स्टेज, बंगलौर ।
84867	मिरीधरकाजे शिवारामा काजे	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	10841 18.11.94	'प्रज्ञाती' पो.आ. कवाका तालूक, पुल्लुर, जिला डी.के. ।

84868	गोनी जयश्रीला मुदुवीरप्पा मुदुवीरप्पा एम. कोम	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	10932 14.2.95	के. सी. रानी रोड, मसारी, तालूक गडग, जिला धारवाड़ ।
84869	गोपीनाथ के. मूर्ध्ति के. के.	बी. ए. एम. एस. मंगलौर वि. वि., मंगलौर १६६६	10837 12.10.94	मार्किट रोड, पो. आ. जवागल तालूक अरसिकेरे, जिला हसन ।
84870	गोराबल वीरप्पा माल्लप्पा माल्लप्पा	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	10892 30.1.95	पो. आ. हूली तालूक सवाधरी, जिला बेलगाम ।
84871	गौडा त्रिवेणी रंगनाथ रंगनाथ	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	11043 9.8.95	द्वारा जयान्मा, पो. आ. सान्येपेट, तालूक सिरा, जिला तुमकुर ।
84872	गौडर सुवर्णा शेखरगौडा मल्लिकार्जुनगौडा सी. पार्टील	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	11135 19.12.95	द्वारा सी. एस. पार्टील, पो. आ. हीरेहराकुनी, तालूक कुन्दागल, जिला धारवाड़ ।
84873	गोविन्दाराजू आर. रामैयाह	वैद्य विद्वान आ. आयु. परिषद्, विजयवाड़ा १६७४	11206 11.4.96	सी. एम. सी., १२६, होसाहल्ली, मंड्या ।
84874	गौरी शेनोय के. विट्टल शेनोय के.	बी. ए. एम. एस. मंगलौर वि. वि., मंगलौर १६६३	11247 29.5.96	के. के. शेनोय कम्पाउण्ड, दरबे पोस्ट, पुत्तूर तालूक, जिला डी. के. ।
84875	गुडागेरी अनिया चान्प्पा चान्प्पा बासप्पा गुडागेरी	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६१	10773 16.7.94	पद्मश्री क्लीनिक मैन रोड, हस्सेरी तालूक रायबाग, जिला बेलगाम ।
84876	गुरु राजा एम. बी. भुवाराह मूर्ध्ति	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६४	10986 3.5.95	विट्टल, विनोबागर, २ स्टेज, तालूक एवं जिला शिमोगा ।

18.

84877	गुरुमंजनाथ ए.एम.सिद्ध्या	आयुर्वेद भिषक नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १६७८	31001 22.5.95	अरथूर, पो.आ. हेबूर होबली, तालूक एवं जिला तुमकुर ।
84878	गुरुप्रसाद नावद यू.के. कृष्णा मूर्ति यू.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर	11044 11.8.95	पो.आ. उचीला, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
84879	गुरुप्रसाद राव एम. एम. शिवाराम राव	१६६२ बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर	2121 13.7.94	शिवापदमा स्त्रीनिक पो.आ. काक्कीन्ने, तालूक बेलथनगड़ी जिला डी.के. ।
84880	हबीबजानोबा नारायणसा नारायणसा	१६६२ आयुर्वेद भिषक नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १६६८	11017 1.7.95	नं. २२७२, नुदुविनापेट, वार्ड नं. ३, पो.आ. गुलेदुड्डा, तालूक बादामी, जिला बीजापुर ।
84881	हादरी माल्लप्पा कुअप्पा कुल्लप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़	10799 27.8.94	पो.आ. अठरगा, तालूक, इन्दी, जिला बीजापुर ।
84882	हादीमणि महन्ताप्पा अन्दनप्पा अन्दनप्पा बी. हादीमणि	१६६२ बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़	10904 2.2.95	पो.आ. मुशीगेरी तालूक रोम, जिला धारवाड़ ।
84883	हरिप्रकाश एम. सुब्राया भट एम.	१६६२ बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर	11071 21.9.95	'शान्धी निलाया' मल्लारी ग्राम पो.आ. कान्प, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
84884	हरिप्रसाद के. चिन्नय्या सुवार्णा एस.	१६६४ बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर	11091 17.10.95	मैन रौड, सुवार्णा प्रिन्टर्स सौन्दा मैसन पो.आ. बेलथनगड़ी जिला डी.के. ।
84885	हरिप्रसाद के.एस. शिवारामा गौडा के.	१६६३ बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10824 27.9.94	५१७, डी.पी. आई. ग्राम कुडुवुली, पो.आ. पणजीकल्लु, तालूक कसारगोडु ।

84886	हेब्बर वैद्य रामाकृष्णा रामाकृष्णा हेब्बर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९३	10842 18.11.94	१२४, बैंक क्वार्टरस, पो.आ. मणिल्ल, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
84887	हेजमदी शोभा जनार्दन हेजमदी	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९९३	10858 2.12.94	शिवा प्रसाद निवास दोड्डामाने पो.आ. हेजमदी, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
84888	हेमलथा एच.एल. बी.सी. राजू	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९५	11136 19.12.95	पो.आ. हवीकैरे तालूक टरीकैरे, जिला विक्रमगलूर ।
84889	हेमाराजा एस. के. सथीस हेगड़े	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९९५	11336 10.9.96	शिरूर ग्राम, गारादिमाने मुदुमाने पो.आ. मन्दरा, उडुपी तालूक जिला डी.के. ।
84890	हिप्पारागी राजशेखर गिरमाल्लप्पा गिरमाल्लप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९४	10896 1.2.95	द्वारा एम.जी. नन्देश्वर कागजी गली अठानी, बेलगाम ।
84891	हिरैमठ बासवाराज सतालिंगप्पा सतालिंगप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९३	10972 25.4.95	बालाचन्द्र सादना, आर.नं. २६, विधानगर हुबली, जिला धारवाड़ ।
84892	हिरैमठ चन्नाम सिद्धप्पा सिद्धप्पा बतालिंगप्पा हिरैमठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९४	11191 13.3.96	साई नगर रोड, छाटी ओनी, पो.आ. उनक्ल, तालूक हुबली, जिला धारवाड़ ।
84893	हिरैमठ दयानन्द विश्वनाथ विश्वनाथ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९३	10768 2.7.94	हुन्नुर पोस्ट जमखण्डी तालूक, जिला बीजापुर ।
84894	हिरैमठ जगदीश गुरुपदप्पा गुरुपदप्पा पी. हिरैमठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९४	11053 26.8.95	गासवी चाल, नवलगुन्द, धारवाड़ ।

84895	हिरमठ रेखा नगदरय्या नगदरय्या शिवय्या हिरमठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11113 23.11.95	गोठांजली' नं. २४, रविन्द्र नगर विधाननगर, पो.आ. हुनाकल, तालूक हुबली, जिला धारवाड़ ।
84896	हिरमठ एस.जी. मुस्देस हिरमठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६०	11032 26.7.95	अनुग्रह निलाया', गनेश कालोनी, १- क्रॉस, बेल्लारी ।
84897	हिरमठ वीरमदैयाह मरियाह मरियाह	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10943 28.2.95	पो.आ. माडलागेरी तालूक रोन्न, जिला धारवाड़ ।
84898	हिरमठ वीरय्या बालय्या बालय्या	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10722 22.4.94	पो.आ. हुलीकट्टी, तालूक सावदधी, जिला बेल्लाम ।
84899	होला जगदीश सुबराय सुबराय होला	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६७	2147 15.3.95	"चेतन्या क्लीनिक", २० पीट रोड, मुनेश्वरा ब्लाक जईएफ पोस्ट, बंगलौर ।
84900	होसमानी उषा रामन्ना रामन्ना भारमन्ना होसमानी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10987 3.5.95	पिठरुचया बिल्डिंग निकट घोदके फैक्ट्री ओल्ड हुबली, जिला धारवाड़ ।
84901	हुबलीकर चन्द्रकान्त कृष्णासा कुष्णासा	बी.ए.एम.एस. गुजरात आयु.वि.वि., जामनगर १६६४	11410 9.1.97	चन्नापेट, ओल्ड हुबली, निकट बाबूराव बकेरी हुबली, जिला धारवाड़ ।
84902	हुदूर शिवाकुमार फकीरप्पा फकीरप्पा शिवाप्पा हुदूर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11180 26.2.96	पो.आ. गजेन्द्रगड, तालूक रोन्न, जिला धारवाड़ ।
84903	हुगर रविन्द्र चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10811 7.9.94	पो.आ. धाडवालागा तह. इन्दी जिला बीजापुर ।

84904	हुलीकान्तीमठ पनकलैस्सरी सिद्धबसय्या सिद्धबसय्या	बी.ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६३	10880 11.1.95	बासवेश्वरनगर- लाईनस, निकट इगलिश मिडियम स्कूल, हवेरी, जिला धारवाड़ ।
84905	इरान्ना करडकर गुरुपुत्रा करडकर	आयुर्वेद चिकित्सक नि. भा. आयु. विद्यापीठ, दिल्ली १६७७	11411 9.1.97	महादेव गली, अनकले पोस्ट, चिक्कोटी तालूक, जिला बेलगाम ।
84906	ईश्वर जे. कौलगी जागदेव नीलापा कौलगी	बी.ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १६६५	11244 23.5.96	सावद पोस्ट, बीजापुर तालूक एवं जिला ।
84907	ईश्वरप्पा इल्लक्कल गुरुपादप्पा	आयुर्वेद चिकित्सक नि. भा. आयु. विद्यापीठ, दिल्ली १६७८	10970 20.4.95	पो. आ. कोट्टुमचगी, तालूक गडग, जिला धारवाड़ ।
84908	जादामली मंजुनाथ काल्लप्पा काल्लप्पा	बी.ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६५	11172 16.2.96	पो. आ. होले-अनूर, तालूक रोन, जिला धारवाड़ ।
84909	जगदेश एम. एस. एम. शिवाशनकरैयाह	बी.ए. एम. एस. मैसूर वि. वि., मैसूर १६६५	11246 29.5.96	“श्री वीरभद्रेश्वरा निलाया” विद्यानगर चित्तुर्ग ।
84910	जगदेश एस. एस. शिवास्वामी	बी.ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १६८४	11349 24.9.96	म. नं. १४ ई डब्ल्यू एस, दूसरा स्टेज, हनुमन्थनगर, बन्नीमन्तप प्रसार मैसूर ।
84911	जगदीश आई. हिरैमठ इरय्या हिरैमठ	बी.ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १६६४	11019 4.7.95	पो. आ. बेलाबनकी, तालूक रोन, जिला धारवाड़ ।
84912	जगदीश पाई के. गोपाल पाई के.	बी.ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६०	2108 2.4.94	अश्विनी क्लीनिक, माधव सौधा पो. आ. करक्ला, जिला एस. के. ।

84913	जगदीशा के. कृष्ण शेट्टी बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11307 26.8.96	“जयश्री सदन” गोलिशिंगडी, बेलवा पोस्ट, कुन्दपुर तालूक, जिला डी.के.।
84914	जयकृष्ण नायक सुरेन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६१	11005 26.5.95	नं.१०५ एकेदमी क्वार्टर्स, पो.आ. मणिपाल, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
84915	जैन अशोक कुमार माल्लप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2118 26.5.90	पो.आ. माडलागेरी तालूक हरपना हल्ली, जिला बेल्तारी।
84916	जामखण्डी मंगत बलराज बलराज जी. जामखण्डी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11047 16.8.95	द्वारा बलराज जामखण्डी नं.२०४, पो.आ. सावदी, तालूक रोत, जिला धारवाड़।
84917	जमुनादेवी आर. टी.एस. रंगनाथ	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11398 31.12.96	रंगनाथ स्वामी टेम्पल स्ट्रीट, हुलीयार पोस्ट, विकन्याकनहल्ली तालूक जिला तुमकुर।
84918	जानकी आर. रंगप्पा	वैद्य विद्वान आ.आयु परिषद्, विजयवाड़ा १६७४	11433 17.2.97	नं. ७२६, चौथा क्रॉस, दूसरा मैन प्रकाशनगर, बंगलौर।
84919	जानू विजय सदानन्दा सदानन्दा नागप्पा जानू	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६१	10829 30.9.94	ई.डब्ल्यू.एस.३६२, गमना गल्ली रोड, पो.आ. नवानगर धारवाड़, जिला हुबली।
84920	जल्लि अक्कुर्द ईरप्पा ईरप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10771 11.7.94	पो.आ. अंकली, तालूक चिकोडी, जिला बेलगाम।
84921	जल्लि इस्माल बाबासाहेब बाबासाहेब	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६६	11419 25.1.97	ग्राम एवं पो.आ. घोनासगी, जिला बीजापुर।

84922	जयाचन्द्रन डी.जी. कन्नन ए.के.	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६७४	11434 17.2.97	रवि नर्सिंग होम, स्टेडियम रोड, चिकबल्लपुरा, जिला कोलार ।
84923	जयालक्ष्मी के. वी.कृष्णास्वामी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	10884 13.1.95	१६६२/१७-५ दूसरा क्रास रोममोहन पुरम, श्रीरामपुरम, बंगलौर ।
84924	जयन्ती कुमारी बी.आर. शान्ती के.आर.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	11421 28.1.97	नं. ८३, १३ क्रास, द्वा.मैन विलसन गार्डन, बंगलौर ।
84925	जयराम भट के. कृष्णाराजा भट के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६८२	10919 8.2.95	एम.एम. २२-६२, कम्बाला कट्टा करोदाश्रम पो.आ. एवं तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
84926	जयराम यू.पी. परमेश्वर भट यू.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८३	11011 7.6.95	विनायका फार्मसी, ग्राम कल्लुगुन्दी, पो.आ.सम्पाजे, तालूक सुल्लया, जिला डी.के. ।
84927	जयशंकर हिरेशठ महन्तय्या हिरेशठ	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८३	2139 2.2.95	२३, ओल्ड बैंक कालोनी, काननाकुटे उद्दकल्लासदा, बंगलौर, सौल्य बंगलौर ।
84928	जयाश्री के. नागराज भट	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६८४	11428 12.2.97	“चेठनाथा”, कुटीकना पोस्ट, वाया पेराडाला कसारगोड, जिला केरला ।
84929	जयाश्री एस. वी.एस. मूर्ध्नि	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	11363 17.10.96	मैसर्स श्रीवेन्स कम्पनी. नं.३३, १३ क्रास, गेदुदलहल्ली, बंगलौर ।
84930	जीर संजय काल्पया काल्पया बीमन्ना जीर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10998 20.5.95	निकट के.बी.एस. नं.७, शाहपेट, शाहपेट गली, बीजापुर ।

84931	जीरे रामशास्त्री शंकरशास्त्री शंकरशास्त्री जीरे	बी.ए.एम.एस. कनॉटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10756 23.5.94	दत्ता टेम्पल रोड, पो.आ. गजेन्द्रगढ़, तालूक रोन, जिला धारवाड़ ।
84932	जियेन्द्र शेट्टी स्व. सुन्दर शेट्टी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10746 6.5.94	पो.आ. मनूर, तालूक उडुपी, जिला साउथ कर्नाटक ।
84933	ज्योथी के. शेट्टी ए. कृष्णा शेट्टी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10895 1.2.95	३८२, तीसरा ब्लॉक, तीसरा स्टेज बी. मैन बासवेश्वरनगर, बंगलौर ।
84934	ज्योथी लक्ष्मी पाटिल कृष्णाराया पाटिल पी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11162 29.1.96	पाटिल हाउस, पो.आ. पेठरी चेरकुडी तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
84935	ज्योथी एम.एस. सुब्बारमैयाह एम.एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11306 26.8.96	ध्यागराज रोड, फोर्ट मालावल्ली, मालावल्ली पोस्ट, जिला मंड्या ।
84936	ज्योथी एस.मूर्थी एन.के.श्रीधर मूर्थी	बी.ए.एम.एस. कनॉटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10766 14.6.94	नदाहल्ली पो.आ. एवं तालूक सोरब, जिला शिमोगा ।
84937	ज्योथी सारस्वती के.वी. वरदराजन के.एन.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10736 26.4.94	१२७, १४ क्रॉस ८ मैन बी.आई.एम. लेआउट दूसरा स्टेज, बंगलौर ।
84938	ज्योथीलक्ष्मी पी.बासवना गौडा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11325 5.9.95	म.नं. ११-६-२०/१-ए, बरेस्टरपेट, रायचूर ।
84939	के.विजयकुमार विश्वनाथ राव	बी.ए.एम.एस. उस्मानिया वि.वि., हैदराबाद १६८५	10992 12.5.95	द्वारा चन्द्र सेनम, ३-२-१२१, ब्रह्ममवाडी, चौबारा बिंदर ।

84940	के.वी. चीना वेकटा शेटी के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11083 10.10.95	म.नं. २६३, ट-कास, ४ मैन रोड, १-फेस विजयनगर, मैसूर ।
84941	कब्बुर राजशेकर महालिंगप्पा महालिंगप्पा एन कब्बुर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10796 24.8.94	७८, वसन्ध नगर, सोलापुर ।
84942	कादप्पा सी. कामध चन्द्रामाप्पा सी. कामध	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	10971 25.4.95	पो.आ. इटागी, तालूक बासवनबागेवाडी, जिला बीजापुर ।
84943	कादिमदीवान अरुधती कृष्णाराव कृष्णाराव डी. कादिम दीवान	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2152 20.6.95	नं. ५०, १ कास हनुमप्पा लेआउट, सुल्यान पल्या आर.टी. नगर, बंगलौर ।
84944	काजानर नागराज चान्नाप्पा चान्नाप्पा जी. काजानर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10853 24.11.94	पो.आ. यवागल, तालूक रोन, जिला धारवाड़ ।
84945	काखन्दी निर्मला हनमन्थ काखन्दी हनमन्थ भीमाराय	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10960 27.3.95	डब्ल्यू.एस. १४६, आदर्शनगर न्यू हुडको विजया कालेज कैम्पस, बीजापुर ।
84946	कलाधर डी.वी. विष्णु भट डी.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६८	10762 3.6.94	प्राकृती क्लीनिक पो.आ. बासरालू तालूक मंडया ।
84947	कालघटीगी माधुरी सत्याबोध सत्याबोध कालघटीगी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11025 11.7.95	म.नं. १४७०६, गुरुकृपा केशवनगर, जिला धारवाड़ ।
84948	कली यमनप्पा दरियप्पा दरियप्पा बसलिंगप्पा कली	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६६	11417 24.1.97	नं. ४८, नवाबाग, जिला बीजापुर ।

84949	कल्लुदी सुवर्णदिवी मुद्दुरैयाह	वैद्य विद्वान आ.आयु परेषद, विजयवाड़ा १६८१	11304 17.8.96	संजीवारेड्डी विस्डिंग एम.एच. रोड, कोडिगिनाहल्ली पोस्ट, मधुगिरी तालूक जिला तुमकुर ।
84950	कस्यमा कुमारी बी. एन. वीरप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	10941 22.2.95	४७, बुद्धा विहार रोड, प्राजर टाउन, बंगलौर ।
84951	कमला आर.जे. उमेश बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	10985 3.5.95	नं. ५३ (१६६७), १-कॉस, २१ मैन विजयनगर, बंगलौर ।
84952	कमलनिशा के.एच. के.पी. हुसैन	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	10867 16.12.94	कूर्ग कोन्दीमेन्ड्स, असवथकट्टे मैन रोड कस्तूरी- बंगर मैसूर रोड, बंगलौर ।
84953	कामते प्रकाश मालप्पा मालप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	11168 12.2.96	मैन रोड, पो.आ. बल्लोली, तालूक इन्दी, जिला बीजापुर ।
84954	कंचना एम. भट एच. शम्भू शर्मा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८२	10949 21.3.95	द्वारा एच.एस. शर्मा, २७६, राजेन्द्रनिवास ३-ए, मैन रोड कोरामंगला, बंगलौर ।
84955	कन्नुरे रावनासिद्धप्पा मालप्पा मालप्पा रावनासिद्धप्पा कन्नुरे	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	11173 19.2.96	पो.आ.संख, तालूक जय, जिला सांगली ।
84956	कंठराज टी.एम. शिवानन्दैयाह टी.एम.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	11068 15.9.95	नं.डी-१४६, १-कॉस विधानगर, शिमोगा ।
84957	कराधाकट्टी शन्तबा वीरप्पा वीरप्पा के.बी. कराधाकट्टी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८३	10901 1.2.95	शाहपुरेट पो.आ. गडग, जिला धारवाड़ ।

84958	करुणाकर चौधरी वीरप्पा बासप्पा चौधरी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11165 30.1.96	पो.आ. बासवना बागवाड़ी, जिला बीजापुर ।
84959	काशीनाथ माल्लप्पा बैरामल्ली माल्लप्पा बैरामल्ली	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2196 9.9.96	नं. १६१/१, मैसूर रोड, बंगलौर ।
84960	कस्तूरी एम.आर. के.पुट्टारंगप्पा	वैद्य विद्वान आ.आयु परिषद्, विजयवाड़ा १६७८	11260 17.6.96	श्री रूपा क्लीनिक, नं. ७३५-ए, एम.जी. रोड, बंगलौर ।
84961	कट्टीमणि काल्लप्पा शिवापुत्रा शिवापुत्रा कट्टीमणि	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10757 23.5.94	६५६, पो.आ. इयनापुर तालूक अठांनी, जिला बेलगाम ।
84962	कट्टीमणि रविन्द्र गुरुलिंगप्पा गुरुलिंगप्पा बी. कट्टीमणि	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11100 31.10.95	नं. २३२४, "मीना" मराठा गली, पो.आ. गोकक, जिला बेलगाम ।
84963	कट्टीनापुदी करुणाकर राव कट्टीनापुदी रामाराव	बी.ए.एम.एस. नागार्जुन वि.वि. नागार्जुन नगर १६८७	10913 2.2.95	७, ओकली कैम्प विश्वविद्यालय मैन रोड, गुलबर्गा ।
84964	कावेरी कुट्टप्पा के.एस. कुट्टप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11331 9.9.96	नं. २६, "सोनसा मैशन", गुरुमहल प्रसार कम्पोगेन्डनहल्ली, बंगलौर ।
84965	कविता एम. मरिबासवा स्वामी के.एस.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10818 24.9.94	६०४, सी.एच.आई. माधवाचार रोड, मंजूमल्ली सर्कल तस्मीपुरम, मैसूर ।
84966	क्रेमभावी आकाश सुहास सुहास	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10935 14.2.95	७५, "चेतन्या" जे.पी. नगर, । मैन रोड उदयपानगर हुबली, जिला धारवाड़ ।

84967	केशवा पी.के. स्व. कृष्णा गौड़ा पी.एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10801 27.8.94	६१८, डी.पी. २, कृष्णा निवास ऐस्सुन्द्या पो.आ. कस्तूरामप्पल्ली तालूक होसदुर्ग, जिला कसादगोडु ।
84968	केशवा प्रसाद सी.एच. सी.एच.गोपलकृष्ण भट	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	11394 31.12.96	श्री कृष्णा क्लीनिक, बाजार स्ट्रीट, वनारोटे, विवेकनगर, बंगलौर ।
84969	क्रिष्णामी वेंकटा नागरथना मणि चन्द्रशेखर एस.	बी.ए.एम.एस. नागार्जुन वि.वि. नागार्जुन नगर १६६९	11163 29.1.96	म.नं. १०३, ५ क्रास, २६ मैन रोड, बी.टी.एम. लेआउट, बंगलौर ।
84970	किशन कुमार ए. महालिंगा भट ए.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10847 18.11.94	४०७/८, श्रीनिलया ग्राम ईपीपुरा पो.आ. विवेकनगर, बंगलौर ।
84971	किशनगौड़ा एस. एम. देवेन्द्र गौड़ा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11111 20.11.95	म.नं. २३ डी/१८, ३ क्रास, नेहरू कालोनी बेल्लारी ।
84972	किशोरी एस.ए. परशवानाथा पी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	11150 20.1.96	पदम्या बेल्लु हाउस, पो.आ. कबलाकट्टे, तालूक बन्तवाल, जिला डी.के. ।
84973	किशोर कुमार कोदालबेल के.जी. मनई	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2203 10.10.96	नं. ६५६, पहली मैन रोड, दिवानरप्प्या, बंगलौर ।
84974	कोपद शंकर सिद्धप्पा सिद्धप्पा बासप्पा कोपद	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11021 4.7.95	पो.आ. मुगलखोड, तालूक रायबाग, जिला बेलगाम ।
84975	कोराधनामठ मल्लिकार्जुनप्पा शिवाबासय्या शिवाबासय्या	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	11160 24.1.96	म.नं. २८, पो.आ. कोदीकोप्पा (नरैगल) तालूक रैन, जिला धारवाड़ ।

84976	कोराधन्यामठ वीरेश शंकरय्या शंकरय्या	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६३	10749 11.5.94	पो. आ. गजेन्द्रगढ़, तालूक रोम, जिला धारवाड़ ।
84977	कोरी अशोक इश्वरणा इश्वरणा	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	11178 24.2.96	इनामदार कालोनी, बी. एल. डी. ई. रोड, पो. आ. काठन्दी, जिला बीजापुर ।
84978	कोरिशेट्टर बासवाराज काशपा काशपा कोरिशेट्टर	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६३	11012 7.6.95	ग्राम कल्लुर, पो. आ. बेनचली, तालूक गडग, जिला धारवाड़ ।
84979	कोटरन्नावर सतीशकुमार संगमेश संगमेश	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	10908 2.2.95	२०, संगमेश्वरा कालोनी ज्ञानबौदी, जिला बीजापुर ।
84980	कोस्थुभा जी. वाई. जी. यमनेश्वरा उपाध्याय	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६५	11129 14.12.95	नं. १०/१, १ क्रास, चतराम ब्लॉक, गोंदपुरम, बंगलौर ।
84981	कुपेश पी. रमणा टी.	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	10993 15.5.95	श्री कृष्णनिवास पीछे ज्योथी थियेटर, पो. आ. होसदुर्ग, जिला चित्रदुर्ग ।
84982	कुलकर्णी दत्तात्रेय काशीराव काशीनाथ वैकट राव कुलकर्णी	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	11177 24.2.96	द्वारा जी. वी. कुलकर्णी माने हाउस, शाहू नगर गुम्बेवाडा तालूक सिन्दगी, जिला बीजापुर ।
84983	कुलकर्णी ज्योत्सना भीमासेन भीमासेन पुत्तो कुलकर्णी	बी. ए. एम. एस. शिवाजी वि. वि., कोल्हापुर १६६१	11057 1.9.95	नं. २६/१६२, वेस्ट चह चौड रोड, किरलोसकर कालोनी, बासवेश्वरा नगर, बंगलौर ।
84984	कुलकर्णी मुकुन्द रमेशराव रमेशराव	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	11179 24.2.96	द्वारा आर. ए. कुलकर्णी, पीछे चावल, बगलकोट क्रास बगलकोट रोड, बीजापुर ।

84985	कुलकर्णी शालिनी कृष्ण राव रामचन्द्र जी. कुलकर्णी	बी. ए. एम. एस. पूना वि. वि., पुणे १९८४	11056 1.9.95	नं. १६१, रत्नघाट रोड, सुकन्या वर्किंग वूमैन होस्टल कैम्प, बेलगाम ।
84986	कुलकर्णी श्रीकान्ध वेकटेश वेकटेश	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १९६१	10835 12.10.94	कोलार गली पो. आ. हुनुर तालूक जामखंडी, जिला बीजापुर ।
84987	कुलकर्णी विनोद प्रकाश प्रकाश भीमराव कुलकर्णी	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १९६३	10871 28.12.94	पो. आ. हलने, तालूक खानपुर, जिला बेलगाम ।
84988	लक्ष्मी चरिया आर. ए. रामैयाह	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १९६५	11305 26.8.96	नं. २०/२, ४ क्रास, मल्लेश्वरम, पहला फेस, बंगलौर ।
84989	लक्ष्मी एच. जी. शिवायाम एन. जी.	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १९८६	11345 12.9.96	नं. ६६, ७ क्रास, जे. पी. नगर, पहला फेस, बंगलौर ।
84990	लक्ष्मीनारायणा पंडित पो. एन. पंडित	बी. ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १९८८	11190 13.3.96	म. नं. ६३८, खाबू भाग, कुर्सवाड़ा, कृवार जिला एन. के. ।
84991	ललिथा यू. एच. लक्ष्मी नारायणा राव यू. एच.	बी. ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १९६४	10854 24.11.94	५६७, १४ मैन रोड, बनशनकारी पहला स्टैज पहला ब्लॉक, हनुमन्थनगर, बंगलौर ।
84992	ललिथम्मा एच. के. आर. बास्कर	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १९८४	2204 15.10.96	द्वारा एम. वी. रामाचन्द्र राव कोटे बैल, अस्तिगन्दी पोस्ट, विक्रमंगलौर ।
84993	लता देवी एस. एम. के. वैकटराम	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १९६६	11409 9.1.97	नं. २४, ६ मैन, नारायणप्पा ब्लॉक, आर. टी. नगर, बंगलौर ।

84994	लथा एस. शिवाराया होल्ला	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11241 23.5.96	नं.८/१, "हरी सर्ईनाथ निलाया, ५वा क्रस, अंजन्था टेम्पल रोड, नागासन्ना, बंगलौर ।
84995	लतिफ अहमद घोष मोहिउद्दीन इन्दीकर घोष मोहिउद्दीन एम. इन्दीकर	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८२	2199 30.9.96	द्वारा एम. अब्दुल सुमान नं. ७४१, ३० 'एव' क्रस, तलकनगर, निकट कारमेल कन्वेंट ईस्ट एवं रोड, बंगलौर ।
84996	लक्ष्मण एन कुलकर्णी नारायणा राव	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2119 14.6.94	८४०/४, सीथारामजननेया निलाया, बहाबलीनगर जलाहल्ली, बंगलौर ।
84997	लीला रानी आर. गवीसिद्धप्पा आर.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10752 13.5.94	१०६, वार्ड नं.१७, पटेली नगर, ग्राम एवं पो.आ. बेल्लारी ।
84998	एम.श्रीदेवी एम. लक्ष्मी रेड्डी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६२	11103 4.11.95	नं.५४२/१, विद्यार्थी भवन, के.टी.जे. नगर, १३ क्रस, पो.आ. दवनगरे जिला चित्रदुर्ग ।
84999	एम.सी. शिवा स्वामी स्व. चान्पप्पा	आयुर्वेद शिषक नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १६७०	11003 23.5.95	श्री गुरु कृपा, ऐ.वी.आर. रोड, जे.सी. एक्टेशन तालुक कनकापुरा, बंगलौर ।
85000	एम.आर. नगराजू एम. रेवन्ना	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2136 6.1.95	३, २-क्रस, विलसन गार्डन, बंगलौर ।
85001	एम.एस. सुधा श्रीकान्तैयाह बी.बार.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2116 26.5.94	७६६, २५-क्रस रोड, ४ मैन रोड, विद्वानासथापुर, मैसूर ।
85002	एम.एस.विद्या भवानी सत्वनारायणा गुप्ता	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10979 29.4.95	म.नं. ३३२, "शान्धी निवास", २५ क्रस, ६ मैन रोड, बन्नालकारी, २ स्टेज, बंगलौर ।

85003	मितागर लक्ष्मण तुक्काराम तुक्काराम मितागर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८१	10718 6.4.94	बासवन देवर स्ट्रीट मुगलिहल खानापुर, जिला बेलगाँव ।
85004	माधवा डी. वेन्गोपालाचार	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10879 10.1.95	बी.एच. रोड रानीपेट पो.आ., होसपेट, जिला बेल्लारी ।
85005	माधवी बी. आनन्दा कुमार बी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६८५	11106 15.11.95	नं. ३/२४, कसाई स्ट्रीट, कालमा स्ट्रीट, सामने एस.आर.आर. थियेटर, बेल्लारी ।
85006	मधुकरा शेट्टी टी. विश्वनाथ शेट्टी के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	10735 26.4.94	जनादी हरदल्ली मनदल्ली, कुन्दापुर, डी.के. ।
85007	मधुसूयी एम.एस. एन. नागेश	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८७	2112 11.5.94	फ्रिजिसियन गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक होस्पिटल, पो.आ. चिक्कूर तालूक अरसिकेरे, जिला हसन ।
85008	मधुसूदन के.एच. आर. हनुमन्था चारी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८८	11408 7.1.97	नं. ८६२/ए, तीसरा क्रास, अशोकनगर, बनशनकारी पहला स्टेज, दूसरा ब्लॉक, बंगलौर ।
85009	मधुसूदन एन. नारायणा स्वामी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८९	2183 26.12.95	म.नं. ३५, ओल्ड नं. ५३, अमर निलया, ५ क्रास, १४ मैन एव.एम.टी. लेआउट, पो.आ. मठीकेरे, बंगलौर ।
85010	मधुसूदन के.एन. नारायणप्पा के.जी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६९०	10750 13.5.94	मंजूनाथ क्लीनिक, पो.आ. पालाहल्ल, तालूक श्रीरंगपटना, जिला मंड्या ।
85011	मदीवालर साईप्रकाश रामाचन्द्र रामाचन्द्र	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६९१	11050 21.8.95	पो.आ. होले अबूर, तालूक रोन, जिला धारवाड़ ।

85012	महम्मद इकबाल के. सादकुली के.एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	10912 2.2.95	आयशा मंजिल ग्राम बेतारिंग, पो.आ. किन्या, जिला मंगलौर जिला डी.के. ।
85013	महन्तेश सी.हिरमठ चन्द्रशेखरय्या हिरमठ	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11391 31.12.96	कलागुरकी पोस्ट, बासवना बागेवाड़ी तालूक, जिला बीजापुर ।
85014	महादेवर सरोजिनी दाताया दाताया मल्लारी महादेवरकाई	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	11116 28.11.95	म.नं. ए/२६०१, सिन्धुगुटा रोड, रविवारपेट, पो.आ. गोआक्क, जिला बेलगाम ।
85015	महेश जी. बडीगेर गन्या एस. बडीगेर	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11355 7.10.96	हलापुर पोस्ट, गडाग तालूक, जिला धारवाड़ ।
85016	महेश यू. दिनकरपाई यू.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६०	10925 25.3.95	१-७/१, "इन्द्रप्रस्था" अलेवर मणिपाल रोड, गुदयेनगडी, अलेवर, जिला उडुपी, जिला डी.के. ।
85017	महेश्वर शिवापुरया गुग्गरी एस.पी. गुग्गरी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	2214 22.3.97	"गुरु कृपा", हेबाल्ली पोस्ट, बादामी तालूक, जिला बीजापुर ।
85018	महिषी रविन्द्र श्रीनिवास	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10976 27.4.95	नं. १६/१, डा. मशिषी कम्पाउण्ड, मशिषी रोड, पो.आ. मलमद्वी, जिला धारवाड़ ।
85019	माला राव रामाचन्द्र राव	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11154 23.1.96	फर्नी राजेश प्रभू नं. ६०/५, ३ क्रॉस, २५ मैन रोड, बी.टी.एम. लेआउट, २ स्ट्रेज, बंगलौर ।
85020	मालावणी दयानन्द मलकण्या मलकण्या सिद्धया मालावणी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11176 24.2.96	द्वारा बी.पी. रूगी (एडवोकेट), थिरिपुरा सुन्दरी रोड महात्मा गांधी मैन रोड, बीजापुर ।

85021	मालाप्रभा आर. रूद्रापुर रामलिंग मल्लपा रूद्रापुर	बी.ए.एम.एस. कर्मटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10876 4.1.95	मोलशेट्टी चाची नासवानगर, पो.आ. एवं तालूक बैलहोगल, जिला बेलगाम ।
85022	मालथी देवपा कोफन रामावन्द के.एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	10790 11.8.94	३-२-४, "ओम गुप्तासाद" नेशनल हाइवे नं. १७, अम्बालापाडया तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85023	मालथी सिन्हा एस.डी. दुर्गाप्रसाद सिन्हा एस.वी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11141 23.12.95	म.नं. २१५, ५ कास, ५ मैन रोड, गंगानगर लेआउट, बंगलौर ।
85024	मल्लावरपु सरोजम्मा एम.वी. ब्रह्मानन्दा रेड्डी	वैद्य विद्वान आ.आयु परिषद, विजयवाड़ा १६७२	10891 30.1.95	कुम्बारा बीडी कोराबागरे जिला तुमकुर ।
85025	मल्लावरपु वीरब्रह्मानन्द रेड्डी स्व. एम. कृष्णा रेड्डी	वैद्य विद्वान आ.आयु परिषद, विजयवाड़ा १६७२	10890 30.1.95	कुम्बारा बीडी कोराबागरे जिला तुमकुर ।
85026	मल्लिकार्जुन बी.एस. बुडल शंकरप्पा	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10914 2.2.95	११०/१, के.एन. गली, पो.आ. दावनगरे, जिला चित्रदुर्ग ।
85027	ममथा आचार्य आचार्य एन.एच.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11233 14.5.96	नं. ११७, १, "एफ" कास, तीसरा स्टेज, ४ ब्लॉक, बासवेश्वरनगर, बंगलौर ।
85028	ममथा जी. बालाकृष्णा पैसारी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10713 5.4.94	६७६, १४ मैन रोड, ६ कास टी.के. लेआउट ४ फेस, कुम्भनूर, मैसूर ।
85029	ममीदला रमनाकुमारी गांधी ममीदला	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	14042 9.8.95	द्वारा एम. राजगोपाला राव, नं. १-२-३३०/३, म्यालोरा गुड्डा, चितवला गुडा, सिकन्दराबाद ।

85030	मानदे प्रभाकर कमलाकर कमलाकर एस. मानदे	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11143 23.12.95	म.नं. १३७, प्रकाश बिल्डिंग, शिवागिरी धारवाड़ ।
85031	मंगला बी. एन.सी. भास्कर	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10728 26.4.94	१८-बी-३, मैन रोड, अलानहल्ली लेआट, मैसूर ।
85032	मंगला जी. नाडकर्णी जी.एम. नाडकर्णी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10886 13.1.95	४७, ३ टेम्पल स्ट्रीट, के.आर. एरम, मल्लेश्वरम, पो.आ. बंगलौर ।
85033	मंगला जगन्नाथ सात्वती अशोक कुमार गडगडे	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापुर १६७६	10804 31.8.94	५-१-४६, मैन रोड, पो.आ.शोणपुर, जिला गुलबर्गा ।
85034	मंगला शेनोय के. के. गनेश शेनोय	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11404 3.1.97	“उषा” नं. ६६, ४ क्रॉस एस.बी.एम. कालोनी, बनशानकारी पहला स्टेज, बंगलौर ।
85035	मनीषा लक्ष्मण पास्लेकर लक्ष्मण आचार्याराम पास्लेकर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10978 28.4.95	डाबले चाल, पी.बी. रोड, पो.आ. संक्षेवर, तातूक हुक्केरी, जिला बेलगाम ।
85036	मंजूला के. कृष्णा मूर्धे के.वी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11274 26.8.96	नं. ४६, कुवेम्पूर, तुमकुर ।
85037	मंजूला एन. नागबुशना एन.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11330 9.2.96	म.नं. ८, बक्शी मंजिल, पहला क्रॉस, सिद्धेश्वरा नगर, शिमोगा ।
85038	मंजूनाथा गौड. पी. कुमार गौड पटेल	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	10926 14.2.95	३७/१, मास्वीनिलाया पीछे नदी स्कूल, साउथ क्रॉसमैन्ट, जिला बेल्लारी ।

85039	मनोज कुमार शेटी एन. रघुरामा शेटी के.	बी.ए.एम.एस. मुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11212 18.4.96	नूजादी पोस्ट, कुन्दपुर तालूक, दक्षिण कन्नड जिला
85040	मनोज कुमार के.बी. भारकरन वैद्यान	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६६	11280 5.7.96	नं. २१८/११, बहुबली नगर, जलाहल्ली पोस्ट, बंगलौर ।
85041	मनोनमणि एल. लक्ष्मीनरसिन्हा मुर्थी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10807 1.9.94	७४२, 1 मैन रोड, ७ ब्लॉक, दूसरा फेस, बनशनकारी तीसरा स्टेज, बंगलौर ।
85042	मरियेवा सर्मा टी.एच.एम. टी.एच.एम. जम्बुनाथ सर्मा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2123 30.8.94	२६/१८, २ लिंक रोड, पर्वधीनगर, बेल्लारी ।
85043	मैरी अण्णा लोईस लोईस एम.टी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10981 29.4.95	सी-२४, बी.ई.एल. ऑफिसिस कालोनी पो.आ. जलाहल्ली, बंगलौर ।
85044	मशाल श्रीनिवास गोपाल गोपाल	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	11169 12.2.96	पो.आ. सुलेभावी, तालूक हुनामुन्दा, जिला बीजापुर ।
85045	मथद प्रभाकर चन्द्रय्या चन्द्रय्या	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	11008 2.6.95	पो.आ. मेलमाने हट्टी, तालूक गोकक, जिला बेलगाम ।
85046	मथापति शकुन्तला शिवय्या पूजारी उलवय्या सिद्धय्या	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10923 14.2.95	१७ २ भाय्यश्री बिल्डिंग बानागर मली जोरापुर पेठ, जिला बीजापुर ।
85047	मथापति सोमेश्वरय्या एस. शिवशंकरय्या	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10789 8.8.94	पो.आ. हाठगी, तालूक हुक्केरी, जिला बेलगाम ।

85048	मीना वाई बोम शर्मा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11352 7.10.96	म.नं. एम.आई.जी. १३, गार्दीनगर, जिला बेल्लारी ।
85049	मीनाक्षी सी.वाई. चान्प्या	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	2150 28.4.95	गुलाम हुसैन गली, खमन खाना बाजार, बीजापुर ।
85050	मीनाक्षी मालाकय्या कन्तीकर महास्वरय्या स्वामी कान्तीकर	बी.ए.एम.एस. शिवगिरी वि.वि., कोल्हापुर १६८८	10997 18.5.95	पो.आ. एवं तालूक औरद, जिला बिदर ।
85051	मीरा एस. नगेन्द्र एस.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10974 26.4.95	म.नं. ३-४-३४४/२, "श्रीकृष्णा निलय" कटरीकम्बला रोड, पो.आ. बिजय, तालूक मंगलौर, तालूक डी.के. ।
85052	मेल्लेगट्टी बासलिंगप्पा चान्बासप्पा चान्बासप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10775 20.7.94	नेकरा नगर ओल्ह हुबली, जिला धारवाड़ ।
85053	मीनाक्षी प्रिरुषास्वामी वीरय्या सी. कलमठ	बी.ए.एम.एस. शिवगिरी वि.वि., कोल्हापुर १६८६	11430 14.2.97	नं. १७३७, नलवाडगली, गडग, पोस्ट एवं तालूक जिला धारवाड़ ।
85054	मिनी नायर वी. नायर पी.वी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10982. 29.4.95	नं. ८, लक्ष्मैयाह रेड्डी रोड, पो.आ. उलसोर, बंगलौर ।
85055	मोक्षल नागुर बाबा बैंग एम. दवाजी	वैद्य विद्वान आ.आयु परिषद, विजयवाड़ा १६७८	10888 30.1.95	के.६६/ए, ३ मैन एल.एन. पुरम, बंगलौर ।
85056	मोहम्मद गौससाहब एल. नादफ लोकुसाहेब डी. नादफ	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11356 7.10.96	मादी पोस्ट, शिराहट्टी तालूक, जिला धारवाड़ ।

85057	मोहन मास्ती एवं जिद्दीमणि मास्तीराव जिद्दीमणि	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापुर १६८१	10805 31.8.94	७४-११, बसस्टैण्ड रोड, पो.आ. तालूक आलन्द, जिला गुलबर्गा ।
85058	मोहन एस.जी. एस.बी. गोविन्दप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11407 6.1.97	कृष्णा क्लीनिक, तुल्लेक्कुरे पोस्ट, जिला तुमकुर ।
85059	मोहनकुमारी बासवाराज लिंगटे	डी.ए.एम. बोर्ड आफ स्टडीज इन इंडि.मेडी., मैसूर राज्य १६६८	10764 10.6.94	३६०, जय निकेयन ईस्ट मंगलवारपेट, सोलापुर ।
85060	मोहनराज आर. राजप्पा आर.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	2129 22.10.94	२१३/वाई, ३ ब्लॉक, ५३ कास, राजजीनगर, बंगलौर ।
85061	मोहम्मद रफी एव. हकीम हुसेनसाब हकीम	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10733 26.4.94	३२६८, वी- कास गायधीनगर, बंगलौर ।
85062	मोना आर. बी. रंगस्वामी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	11041 9.8.95	नं. २, ई-ब्लॉक, बीटीएम सेआउट मैन रोड, कस्टमस एवं सेन्ट्रल एक्साईज स्टॉफ क्वार्टर्स मदीवाला, बंगलौर ।
85063	मूसे बीरी मोईदीन बीरी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६२	11189 11.3.96	आलमलिला हाउस, पो.आ. कुबेलु, तालूक बेलठगडी, जिला डी.के. ।
85064	मृण्युजय एन. हिरैमथ नंजुनैय्याह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2191 3.7.96	म.नं. ३६२३, ८ मैन, ५ कास, एम.सी. कालोनी, 'बी' ब्लॉक, दवनगरे, जिला चित्रदुर्ग
85065	मुलीमणि रविन्द्रा हनुमाड्डी हनुमाड्डी आर. मुलीराम	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11065 ४-9.95	पो.आ. बिनकडाकट्टे तालूक गडग, जिला धारवाड़ ।

85066	मुलीमिणि सुरेश बासप्पा बासप्पा मुलीमिणि संगप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९६	11418 24.1.97	गाम एवं पो.आ. हेसुर, तालूक सौनदती जिला बेलगाम ।
85067	मुल्लुर विस्फुषप्पा सकरप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९८४	10845 18.11.94	शिवाकृपा क्लीनिक, विनायकोट पो.आ. नवलगुन्द, जिला धारवाड़ ।
85068	मुल्लुल्ली देवराज वीरेश वीरेश मुल्लुल्ली	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९९३	10738 27.4.94	हथाम मजिल गुलागंजी क्रोप्पा, जिला धारवाड़ ।
85069	मुल्लु कृष्णन आर. राजगोपालन बी.जी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १९९३	10720 22.4.94	१४ क्रॉस डी.एन. ४, पहला तल, गुलालेआउट उलसूर, बंगलौर ।
85070	मुल्लुथर ए. वेक्कप्पाचार्य अशरीफ	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९९४	11104 15.11.95	नं. ९६-२/एक्स एक्स, कोल बाजार, सामने इम्प्लोयेमेन्ट आफिस, बेल्लारी ।
85071	मुल्लुथर पुजर प्रह्लाद चारी एस. पुजर	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९९४	11211 18.4.96	द्वारा पी.एस. पुजर, यत्तामिरी स्ट्रीट (फोर्ट) रानीबेन्नूर पोस्ट एवं तालूक जिला धारवाड़ ।
85072	मुल्लुथरा रामाचन्द्र भट पी.एल.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९९४	10991 12.5.95	म.नं. २/४६, पो.आ. पंगला, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85073	मुल्लुकृष्णा भट के. श्रीनिवासभट के.एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९१	2182 26.12.95	म.नं. १, मल्लिकानिलाया, ६-बी मैन रोड, पाईपलाइन रोड, विजयनगर, बंगलौर ।
85074	मूर्ध्नि वीना कृष्णामूर्ध्नि एम.पी. जगदीशा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९९४	11221 10.5.96	नं. १३८, ११, बी क्रॉस, दूसरा स्टेज, राजाजीनगर, बंगलौर ।

85075	मुलीधर एस.टी. एस.एन. धिमनाधर	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६२	10723 22.4.94	रंगनाथ टेम्पल के पीछे, गोरब, जिला शिमोगा ।
85076	मुशी सुरेश सांण्णा सांण्णा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11038 4.8.95	पो.आ. मुगलखोड, तालूक रायबाग, जिला बेलगाँव ।
85077	मुतालिक पाटिल विनायक शामाराव मुतालिक पाटिल शामाराव	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10836 12.10.94	देसाई इंग्ली, तालूक चिक्कोडी, जिला बेलगाँव ।
85078	मिथिली के.एस. दाहा स्वामी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2202 10.10.96	नं.३३४, १७ सी क्रॉस, ६ मैन रोड, इन्दिनगर, दूसरा स्टेज, बंगलौर ।
85079	एन. नगेन्द्र कुमार एन. नगराजा सेट्टी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2137 17.1.95	२३/२, १६ क्रॉस, लक्कासन्न, बंगलौर ।
85080	नागलक्ष्मी एच.पी. एच.एन. प्रभकर	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11326 9.9.96	म.नं. १४६७, ब्लाक, एईसीएस लेआउट, कुण्डला- हल्ली, मारथहल्ली पोस्ट, बंगलौर ।
85081	नागप्पा चित्तारानी मात्तप्पा चित्तारानी	अय्युर्वेद शिक्ष नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली १६७८	10953 23.3.95	निकट डी.सी.सी. बैंक पो.आ. कामतागी तालूक हुंनुन्द, जिला बीजापुर ।
85082	नागप्पा फकिरप्पा मुरशिल्ली फकिरप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	2213 20.3.97	ग्राम सोमासमुद्रा पोस्ट, तालूक तालूक एवं जिला बेल्लारी ।
85083	नागराज ऐठल यजना नारायणा ऐठल	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10821 24.9.94	श्री दुर्गासुग्रीहा, पो.आ. पन्डारयी तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।

85084	नागराजा हेगड़े एम.आर. रविराजा हेगड़े एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	11052 25.8.95	नं. ६१ (७), जेल रोड, शिमोगा ।
85085	नागराजा समता के. श्रीनिवासा समता के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६१	10791 16.8.94	पो.आ. केलाकला बेट्टुग्रामा, उडुपी, डी.के. ।
85086	नागराजप्पा बी.के. कृष्णप्पा एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11334 10.9.96	नं. १०८६, ४ मैन्, एम.सी.आर., लेआउट, बंगलौर ।
85087	नागरयना जी. पदमाकरा ए.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2110 13.4.94	६२, श्री निलाया, आईटीआई लेआउट बंशन्कारी, ३ स्ट्रेज, विद्यापीठ, बंगलौर ।
85088	नागरत्ता बी.हिरैम्य बासवाकुमार जी. हिरैम्य ०	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	11127 12.12.95	म.नं. ३४१, १ क्रास, १ मैन् रोड, लक्ष्मीपुरा, कम्पौडा नगर, बंगलौर ।
85089	नागासमुद्रा चन्द्रकाव्य संगप्पा संगप्पा नागासमुद्रा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	11158 24.1.96	निकट शनभाग लोज, सामने नूतनी बिल्डिंग पो.आ. गड़ग, जिला धारवाड़ ।
85090	नागेन्द्रैयाह डी.एन. डी. डोदनागप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2142 14.2.95	म्याक्लुरा ग्राम, हिरियुर पोल्या, जिला चित्तदुर्गा ।
85091	नायक ब्रह्मनन्द कृष्णा कृष्णा रामा नायक	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10816 24.7.94	पो.आ. बासगोडा, तालूक अंकोला, जिला उत्तरा कन्नड ।
85092	नकिल राहुल बापूसाहेब बापूसाहेब नकिल	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11027 12.7.95	निकट मास्ति मन्दिर, पो.आ. इस्लामपुर, तालूक वलवा, जिला सांगली ।

85093	नलिनी सी. चन्द्रशेखर गौड़ा बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10984 29.4.95	म.नं. ७०३, २ स्ट्रेज, २ ए, मैन डी ब्लॉक, राजजीनगर, बंगलौर ।
85094	नमिया रत्नाकरा हेगड़े	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६७	11208 17.4.96	नं. ७४७, ५ क्रॉस, ६ सी मैन रोड, आर.पी. सी सेमिउड विजयनगर, बंगलौर ।
85095	नरगुन्द भोगेश प्रह्लादराव प्रह्लाद राव वैकटराव नरगुन्द	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	11369 3.10.96	द्वारा माछणनावर बिल्डिंग, गिरिश कालोनी, जिला बीजपुर ।
85096	नारायण आसरा यू. स्व. विष्णु आसरा यू.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	11128 14.12.95	द्वारा डा. के.एस. शदराया, अश्वनी क्लिनिक, पी. उपनिनगडी रोड, हरादी पो.आ. तालूक पुलुर, जिला डी.के. ।
85097	नारायण भट के. गणपति भट करिचर	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10950 22.3.95	अमृतास्थान्या हाउस, गणथोलु, पो.आ. मदनथार, तालूक बेलठनगडी, जिला डी.के. ।
85098	नारायण एम. धुलापुजे मुकुन्द एम. धुलापुजे	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६७६	2194 17.8.96	बिठनाडी पोस्ट एवं तालूक, जिला डी.के. ।
85099	नारायण एम. वी. स्व. मदालिओगट्टीराव वी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2156 24.7.95	मैन रोड, पो.आ. कुडाथिनी जिला बेल्तारी ।
85100	नस्ते निलेश दत्तात्रय दत्तात्रय लक्ष्मण नस्ते	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	11029 12.7.95	एस.पी. हाई स्कूल रोड, पो.आ. कुरुन्वाड, तालूक शिरौल, जिला कालोपुर ।
85101	नसिरुद्दीन चन्द्रसाहेब गुनाकी चन्द्रसाहेब गुनाकी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	1100७ 2.6.95	पो.आ. नागतना, जिला बीजपुर ।

85102	नवलागट्टी नागपा रुद्रपा रुद्रपा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11148 11.1.96	पो.आ. नवलागट्टी, तालूक बैलहोगल, जिला बेलगाम ।
85103	नवीन चन्द्र हेगड़े नरसिम्हा हेगड़े टी.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10715 5.4.94	थडेक्ल्ल हाउस, पो.आ. नीलावरा जिला डी.के. ।
85104	•निदागुन्दी जगदीश मुनियप्पा मुरीगेप्पा माल्लप्पा नदागन्दी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	11156 23.1.96	दशमावयना गुडी, कोरया मैन रोड, पो.आ. बासवना बागेवाडी, जिला बीजापुर ।
85105	निदागुन्दी शिवानन्दा पारप्पा पारप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11054 1.9.95	पो.आ. बेतुर, तालूक बादामी, जिला बीजापुर ।
85106	निरंजन हेगड़े एन. गोविन्दा हेगड़े	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६१	10851 21.11.94	एम.डी. ४/बी/६, जेल रोड, पो.आ. एल तालूक एवं जिला शिमोगा ।
85107	निरंजन राव बी. आनन्दारामा राव बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11015 17.6.95	म.नं. ३-४१, पो.आ. बरकुर, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85108	निरंजना आचार्य बी. नरेन्द्र आचार्य बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६१	10844 18.11.94	निकट एस.वी.एस. देवला पो.आ. एवं तालूक बत्तवाल, जिला डी.के. ।
85109	निरंजना मूर्ध एन.बी. राजशेकर	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10980 29.4.95	नं. ७५६/३, १० मैन, ७ क्रास, हल, २-स्टेज इन्दिरानगर, बंगलौर ।
85110	निर्मला एच.पी. पी.एच. हिप्पारानी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11078 27.9.95	बी-१४१, "मातरु कृपा" शाय नगर पो.आ. बीईएमएल नगर, बौगस्पेट, जिला कोलार ।

85111	निर्मला एम. मेगाराजा जैन	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10820 24.9.94	४३१, अशोक रोड, मैसूर ।
85112	निर्मला वस्तराड वस्तराड रुद्रमुनी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10930 14.2.95	२३, ओल्ड बैंक कालोनी, कोननाकुटे दोड्डा कर्त्तासन्ध्या साउथ, बंगलौर ।
85113	नुछिशरनावासवेश्वरा नुछी चानगेनदप्प मालागनदप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11074 25.9.95	रामा मन्दिर रोड, बीजापुर ।
85114	ओटागेरी अन्दाणेप्पा बासप्पा बासप्पा ओटागेरी	बी.एस.ए.एम. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८१	10754 17.5.94	४६, बिनजावडगी, पो.आ. अमरावती, तालूक हुनुन्द, जिला बीजापुर ।
85115	पी.बी. याधवी विजयकुमार पी.बी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11088 13.10.95	गौरी निलाया, पो.आ. पुत्तुर, जिला डी.के. ।
85116	पदमराजा के. शंकरनारायण भट के.	बी.ए.एम.एस. मद्रास वि.वि., मद्रास १६६१	10965 4.4.95	म.नं. ४-४७, बनुबेलु हाउस, काशिमाता पो.आ. विट्टल, तालूक बन्तवाल, जिला डी.के. ।
85117	पद्माश्री संकषा शेटी	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10843 18.11.94	२-१११ होसनगडी आरामने, पो.आ. मोरूर, वाया मुदुबिदरे, तालूक करकला, जिला डी.के. ।
85118	पद्मावती ए. ए. श्रीनिवासा भट	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10726 22.4.94	पराग बरामहावरा तालूक, उडुपी, जिला डी.के. ।
85119	पद्मावती बी. बी. कोन्दाचारी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६८६	10883 11.1.95	श्री लक्ष्मी क्लीनिक एल-२८, गांधीनगर दूसरा क्रास, जिला बेल्लारी ।

85120	पद्मिनी राव के. राखेन्द राव के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10785 2.8.94	कालमाडी हाउस कुमुदल रंगा राव रोड, पो.आ. कोडीयलबेल, मंगलौर, डी.के.।
85121	पल्लेद शंकरपा वीरबासपा	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	10882 11.1.95	पो.आ. मादी, तालूक श्रीअहल्ली, जिला धारवाड़।
85122	पामेला अन्न सरिया अल्बर्ट पिकारदो	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11362 14.10.96	म.नं. ४-४-१०८, विवेकानन्दा मार्ग, उडुपी पोस्ट ग्राम अञ्जराकद, उडुपी तालूक, जिला के.।
85123	पारोन्दे अनिल सिद्धाराम सिद्धाराम	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६०	10772 13.7.94	१/११, रामा नीला निलाया, डिकतागोरे गल्ली, बीजापुर।
85124	पर्वतगौडा बी. हिरैगौडा बासनागौडा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	10988 10.5.95	पो.आ. बगदुर, तालूक मुन्डगी, जिला धारवाड़।
85125	पातो अमृत देवेन्द्रपा देवेन्द्रपा हनुमन्थपातो	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10957 27.3.95	७१, हिरैपेट रोड नं.२, ओल्ड हुबली, तालूक हुबली, जिला धारवाड़।
85126	पतानु सिलर राव सयदा राव	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६७६	11145 28.12.95	निकट शशि महल थियेटर, पटेल रोड, रायचूर।
85127	पठान मस्तान राव साईदा	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६८२	11144 20.12.95	गवन चौक, बिदर।
85128	पाटील अदरुश्या बानगौडा बासना गौडा वीरनगौडा पाटील	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८७	11110 20.11.95	पो.आ. दत्तावाड, तालूक शिरोल, जिला कोल्हापुर।

85129	पाटील अन्दागौड शेखरागौडा शेखरागौडा पाटील	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11198 29.3.96	ओक्कलानेरी, कुम्बार स्ट्रीट, पो.आ. गड़ग, जिला धारवाड़ ।
85130	पाटील अनिलकुमार निमनगौडा पाटील निमनगौडा शिवगौडा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11174 19.2.96	पो.आ. बासरायी, तालूक जय, जिला सांगली ।
85131	पाटील बाबागौडा अदागौडा अदागौडा बी. पाटिल	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11382 21.11.96	गन्दावाड पोस्ट, रायबाग तालूक, जिला बेल्गांम ।
85132	पाटील बाबालाड बासगौडप्पना नरेश एच. पाटिल बाबालाड	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10830 30.9.94	शिवालीला निवास खान बाजार, जिला बीजापुर ।
85133	पाटील भगीरथदेवी बासनागौडा बासनागौडा पाटिल	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10727 25.4.94	द्वारा दी.बी. पाटिल, पी.डी.जे. स्ले ग्राउण्ड दरबारगली, जिला बीजापुर ।
85134	पाटील गिरिजादेवी बासनागौडा अनिल माल्लप्पा नगवी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10780 26.7.94	पीछे पादरी स्कूल, १३, निकट पी.डी.जे. स्ले ग्राउण्ड श्रीशक्ता नगर दरबारगली, जिला बीजापुर ।
85135	पाटील लखमगौडा बासा प्रभुदु बासाप्रभुदु आर. पाटिल	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11007 26.5.95	निकट पुलिस स्टेशन, घटप्रभा वेस्ट पार्क, तालूक शुक्राक जिला बेल्गांम ।
85136	पाटील मलिकार्जुना गौडा चन्द्रशेखरा गौडा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10948 17.3.95	ग्राम हिरेश्वरकुनी, तालूक कुन्दागोपाल, जिला धारवाड़ ।
85137	पाटील मल्लिकार्जुना भीमाराया गौडा पाटील भीमारायनागौडा लेगप्पागौडा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10751 13.5.94	ग्राम एवं पो.आ. सलेहला बासदना बागेवाडी, जिला बीजापुर ।

85138	पाटील रामनागौडा रंगनागौडा रंगनागौडा पाटील	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	11147 11.1.96	पो.आ. मुधोल, जिला बीजापुर ।
85139	पाटील सवित्री बासनागौडा बासनागौडा एस. पाटील	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11196 29.3.96	म.नं. २०७, पो.आ. नूलवी, तालूक हुबली, जिला धारवाड़ ।
85140	पाटील शंकरगौडा सनगौडा सनगौडा बी. पाटील	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11010 2.6.95	पो.आ. हिरेकोडागली, तालूक हुनगुन्दा, जिला बीजापुर ।
85141	पाटील शशिकला अन्दनागौडा अन्दनागौडा रामन्ना गौडापाटील	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10920 14.2.95	निकट साई द्रविन्द स्कूल विवेकनगर वेस्ट, जिला बीजापुर ।
85142	पाटील सुधा चन्द्र गौडा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10889 30.1.95	बासवेश्वरा नगर, निकट ए.सी.आफिस, पो.आ. एवं तालूक गड़ग, जिला धारवाड़ ।
85143	पाटील सुकुमारगौडा अदिवेष्पा गौडा अदिवेष्पा गौडा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11157 24.1.96	पो.आ. दोनी, तालूक मुन्डगी, जिला धारवाड़ ।
85144	पाटील सुनीता एस. अशोक एन. परटनाशेट्टी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	10817 24.9.94	फ्रिजिशियन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, पो.आ. मदीकेश्वरा, तालूक मुद्देबिहाल, जिला बीजापुर ।
85145	फ़त्तर वीरप्पा वीरन्ना वीरन्ना फ़त्तर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६०	10973 26.4.95	पो.आ. इनचल, बडीगर स्ट्रीट, तालूक सौनदली, जिला बेलगाम ।
85146	पटवर्धन रविकुमार अरविन्द गणपथी राव पटवर्धन	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10907 2.2.95	५६/१, होस्पेट रोड, पो.आ. शिरसी, जिला उत्तरा कन्नड़ ।

85147	फ़दनाविस लीना दत्ताक्ष फ़दनाविस दत्ताक्ष गोपाल राव	बी.ए.एम.एस. कनॉटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11194 25.3.96	म.नं. ३१६-ए, राय रोड, पो.आ. तिलकवाड़ी, वेस्ट तालुक एवं जिला बेलगाम ।
85148	मिसे संगीता मनोहर मनोहर	बी.ए.एम.एस. बम्बई वि.वि., बम्बई १६६२	11439 18.1.97	मं.नं. ३३४ "केशव सदन", वात्सवन स्ट्रीट वात्सवन सर्कल, जासवान, बेलगाम ।
85149	पूर्णचन्द्र ए. आनन्दा शेटी टी.एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11395 31.12.96	"ज्योती इत्या" तीसरा क्रस, नीहरू नगर, मंडया ।
85150	पूर्णमा केशवा नायक के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10803 31.8.94	६-४-३१, ए, मारुथी लार्डन वात्सकाडु, पो.आ. उडुपी, जिला डी.के. ।
85151	पूर्णमा के.एम. स्व. मल्लियाशेट्टी के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11402 3.1.97	नं. २६३६, १०, बी क्रस, 'ए' मैन दूसरा स्ट्रेज आर.पी.सी. लेआउट विजयनगर, बंगलौर ।
85152	पूर्णमा आर.शेनोय बी.एम. कामय	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	11099 19.10.95	नं. ६७, मनोवा अपार्टमेंट्स, एव-ब्लाक, विकासपुरी, नई दिल्ली ।
85153	प्रभाकर बी.एम. मुदलागिरी बी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11139 23.12.95	म.नं. ३०१२, "राधनागिरी निलाबा", पीछे टी. सुभाष नगर, नीलामंगला बंगलौर रुल जिला ।
85154	प्रभाया सी.एच. सुब्रामन्या भट सी.एच.	बी.ए.एम.एस. कनॉटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10939 14.2.95	पडीक्कल हाउस येठडका, कसारगोड ।
85155	प्रवीण पी.के. नायक पी. केशवा नायक	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11381 20.11.96	अपी सन्स कम्पाउण्ड शिवापेटे परलाडका पोस्ट, पुलुर तालक, जिला डी.के. ।

85156	प्रकाश कुमार एन.के. केशवा मट एन.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2145 7.3.95	पो.आ. मंची कुक्काजे निकट फनेमंगलौर जिला एस.के. ।
85157	प्रकाश एम. तंगडी मुरीगेप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10905 2.2.95	३८८/२, वार्ड नं.२, मलीगली, पो.आ. जय, जिला सांगली ।
85158	प्रकाश पई ए. सर्वोयमा पई ए.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	11089 17.10.95	झारा ए. सुन्दर पाल एवं कम्पनी, क्लोथ मार पो.आ. कोटेथर तालूक कन्दपुर, जिला डी.के. ।
85159	प्रकाश एस.सी. तिलवेस्टर डी सूजा	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६१	10893 30.1.95	२-१८, पो.आ. पंजा, तालूक सुलया, जिला डी.के. ।
85160	प्रकाश शेटी नारायणा शेटी एच.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	2177 26.12.95	म.नं.१, बृन्दावन अपार्टमेंट्स, के.आर.एस. रोड, याधवागिरी पो.आ., मैसूर ।
85161	प्रकाश नायका हेरिया नायका	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11261 18.6.96	म.नं. २-४२, कोल्लनीगे हाउस, होसूर ग्राम कर्ने पोस्ट, उडुपी, तालूक साउथ कानरा जिला ।
85162	प्रसाद बाबू के. वैकटपा के.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11386 2.12.96	गोविन्दा रेड्डी कम्पाउण्ड, मरेम्मा टेम्पल, कम्पागल रोड, बेल्लारी ।
85163	प्रासन भास्मे बासवन्त भास्मे	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11133 18.12.95	श्री विनायका हेल्थ सेन्टर, पीछे हल होस्पिटल, रेड्डी पल्या, बंगलौर ।
85164	प्रासन्ना कैलर एन.एच. कैलर	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11323 4.9.96	निकट अनकडाकट्टे, नेरामबल्ली रोड, कोटेश्वरा पोस्ट, कुड्डापुरा तालूक, जिला डी.के. ।

१५६५

85165	प्रसन्ना कुमार बी. बेट्टेगौडा एस.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11022 4.7.95	नं. १२८७, नेहरूनगर, मड्डया ।
85166	प्रसन्ना नसिम्हाराव सुब्बा राव	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	10944 4.3.95	३२३०-ए, पीछे इरानी बंगलो, हसन ।
85167	प्रशान्त के. के. मनोहर	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11276 29.6.96	शान्ति डिपेंसरी, होल होन्नुर पोस्ट भद्रावथी तालुक, जिला शिमोगा ।
85168	प्रशान्त आर. स्व. राजशंकर एन.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11142 23.12.95	म.नं. ६४६, "राजश्री" १०-बी मैन रोड, ३ स्टेज, ४ ब्लॉक, बासवेश्वर नगर, बंगलौर ।
85169	प्रथिमा बी. हरिशचन्द्र के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11371 4.11.96	१-३५, १ निकट कुडपू टेम्पल, ग्राम कुडपू पोस्ट, ओमनगुरु तालुक, मंगलौर, जिला डी.के. ।
85170	प्रथिमा गुनपाल कादम्बा एन.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	10869 22.12.94	अहिप्पा मंजिला कालोनी जेप्पू, पो.आ. कनकडी, जिला मंगलौर ।
85171	प्रथिमा कामथ एम. एन.पी. कामथ	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11087 12.10.95	म.नं. ७२५, १-मैन रोड, व्यालिकावल, बंगलौर ।
85172	प्रतिभा भान्जिवत वैकटराव	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2187 26.2.96	द्वारा बी.वाई. मडवाल, कोप्पाडाकोरे, एम.बी. नगर, धारवाड़ ।
85173	प्रेमलथा धारानाथा बल्याया	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	11005 11.10.95	नं. ४-१०६, श्री दुर्गा निवास, पो.आ. बेलमन्त, तालुक आरकल, जिला डी.के. ।

85174	प्रेमालया ए.के. ए. कृष्णा भट	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11414 18.1.97	म.नं. १२५४, "श्री गंगानिलाया", हरादी पुल्लुर, पोस्ट एवं तालूक, जिला डी.के.।
85175	पुनीथ बाबू पी. प्रेमा कुमार जी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11245 25.5.96	नं. ५१/२६, 'ए' 'नानना', २२ मैन्, २० क्रॉस, पीछे बी.टी.एस. गारो विजयनगर, बंगलौर।
85176	पुराणिकमठ अरुणकुमार शङकाशरय्या शङकाशरय्या बालगणप्या पुराणिकमठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10810 7.9.94	पो.आ. बाबालेश्वरा, जिला बीजापुर।
85177	पुष्पा धिमैयाह एम.सी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10721 22.4.94	५३८, बी.बी. ब्लाक (हुडको) बन्नामन्तप एस्टेशन, मैसूर।
85178	पुष्पालया एच.एस. शंकरनारायणा भट्टा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	11095 17.10.95	म.नं. ५८६, ओल्ड अग्रहारा, पो.आ. शंकरानरा तालूक कुन्दापुर, जिला डी.के.।
85179	पुष्पाराज शेट्टी पी.एस. मुद्दन्ना शेट्टी पी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	10859 2.12.94	रेखा सदन बिजाई पो.आ. मंगलौर, जिला डी.के.।
85180	पुष्पाराज शेट्टी पी.एस. मुद्दन्ना शेट्टी पी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2211 21.2.97	"रेखा सदन" गिजाई करिकड पोस्ट, मंगलौर तालूक, जिला डी.के.।
85181	पुत्तराणा के. बी. कृष्णप्पा	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६७५	11259 17.6.96	नं. ७३५, एम.जी. रोड, बंगलौर।
85182	पुत्तास्वामी अरादय सोमा अरादय	डी.ए.एम. बोर्ड आफ स्टडीज इन इंडि.मेडी.मैसूर, बंगलौर १६७२	11192 13.3.96	बन्दुर, पो.आ. दुग्गनाहल्ली, तालूक मालावल्ली, जिला मंड्या।

85183	कुदसिया धंसनीम एस.ए. एम.आर. सफीरुद्दीन अहमद	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11329 9.9.96	नं. ८६२, १० मैन, तीसरा स्टेज, पिल्लना गार्डन अरबिक कालेज, बंगलौर ।
85184	आर. रवैयाह एल. रवैयाह	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11097 19.10.95	डी.नं. ३६५८, अन्नाम्मा स्टीट, २ क्रॉस, गांधी नगर, मैसूर ।
85185	राधा जी. वैकटास्वामी जी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11137 22.12.95	एन.ए.६१५, बेल कालोनी, पो.आ. जालाहल्ली, बंगलौर ।
85186	राघवेन्द्र अवर अनन्थासाम	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६८८	10951 23.3.95	टन्टी कम्पाउण्ड, ४-२-२०, ग्राम नायकरे पो.आ. अम्बलपाडी, तालुक उडुपी, जिला डी.के. ।
85187	राघवेन्द्र अवरया पी. पांडुरंगा अवरया पी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11109 20.11.95	म.नं. ६६-२/एक्स एक्स, सामने इम्प्लोयेमेन्ट ऑफिस, कोवी बाजार, बेल्लारी ।
85188	राघवेन्द्र आर जोशी रंगाराव जोशी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2157 3.8.95	४-क्रॉस, सुशासनगर, मैन रोड, नीलमंगल, जिला बंगलौर ।
85189	राघवेन्द्र राव एस. रामचन्द्र राव एस.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10759 24.5.94	पो.आ. आनन्दपुर, तालूक सागर, जिला शिमोगा ।
85190	राघवेन्द्र एस. एन. श्रीपथी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11315 27.8.96	नं. १००/ई, दूसरा मैन रोड, ६ क्रॉस के.जी. नगर, बंगलौर ।
85191	राघवेन्द्र शेटीगर नरसिम्हा शेटीगर एस.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11094 17.10.95	कुचीमाने, ग्राम सालिकेर, ब्रह्मनावाना पो.आ. ब्रह्मवारा, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।

85192	राधवेन्द्र उपाध्याय के. कृष्णामूर्ति उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८६	2122 18.8.94	मार्किट रोड, पो.आ. जवागल तालूक असिकेरे, जिला हासन ।
85193	रघुवीर अवधानी के. श्रीपति अवधानी के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६८७	11152 22.1.96	म.नं. १-८६, एस.वी. टेम्पल, पो.आ. कल्याणपुर, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85194	रायकर पुष्पालया एन. डी.एस. रामकृष्ण	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८६	11161 24.1.96	लक्ष्मी झुगा विवेकानन्दा रोड, ग्राम होसमाने, शिमोगा ।
85195	राजनोपाला एस. श्रीकृष्णा एस.	बी.ए.एम.एस. मरथियार वि.वि., कोयम्तूर १६६९	11166 1.2.96	द्वारा डा. पी.एस. भट, "गीतांजलि", बरेबियाल, पो.आ. बेजड़, तालूक मंगलौर, जिला डी.के. ।
85196	रजनी के.बी. रमेश एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11248 31.5.96	नं. ४२२, पहला मैन, पहला ब्लॉक, आर.टी. नगर, बंगलौर ।
85197	रजनी शंकर भवीकट्टी शंकर एस. भवीकट्टी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11277 29.6.96	पी-१०, केआईजी कैम्पस, सूतकल श्रीनिवास नगर पोस्ट, मंगलौर, जिला डी.के. ।
85198	राजशेकर के.बी. वीरप्पा एस.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६८६	10747 6.5.94	पो.आ. दोगनला, तालूक होलालकेरे, जिला चित्रदुर्गा ।
85199	राजीवलोचना डी. सी.टी. डोरेस्वामी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८३	11392 31.12.96	"श्री रंगा" निकट यूको बैंक बी.एच. रोड, बाल्मिकीनगर, तुमकुर ।
85200	राजेश आचार्य एन. एन. वासुदेवा आचार्य	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11406 6.1.97	नं. ११५६, तीसरा मैन, गिरिनगर पहला फेस, बंगलौर ।

85201	राजेश प्रभू एम. गोपालकृष्ण प्रभू एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11155 23.1.96	नं. ६०, ३ क्रॉस, २५ मैन रोड, बीटीएम लेआउट, २ स्ट्रेज, बंगलौर ।
85202	सरोज जी. पांडी के. धर्मारज पांडी के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11090 17.10.95	सजगृह कुल्लू ग्राम, मुल्लसेनेले तालूक बेचनगडी, जिला डी.के. ।
85203	राजमाने जितेन्द्र शंकर शंकर राजमाने	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11028 12.7.95	पो.आ. आलस, तालूक शिरोल, जिला कोल्लपुर ।
85204	रक्शिता सुभानी एम. अब्दुल सुमान	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2198 30.9.96	द्वारा एम. अब्दुल सुमान, नं. ७४१, ३० 'बी' क्रॉस तिलकनगर, निकट कर्मी कन्वेन्ट ईस्ट एवं रोड, बंगलौर ।
85205	राम मन्थर एच. थिमप्पा शेटी	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10812 13.9.94	पो.आ. हरदली मन्दस्ती तालूक, कुन्डगुर, जिला डी.के. ।
85206	रामा प्रसाद टी. कृष्णा सास्त्री टी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10850 21.11.94	१५२, "श्री सत्तागिरी" १३-बी, क्रॉस रोड, यलहानका स्टेलार्ड टाउन, बंगलौर ।
85207	रामावन्ध्र एम. मुनीस्वामी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10849 21.11.94	१३५, पो.आ. अमरुथाहल्ली, तालूक बंगलौर, नोर्थ बंगलौर ।
85208	रामावन्ध्र यू.बी. भट्टा यू.बी.आर.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2117 26.5.94	५५०/१७, ७ मैन हनुमन्थनगर, बंगलौर ।
85209	रामणागौडा एस. पाटील सिद्धनागौडा डी. पाटील	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11119 29.11.95	उकुमानल, पो.आ. कटाकनहल्ली, जिला बीजापुर ।

85210	रामानन्द टाकरा स्व. मुकुन्दा टाकरा	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६१	11292 1.8.96	ग्राम पीथरी पोस्ट, चेरकाडी, उडुपी तालूक दक्षिण कन्नड जिला ।
85211	रामानाथ शेट गोपालकृष्णा शेट एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11195 27.3.96	म.नं.१२-४-४६ सी "राघवेन्द्र निलया" काडोटेटु जयन्नाथ नाथक स्टीट, पो.आ. एवं तालूक उडुपी, जिला डी.के. । पो.आ. रामगैरी, तालूक शिराहट्टी, जिला धरवाड़ ।
85212	रामप्पा नीलप्पा केसर नीलप्पा एच. केसर	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10755 23.5.94	
85213	रामतीर्थ चिदानन्द रावप्पा रावप्पा एस. रामतीर्थ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11188 6.3.96	पो.आ.गुलगल जमबागी, तालूक मुघोल, जिला बीजापुर ।
85214	रमेश अडिगा एम. शंकरनारायण अडिगा एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11416 22.1.97	हेगुनजे ग्राम, मन्दार्थी पोस्ट, उडुपी तालूक, जिला डी.के. ।
85215	रमेश राव सी.जी. गोविन्दा राव सी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	2130 25.10.94	श्री गणेश कृपा, सान्येकट्टे, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85216	रंजनी जी.एस. सूर्यनारायण जी.आर.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11102 3.11.95	नं.८२, ईस्ट एण्ड 'डी' मैन् ६ ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर ।
85217	रसिनकर संजीव माधवराव माधवराव हैबालप्पा रसिनकर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11058 1.9.95	नं.५८०२/१ए, डा. राजेन्द्रप्रसाद मैन् रोड टेंगिनकई बाजार, पो.आ. बेटगैरी, तालूक गडग, जिला धारवाड़ ।
85218	रत्ना देवी टी. ईश्वर शेट टी.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10989 10.5.95	नं.६०, प्रथम तल, ३ फ़्लास, गवीपुरम प्रसाद, बंगलौर ।

85219	रतौड सुलोचना शालसिंग लक्ष्मण सुलोचना	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10922 14.2.95	७२, के.एच.बी. कालोनी, बीजापुर ।
85220	रविजुमर एच.जी. गोविन्दा राव एच.बी.	वैद्य विद्वान आ.आयु परिषद्, विजयवाड़ा १६७३	11273 24.6.96	उडीकरी पोस्ट, तुमकुर तालूक एवं जिला ।
85221	रविकिरण एम.जी. गणपथी भट	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11036 3.8.95	निकट पी.यू.सी. कालेज, पो.आ. विट्टल, तालूक बन्तवाल, जिला डी.के. ।
85222	रविन्द्र जी.एस. सदाशिव मूर्धे जी.एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11270 24.6.96	नं.१२८८/१, सी, कृष्ण राजा मैन रोड, कृष्ण मूर्धे पुरम, मैसूर ।
85223	रविन्द्र कल्याण राव कुलकर्णी कल्याणराव वी. कुलकर्णी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10815 23.9.94	ए/३५, करवर रोड, हुबली पो.आ. जिला धारवाड़ ।
85224	रविशा प्रभू पी. अनाया प्रभू पी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11037 4.8.95	पो.आ. पेरदूर, निकट विजया बैंक तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85225	रविशंकर बी. कोतरप्पा बी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	11033 27.7.95	डी-६३, ग्राम गोलुलुम ४-स्टेज, यादवागिरी, मैसूर ।
85226	रविशंकर एस. एस. कृष्ण भट	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11006 26.5.95	सेतोहलतु हाउस, पो.आ. कुयकुंज, वाया पंजा, तालूक सुलिया, जिला डी.के. ।
85227	रविशंकरा वाई ईश्वरा भट वाई.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11393 31.12.96	येलकना हाउस, मैरे पोस्ट, वाया पेरला, जिला कसारगोड ।

85228	रेखा फाई एम. शंकर फाई एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11062 6.9.95	न. ४६८, अल्लुर चर्व रोड, पो.आ. ककल, जिला डो.के. ।
85229	रेन्का देवी चिक्कास्वामी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10952 23.3.95	७-१३, दूसरा स्टेज, १० क्रास मोक्षमार्ग सिद्धार्थ लेआउट, मैसूर ।
85230	रेन्का एस.एम. महाबला शेट	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2146 14.3.95	१६, शास्ता निवास, पी एवं टी कालोनी, आर.टी. नगर, बंगलौर ।
85231	रेशमा फरहाना हिदायथ उल्ला खान	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11255 6.6.96	म.नं. ११५३/ए पटवेगर स्ट्रीट, मंडी मोहल्ला, मैसूर ।
85232	रोहिणी एम.आर. श्रीधरा मूर्धे एवं.एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11138 22.12.95	म.नं. ४८६, ५०- पीट रोड, १६ मैम रोड, हनुमन्थनगर, बंगलौर ।
85233	रोनाड नूरुहमत अब्दुलरहमान साहेब अब्दुल रहमान साहेब	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10719 22.4.94	१०८३, निकट कट्टीमाने इटगल्ली तालूक नरैगल, जिला धारवाड़ ।
85234	रुपाश्री एस. वैक्टरमण भट एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11096 19.10.95	सोदनकूर हाउस, पो.आ. अनेकल्लु, मंजेश्वर वाया तालूक कसारगोड, (केल स्टेट)
85235	रोट्टीशिवेन्तिका बाबूराव बाबूराव के. रोट्टी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11183 1.3.96	माधला मास्वी गल्ली, कुलकमवाड़ा, पो.आ. एवं तालूक अक्कलकोट, जिला शोलापुर ।
85236	रुकमणी के. गोविन्दा भट एस.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10925 11.2.95	“केशवा कुपा” एच-१७, भटकल मूड भटकल जिला एन.के. ।

85237	एस. श्रीनिवास मूर्ध विक्रारौयाह	अयुर्वेद शिषक नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली १९७७	10946 16.3.95	सिद्धपुरा, कसबा होबली, तालूक मधुगिरी, जिला तुमकूर ।
85238	एस.के. श्रीधर मूर्ध कृष्ण मूर्ध एस.एन.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६३	2125 12.9.94	२७२, ५-बी, रेमको लेआउट, विजयनगर दूसरा स्टेज, बंगलौर ।
85239	समाहित गणपति गजानन गजानन समाहित	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९२४	10832 7.10.94	महालक्ष्मी निलाया मैलिना इदागंजी तालूक होन्नावर, जिला उत्तरा कन्नड़ ।
85240	सावित्री थापा चेन्नी पद्म बहादुर थाना चेन्नी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६६	11396 31.12.96	रंका धाजे पोस्ट ।
85241	सदानन्दा हेब्बर पी. पी. सुब्राया हेब्बर	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९२२	2216 27.3.97	नं. ३२१, ५ मैन, पहला 'ए' क्रस, माईको लेआउट अरेकोरे, बन्नेरघट्टा रोड, बंगलौर ।
85242	सदाशिवानन्दा स्व. कोराणा	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६५	11322 4.9.96	निकट एस.वी.एस. उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, क्रिडीयूर पोस्ट, उडुपी, जिला डी.के.
85243	साधना के. श्रीपदाव के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६९	10760 27.5.94	पो.आ. कल्याणपुर, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85244	सहाना के. के. रामनायक	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९६५	11332 9.9.96	“रामा निवास”, एच.नं. 111-२१, के.एम.सी., अश्विनी नगर, कसारगोड, केरल स्टेट ।
85245	सज्जनार ज्योति चान्नाणा चान्नाणा सज्जनार	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १९६३	11039 8.8.95	नं. ३३६, १ स्टेज, केएसबी कालोनी, ६-क्रस, बासवेश्वरनगर, बंगलौर ।

85246	सकीना बानू बैग एम.आर.ए.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	10742 3.5.94	ए-२१, कुदरेमुख कालोनी, II ब्लॉक कोरामंगला पो.आ. बंगलौर ।
85247	सलीमुन्नीसा एम.ए. शरीफ	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10822 24.9.94	अल्लेपेटे रेलकम्बा रोड चान्नाराया पटना पो.आ. तालूक जिला हसन ।
85248	सलीमठ गिरिश मडीवालप्पा मडीवल्लय्या वीरय्या सलीमठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11069 15.9.95	पो.आ. तिगड़ी, तालूक बैलहोगल, जिला बेलगाम ।
85249	सलमा बानो सैयद वली	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	2208 20.11.96	नं. २३, पहला मैन, खाजी स्ट्रीट कास, बासवनगुडी, बंगलौर ।
85250	सलमा रिजवान टी. घोष अमेद खुरिशी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६७६	11066 13.9.95	नं. २१, एम.आई.जी, सुभाष नगर, मैन रोड, बडेगाकन, मैसूर ।
85251	साम्बरेकर शारदा नारयना	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६५	10806 1.9.94	४०५०, कांगरालागल्ली, बेलगाम ।
85252	समीना एम. सिन्दगिकर मोहम्मद आकिल ए. सिन्दगिकर	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10870 28.12.94	३८, मिदेगल्ली पो.आ. बीजापुर, जिला बीजापुर ।
85253	सम्यथ बी.एन. नागभूषणा बी.के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11086 12.10.95	नं. ६७६, १-कास, ६ मैन, एचआईजी हाउस, विवेकानन्दनगर, मैसूर ।
85254	संध्या के. वैकट राव	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10833 7.10.94	निदमुडा हाउस, मदनू-ग्रामा पो.आ. कापु तालूक पुनुर, जिला डी.के. ।

85255	संध्या कुमारी एन. महवीर जैन	बी. ए. एम. एस. मंगलौर वि. वि., मंगलौर १६६४	11275 26.6.96	“विद्याश्री”, अरसाकट्टे, नारवी पोस्ट, बेलठनगड़ी तालूक, जिला डी. के. ।
85256	संथालक्ष्मी एम. उदयकुमार के.	बी. ए. एम. एस. मंगलौर वि. वि., मंगलौर १६६४	11181 27.2.96	म. नं. ११५/ए, पो. आ. कनीयूर, तालूक पुत्तूर, जिला डी. के. ।
85257	संगीता तुकाराम सांगवे तुकाराम सांगवे	बी. ए. एम. एस. मराठवाड़ा वि. वि., औरंगाबाद १६६९	11348 23.9.96	म. नं. ५-४-५७, ब्रह्मणा गली, आलन्द पोस्ट एवं तालूक, जिला गुलबर्गा ।
85258	संजय चन्द्रशेखर चन्द्रसीमठ चन्द्रशेखर	बी. ए. एम. एस. कर्नाटक वि. वि., धारवाड़ १६६४	10929 14.2.95	१६३/ए, भोजागली, शाहपुर, बेलगाँव ।
85259	संजय दास पी. के. हरिदास	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६४	10875 4.1.95	हरि भवन, रेजिडेन्स रोड, पो. आ. माहे, जिला पाडिचेरी राज्य ।
85260	संजय राय बी. रविन्द्रनाथ राय बी.	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६३	11297 17.8.96	“ध्रुवामणि”, औथरिटी पोस्ट, उडुपी तालूक, जिला दक्षिण कन्नड़ ।
85261	संजय बी. वैकटेश बी. एन.	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६५	11219 25.4.96	डी. एन. १२५४, १६ मैन् गेट, विजया नगर, बंगलौर ।
85262	संजया के. एस. सुन्दरा शेटी के. एम.	बी. ए. एम. एस. मैसूर वि. वि., मैसूर १६६४	11314 27.8.96	“श्री शंकरा निलाय”, हिरैकेरी कोषा पोस्ट एवं तालूक चिकमगलूर जिला ।
85263	सन्नूर वेवेकानन्दा रेण्णा रेण्णा	डी. एम. एम. बोर्ड आफ स्टेडीज इन इंडि. मेडी मैसूर बंगलौर १६७३	11082 10.10.95	नं. १०, ग्राम देवलापुरा, पो. आ. कडाकोला, जिला मैसूर ।

85264	सन्तोष भारथलाल शाह भारथलाल	बी.ए.एम.एस. शिवाजी वि.वि., कोल्हापुर १६२२	10809 5.9.94	२-२-२, मनमण रोड, पो.आ. आलन्दा, जिला गुलबर्गा ।
85265	सन्तोष कुमार सोमेश्वरा कृष्ण शेटी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	11024 11.7.95	मंगलौर शिवमोगा मैन रोड, ग्राम बेज्जवल्ली, तालूक थिठाहल्ली, जिला शिवमोगा ।
85266	सन्तोष एम. सुन्दर राव एम.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11230 13.5.96	“सिन्धूरा” सी.टी.ओ. रोड, समेथाडका पोस्ट पुत्तुर टी. दक्षिण कन्नड जिला ।
85267	सरसचन्द्र सिंह बी.एन. नारायणा सिंह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६७६	10787 3.8.94	५३, मैन रोड गांधी बाजार, बासवनापुडी, बंगलौर ।
85268	सरस्वती राव बी. रामकृष्ण राव बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11108 20.11.95	पो.आ. गिड्डाकट्टे, तालूक बन्तवाला, जिला डी.के. ।
85269	सरोजा मुरगिणा अक्लकोटी वीरेशकुमार एस. शिरोल	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६२८	2201 10.10.96	द्वारा डा.बी.एस. शिरोल नं. ए-१२/१२, स्टाफ क्वार्टर जे.एन. मेडिकल कालेज कम्पूट, बेलगाम ।
85270	सरोजा देवी बडगुंवी उमाफयी बी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11209 18.4.96	टवारगेरा पोस्ट, कुस्तगी तालूक, जिला रायचूर ।
85271	सविशा पाई के. रामचन्द्रा पाई के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11045 11.8.95	पो.आ. कंजोलु, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85272	सविशा बी.एच. होन्ना सेट्टी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11373 16.11.96	ग्राम एवं पो.आ. भुवनाहल्ली, तालूक प्रिया पट्टाना, मैसूर ।

85273	सय्या मूर्धि के. शिरूमसेवरा भट के.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10990 10.5.95	पैलनदास विल्लिय पी.एम. राव रोड, मंगलौर, जिला डी.के.।
85274	सय्या प्रसाद राव शिमणा राव	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11023 6.7.95	ग्राम मूढबागे, पो.आ. अमपारेस, तालूक कुडापुर, जिला डी.के.।
85275	सथनारायण यू. यू. भीमाप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	2141 9.2.95	१६/१, कालप्पा ब्लाक, ३ कास, पहला मैन रोड, रामाचन्द्रा पुरम, बंगलौर।
85276	सथनारायणा थम्मय्या पाटली यू.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	10966 6.4.95	पो.आ. उलथूर, तालूक कुडापुर, जिला डी.के.।
85277	सथनारायणा राय ए. वैक्पा राय	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	2138 2.2.95	पो.आ. बेतूर, तालूक करकला, जिला डी.के.।
85278	सतिश जी.आई. ईश्वरभट जी.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11187 2.3.96	सुमांसा, गोलडागुडे, पो.आ. चन्द्रगुल्ली, तालूक सबा, जिला शिमोगा।
85279	सतिशा कृष्णा राव के. शेशाशई राव	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11112 23.11.95	म.नं. 0-६१, पो.आ. कमलेशले, तालूक, कुडापुर, जिला डी.के.।
85280	सावदी बासवराज सिंदरामप्पा सिंदरामप्पा सावदी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10933 14.2.95	के.सी. रानी रोड मासरी, पो.आ. एवं तालूक गड़ग, जिला धारवाड़।
85281	सावसर प्रसन्ना विट्टलराव विट्टलराव गुन्दावार्य सावसर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10927 14.2.95	क्वार्टर नं.२, ओल्ड सिविल हॉस्पिटल, एम.जी.रोड, जिला बीजापुर।

85282	सविता सी. हुनाशिमाड चन्द्रशेखर महादेवप्पा हुनाशिमाड	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11132 18.12.95	म.नं. २३, के.एच.बी. कालोनी, १-मैन रोड, पो.आ. रानेबेन्नूर, जिला धारवाड़ ।
85283	सविथा रानी सी. चान्नाबासप्पा के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11077 27.9.95	म.नं. ६७८, बी.बी. गार्डन, मैसूर ।
85284	सविथा एस.जी. एस.बी. गोविन्दप्पा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11268 22.6.96	कृष्णा स्त्रीनिक, तुल्लेकोरे पोस्ट एवं तालूक, जिला तुमकुर ।
85285	सविथा शनमोगु आई आई. वी. शनमोगु	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11298 17.8.96 *	“पंचवर्षी”, ५ क्रॉस, आदर्शनगर अदलिमाने रोड, हसन ।
85286	सविथा टी.बी. टी.एन. विजया नारायण	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11376 20.11.96	नं.५२२, १० क्रॉस, ४ मैन, विद्याराणा पुरम, मैसूर ।
85287	सावित्री टी.एन. नटराजन टी.एन.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10732 26.4.94	८१, चेन्नैय्याह कम्पाउण्ड फार्म लार्डन, श्री नगर, बंगलौर ।
85288	सैयद बशीर अहमद एस. कमलकर मोहम्मद हनीफ कमलकर	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2189 10.5.96	मकम गली, बम्मापुर चौक, पीछे लक्ष्मी टाकिल्ज, हुबली पोस्ट एवं तालूक, जिला धारवाड़ ।
85289	सीथालक्ष्मी बी.एस. सिद्धैयाह एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10864 7.12.94	४३, १ क्रॉस के.एच.बी. कालोनी मैन रोड, उटी रोड, नंजनपुड, जिला मैसूर ।
85290	शाहपुरी बासवराज बाबूराव बाबूराव	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६०.	11093 17.10.95	नं. ४३८, गजानना रोड, पो.आ. हलगा, तालूक बेलगाव, जिला बेलगाव ।

85291	शेक हाजी पीरन मस्तान साहेब	वैद्य विद्वान आ.आयु. परेष्वर, विजयवाड़ा १६७६	11368 29.10.96	प्रसन्ती नर्सिंग होम, विवेकानन्द रोड, श्रीनिवासपुर पोस्ट, जिला कोलार ।
85292	शेक मोहम्मद शफी खानखली साहेब	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८७	10808 2.9.94	पो.आ. पोस्मामिल्ला, तालूक बाडवेल, जिला कुड्डलपुर ।
85293	शख अनिलबाशा मौलाली मौलाली	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10924 14.2.95	१४४, मडकी नगर, पूना रोड, तालूक एवं जिला सोलापुर ।
85294	शैलजा वाई ए. मध्यस्था	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६८४	11014 17.6.95	श्रीमन्था, पो.आ. सस्थाना तालूक उडुपी, जिला डो.के. ।
85295	शैलजा नारायणसेट्टी रामासेट्टी एस.एम.	बी.ए.एम.एस. अमरावती वि.वि., अमरावती १६८२	11151 22.1.96	द्वारा एस.एम. वेनकोबासेट्टी, मैन रोडरोड, पो.आ.दुविना हाडागली, जिला बेल्लारी ।
85296	शैलजा यू. प्रसन्ना नरसिम्हा राव	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८२	10838 15.10.94	पोछे इरानी बंगला, चर्च रोड हसन ।
85297	शाम सी.आर. शास्त्री सी.आर.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६८३	11250 1.6.96	म.नं. २२०, आश्रम रोड, हेनकल पोस्ट, मैसूर ।
85298	शनभाग विनायक रामकृष्ण शनभाग रामकृष्ण गनपति	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10909 2.2.95	पो.आ. मंचीकेरी, तालूक यल्लापुर, जिला डो.के. ।
85299	शंकरा नारायणा भट एस. कृष्णा भट एस.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६८४	10945 6.3.95	एल.आई.जी. १७, १ कास दोडनागुड्डे, पो.आ. उडुपी, कुंजी बेल्लु, जिला डो.के. ।

85300	शंकरप्पा मदीवालप्पा श्रीरुर मदीवालप्पा सिरुर	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2207 18.10.96	ग्राम एवं पो.आ. शिरुर, तालूक नवलगुड वाया अमीनखवी, जिला धारवाड़ ।
85301	शंकरगौडा शिवाना गौडा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11231 13.5.96	द्वारा सिद्दना गौडा स्वाधर, धिरेजयकल पोस्ट, मंगवथी तालूक, जिला रायचूर ।
85302	शान्या के. सुधाकर भट	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10834 12.10.94	कार स्ट्रीट, पो.आ. अरुर, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85303	शान्धी प्रसादा बी. पदमानभा इन्द्रा	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11000 22.5.95	शान्धी निलाया, महावीरनगर, पो.आ. वैनूर तालूक बेलठनगडी, जिला डी.के. ।
85304	शरद सपना राय राय बी.एल.एन.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६१	10868 22.12.94	कोर्ट रोड पुत्तुर, डी.के. ।
85305	शारदा जी. अवधूत	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10740 28.4.94	१६, "आश्रय" हेसरघट्टा रोड, बालकुन्टे हाउस नागासन्ना रोड, बिल्डिंग सोसायटी, बंगलौर ।
85306	शारदा एस. गुमास्ते श्याम लक्ष्मण राव गुमास्ते	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10969 19.4.95	श्रद्धा मंजूनाथ पुरा, धारवाड़ ।
85307	शरत्पा के. हैदरी कोत्राबासप्पा हैदरी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11354 7.10.96	सोमपुर पोस्ट, येलबुर्गा तालूक, जिला रायचूर ।
85308	शर्मा गीता महेन्द्र महेन्द्र शर्मा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11184 1.3.96	पो.आ. हेगामी, तालूक सिद्धपुर, जिला डी.के. ।

85309	शर्मा ए.एन. आनन्दराव ए.एन.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10962 30.3.95	'अश्विनी कृपा' पो.आ. बैदेवेलु, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
85310	शर्मिला वीरा रोद्रिगुएस सेबर्ट एस. रोदीगुएस	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11316 27.8.96	म.नं. ३-१७, आर.ई. विल्ला सिमेन लेन, लोअर मारोली कुलशेकर पोस्ट मंगलौर जिला डी.के.।
85311	शरत्नी यू. यू.के. वसन्थाकुमार	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11300 17.8.96	म.नं. ५-२- (२३), १ शान्धीनगर पोस्ट, उडुपी तालूक दक्षिण कन्नड जिला।
85312	शशिधरा पाई के. कोणा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10767 18.6.94	"पाई हाउस" पो.आ. बैदेवेलु, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
85313	शशिकला एस. सन्नाशिवम सी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11164 30.1.96	म.नं. एन.१५६, ४ क्रैस नागप्पा ब्लॉक, श्रीअमपुरम, बंगलौर।
85314	शशिकरा शेटी बी. विदुल शेटी के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६६	10839 17.10.94	क्वीरा क्लीनिक, जे.सी. रोड, चामराजपेट, पो.आ. एवं तालूक सागर, जिला शिवमोगा।
85315	शास्त्री गुरुराज वसन्थाव वसन्थाव रामणा शास्त्री	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10937 14.2.95	पो.आ. रानीबेन्नूर, जिला धारवाड़।
85316	शीला राजेन्द्र शिदलया एच.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	10724 22.4.94	दया सागर गुड्डा अंगडी, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
85317	शीलावती ए. अनैयाणा के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10848 21.11.94	श्री गुरु राघवेन्द्र क्लीनिक, एम.जी. रोड, चिक्काबल्लापुर, जिला कोलार।

85318	शेन्हा एन. एन. सहदेवन	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11302 17.8.96	म.नं. ३/१५१४, वल्लारिठोडी नीलम पी.के.पी. रोड, नदाक्कु पोस्ट कोडीकोडे तालूक एवं जिला ।
85319	शेष कुमार के. अनन्थानारायण के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2126 15.10.94	ई-३/२४, पीछे सिडिकेट बैंक कालोनी, अराकोरे ग्राम, बन्नेरघटा रोड, बंगलौर ।
85320	शेट राजकुमार रामन्ना रामन्ना एन. शेट	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11122 7.12.95	बाजार रोड, पो.आ.लक्ष्मेश्वर, तालूक शिराहट्टी जिला धारवाड़ ।
85321	शेट्टर राघवेन्द्र वेंकटेश वेंकटेश राघवेन्द्र शेट्टर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10934 14.2.95	वीनानारायणा रोड (टेम्पल) पो.आ. एवं तालूक मडग, जिला धारवाड़ ।
85322	शेट्टी लीना मधुकर मधुका शेट्टी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10827 28.9.94	४/३, १-मैन रोड, जयचामराजनगर, तालूक हुबली, जिला धारवाड़ ।
85323	श्रीधर बैरी टी. विष्णुमूर्ध्नि बैरी टी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11034 28.7.95	श्री सुब्रामन्या निलाया, बैरेवेलु मैन रोड, ग्राम धनटाडी, पो.आ. मन्दासयी तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85324	शिवा कुमार भट के. सुब्राहमन्या भट के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10877 4.1.95	केमर हउस, पो.आ. पेलोमपाडी वाया बेल्लारे, तालूक पुत्तुर, जिला डी.के. ।
85325	शिवकुमार के.एन. नारायण भट के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	11236 14.5.96	म.नं. ५-२-६०, कोलबे, उडुपी पोस्ट, उडुपी तालूक जिला दक्षिण कन्नड ।
85326	शिवकुमार एम.बी. बालगंगाधर थिलक	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10782 20.7.94	“थिरीमुन” पो.आ. कुक्कुजाडका, तालूक सुन्ना, जिला डी.के. ।

85327	शिवकुमार एन. ननैयाह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11035 31.7.95	नं. १६६/२४, ७ कास, ३ मैन रोड, चामराजपेट, बंगलौर ।
85328	शिवलिंगप्पा टी. टी. दुरुगप्पा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६७	11429 12.2.97	खानाबदोशहल्ली पोस्ट, कुडुगी तालूक जिला वेल्लदर ।
85329	शिवानाथप्पा बी. हेसामठ वीरभद्रप्पा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	11016 20.6.95	बत्तीबन, पो.आ. लक्ष्मेश्वर, तालूक शिराहर्दी, जिला धारवाड़ ।
85330	शिवानन्दा एस. हिट्टलामणि सिद्धप्पा हिट्टलामणि	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2155 12.7.95	मृगंजय नगर, ईस्ट एक्सप्रेस रानीबेनुर, जिला धारवाड़ ।
85331	शिवानन्दा एस. एव. सावदती एव. बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11131 18.12.95	म.नं. २२१२, ४-ए-क्रोस, ४ मैन रोड आर.पी.सी. लेआउट, विजयनगर-२ स्टेशन, बंगलौर ।
85332	शिवानन्द ख्याबुड गोलालप्पा	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	11063 7.9.95	द्वारा के.एस. कृष्ण, अल्मी मस्जिद रोड, मठाप्पी गली, बीजापुर ।
85333	शिवपुटरप्पा देम्पप्पा गौरी देम्पप्पा गौरी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11075 25.9.95	पो.आ. सुल्ला, तालूक हुबली, जिला धारवाड़ ।
85334	शिवायोमी पंचाक्षरप्पा अरघ्यामठ पंचाक्षरप्पा संगप्पा अरघ्यामठ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10916 6.2.95	बी-५७/१, ३-कास, पहला मैन रोड, हेगेरी कालोनी, ओल्ड हुबली जिला धारवाड़ ।
85335	शोभादेवी सी. पी. कृष्णराजा के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11364 17.10.96	कच्चीपल्ला माने, पोस्ट मुलियुरु तालूक एवं जिला कसारगोड ।

85336	शोभा देवी पी. बालाकृष्णा भट पी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11182 1.3.96	कोम्पिनाडका हाउस, पो.आ. बडगाकाजेक्स, तालूक बन्तवाल, जिला डी.के.।
85337	श्रीविजया ए.के. केशवा भट ए.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10967 7.4.95	श्रीरामपेट, कसारागोड।
85338	श्रीधर ए. एल.ए.पी. भट	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2215 27.3.97	नं.१४५, दूसरा मैन रोड, तीसरा क्रास, चामराजपेट, बंगलौर।
85339	श्रीहरी एस.आर. रामाचन्द्र भट के.बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11072 22.9.95	श्री गुरु नित्याया कन्याडी-२, पो.आ. धर्मस्थला, तालूक बेलठनगडी, जिला डी.के.।
85340	श्रीकान्त के. के. श्रीनिवासा भट	बी.ए.एम.एस. भरथियार वि.वि., कोयम्बतूर १६६२	11281 5.7.96	एम.एम.२०-३२, कोडवूर-अडिउडुपी रोड, मुडुबेतु कूडश्रम पोस्ट, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
85341	श्रीनिवासा नायक स्व. नारायणा नायक	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10753 13.5.94	४, (ए) श्रीयारा कलमुर्गी, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
85342	श्रीपथि आचार्य जी. मुस्ताज आचार्य के.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६७	10852 21.11.94	५-१-६४, ए "भारद्वाज कृष्ण" निकट मिशन कम्पाउण्ड, पो.आ. बैलूर, तालूक उडुपी, जिला डी.के.।
85343	श्यामा प्रकाश के. शंकरनारायणा भट के.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10903 2.2.95	जण्डुडुक्कु हाउस, पो.आ. पेरला तालूक कसारागोड (केला स्टेट)
85344	सिद्धय्या अरथ्यामठ शिवय्या अरथ्यामठ	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11303 17.8.96	म.नं. २६५८/ए, कालिदास रोड, बी.वी. मोहल्ला, मैसूर।

85345	सिद्धेश आर.एस. रामप्पा	आयुर्वेद निष्क नि.भा.आयु. विद्यापीठ, दिल्ली १८७६	10866 14.12.94	५०१, दूसरा वाई, अन्नेप्पला रोड, शिवजीनगर, दक्कनगरे, जिला चित्रदुर्ग ।
85346	सिद्धावीरा पूर्णि जी.एस. जयवीरनाथ जी.एस.	बी.ए.एस.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १८८१	2181 26.12.95	शैलजा क्लीनिक, पो.आ.हेसराघट्टा, बंगलौर ।
85347	सिन्दगीकर मन्दावी मधुकर मधुकर राव सिन्दगीकर	बी.ए.एस.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १८८२	11004 26.5.95	नं. १-४८/२, कोर्ट रोड, पो.आ. शोरापुर, जिला गुलबर्गा ।
85348	सोहन कुमार ए.पी. प्रभाकर मानु	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १८७४	11205 11.4.96	एल.आई.जी. २२, पहला स्ट्रेज, के.एच.बी. कालोनी, मडगा ।
85349	सोहन कुमार एन. प्रमोद कुमार बी.	बी.ए.एस.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १८८४	11347 23.9.96	नं.६०, नूजोडी हाउस, मैलन्या बेट्टु पोस्ट बेलठनगडी तालूक, जिला डी.के. ।
85350	श्रीलथा बी. वासु बी.	बी.ए.एस.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १८८२	10814 15.9.94	द्वारा निदानुची नर्सिंग होम, पो.आ. ब्यादगी, जिला धारवाड़ ।
85351	श्रीधरा पूर्णि पी. सथ्या नारायणा पूर्णि पी.	बी.ए.एस.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १८८६	11378 20.11.96	गणेश मर्वन्ट, दाराकेरी रोड, शिकारीपुर पोस्ट एवं तालूक, जिला शिमोगा ।
85352	श्रीनिवास शेटी बी. रघुरामा शेटी	बी.ए.एस.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १८८३	2111 29.4.94	दुर्गा क्लीनिक, यादगरे, एन.एच.१७, पो.आ. बैन्दुर (कोल्लुर बाईपास) तालूक, कुन्दपुर, जिला डी.के. ।
85353	श्रीनिवासा राव ए.एन. सुब्बाराव ए.एन.	बी.ए.एस.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १८८५	11175 23.2.96	म.नं. १-६२, 'अश्विनी कुपा', पो.आ. अलूर, तालूक, उडुपी, जिला डी.के. ।

85354	श्रीवल्ली एन. एस. रामाचन्द्र	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	10788 8.8.94	नं. ५४, ६ क्रास स्वीमिंग पूल एक्स्टेंशन, मल्लाश्वरम, बंगलौर ।
85355	श्रीशान्दा शर्मा वैकुण्ठलया एन. स्व.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11079 28.9.95	नं. ३७५१/१, पुलिकेशी रोड, लक्ष्मर मोहल्ला, मैसूर ।
85356	सुभासचन्द्र बोस महादेवप्पा	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11374 16.11.96	नं. ४०, अट्टाहल्ली, इन्दिरानगर, टी. नरसीपुर तालूक, जिला मैसूर ।
85357	सुब्बनगौडा पी.जी. कुलकर्णी जी.आर.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2193 2.8.96	म.नं. बी-४८/३, 'वसिस्टा' कुमारा पार्क, गोकुल रोड, हुबली, जिला धारवाड़ ।
85358	सन्नाहमन्या प्रसाद एस.जे. शिवानन्दा एस.जे.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६२	11291 1.8.96	म.नं. ८/१८५, इक्केरी रोड, शिवकम्पनायक नगर सागर तालूक, जिला शिमोगा ।
35359	सुब्रामन्या उडुपा ए. नागेश उडुपा ए	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	11051 22.8.95	पो.आ. अलूर, तालूक कुन्दापुर, जिला डी.के. ।
35360	सुब्रामन्या वाग्ले के. सुन्दर नायक	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2134 28.12.94	ग्राम सत्तयार, पो.आ. कैकरा, तालूक मुत्तूर, जिला डी.के. ।
85361	सुब्बता कुमार पाल सुजान चन्द्र पाल	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६८१	10770 6.7.94	डी.नं. ११६/२, बी. के.बाडी लेआउट के.बी. एक्स्टेंशन दावनगरे, जिला चित्रदुर्गा ।
85362	सुवेया प्रभू के. जगदीश पाटील एस.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६८७	10958 27.3.95	१३७६, १ मैन रोड, प्रशान्त नगर, एम.आर.सी.आर. लेआउट, बंगलौर ।

85363	सुदेशकुमार शेट्टी के. करुणा शेट्टी के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2124 30.8.94	न्यू नं. ३२, ओल्ड नं. १६, १० क्रास मल्लेवरम, बंगलौर ।
85364	सुधा कामथ पी. पी. रामादास कामथी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10938 14.2.95	पो.आ. बलेहोन्नुर, तालूक नरसिम्हाराजपुर, जिला चिक्मंगलूर ।
85365	सुधा एम.एन. नरसिम्हा एम.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	11251 5.6.96	म.नं. ३३१, एम ब्लॉक, दूसरा स्टेज, कुंयेमनगर, मैसूर ।
85366	सुधाकर रेड्डी एस वाई एस. सेशा रेड्डी	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६६२	11361 11.10.96	नं. १२-१२-८७, अरब मोहल्ला, रायचूर ।
85367	सुधीन्द्र ए. देशपांडे देशपांडे ए.जे.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10846 18.11.94	१५६, ३८-क्रास, दूसरा ब्लॉक, राजजीनगर, बंगलौर ।
85368	सुजा के. श्रीधर के. श्रीनिवास मूर्धे	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2190 17.6.96	म.नं. ५८/ए, नन्दिनी लेआउट, बंगलौर ।
85369	सुजाथा ए. रामाचन्द्र राव	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६८	2179 26.12.95	म.नं. ७०, ५-क्रास, हनुमन्नागर, बंगलौर ।
85370	सुजाथा ए. शेट्टी एस.एन. अच्युता	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11461 27.3.97	अंबन्या स्वामी स्ट्रीट, केंडाई, श्रीनगेरी पोस्ट, जिला चिक्मंगलूर ।
85371	सुजाथा बी.ए. अन्ने गौडा	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11375 20.11.96	बल्लेनाहल्ली पोस्ट, श्रीरंगपटना तालूक मंड्या जिला ।

85372	सुजाया के.जी. के. गोविन्दन	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11222 10.5.96	नं. १४३, ७ मैन, ४ क्रॉस, जे.पी. नगर, ३ फ्लेस, बंगलौर ।
85373	सुजाया रेड्डी के.वी. गुरु रेड्डी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८८	10769 4.7.94	७६७, ४ मैन रोड, ए ब्लॉक, ३ स्टेज, राजजीनगर, बंगलौर ।
85374	सुजाया एस. सत्यनारायणा वी.के.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10928 14.2.95	पुत्री श्रीमती इन्दिरा, जी. गोपाल नाथडु कम्पाउण्ड कंगुगर स्ट्रीट, सुगीक्लु कोटे, विक्रमलौर ।
85375	सुकेश एम.के. नरयाना के.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६३	10748 6.5.94	सी-२८, "फंक् जन्म" केएसआरटीसी पीछे बस स्टैण्ड, पो.आ. चन्नाराया पटना, हसन ।
85376	सुकुमार के. कृष्णा भट के.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11186 2.3.96	नेठडी हाउस, पो.आ. दारबे, तालूक पुत्तुर जिला डी.के. ।
85377	सुलेकुत्ता रामाकृष्ण चिन्मया	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद्, विजयवाड़ा १६७७	10996 17.5.95	डोर नं.२२, शोप स्ट्रीट, सुलेकुत्ते तालूक बांगरपेट, जिला कोलार ।
85378	सुमा बी.एस. एस. शिवलिंगैयाह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11403 3.1.97	नं. ११२/३ ४ मैन रोड, पीछे पो.आ. गंगानगर, आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर ।
85379	सुमन लथा मिश्रा के.एल. मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11225 10.5.96	म.नं. २५/६, डीआरटी कालोनी बंगुर नगर, डोडेलिपोस्ट, हलीयाल तालूक, जिला कावार ।
85380	सुमना टी.एम टी.बी. मंजुनाथ	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11271 24.6.96	बी.एम. श्री रोड, बासवेश्वर स्ट्रीट, तकिरे पोस्ट एवं तालूक विक्रमगलूर जिला ।

85381	सुमित्रा एच.टी. सन्ध्या	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६७४	10823 26.9.94	२६६५, १८ मैन ४ कास, दूसरा स्टेज, इन्दिरानगर, बंगलौर ।
85382	सुमित्रा टी. गौडा वेकेश के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६७४	2128 19.10.94	१४१/बी, ६ कास, ४ ब्लॉक, राजजीनगर, बंगलौर ।
85383	सुन्दरा राजा एम.एल. लिंगैयाह	१६६० बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11397 31.12.96	नं.५, पहला मैन रोड, दूसरा क्रॉस, ओल्ड गंगानगर आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर ।
85384	सुनीता दयानन्द शेट्टी	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10964 4.4.95	म.नं. ३-११०, 'शिवप्रसाद', पो.आ. केनजूर, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85385	सुनेत्रा एम.दानीगोड मल्लप्पा एस. दानीगोड	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11153 22.1.96	म.नं. २१६४, हलेपे गली, पो.आ. टेडल, तालूक जमखण्डी, जिला बीजापुर ।
85386	सुरेखा एस. एस. सुन्दरम नायक	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	11266 22.6.96	नं.५६७, २७ मैन रोड, पहला क्रॉस, दूसरा स्टेज, बीटीएम लेआउट, बंगलौर ।
85387	सुरेश बी.टी. बी.एस. धम्मयथा	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६३	10758 25.5.94	२७८१, ३ मैन रोड, वी.वी. मोहल्ला मैसूर ।
85388	सुरेश बाबू के.आर. रामचन्द्र राव के.एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	11413 16.1.97	कडवारा पोस्ट, चिक्कल्लापुर तालूक, जिला कोलार ।
85389	सुरेश हेगडे बी. आनन्दा हेगडे बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	2185 14.2.96	'यक्का कृपा' बिल्लाडे ग्राम, पो.आ. जानवर कट्टे, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।

85390	सुरेश कुमार पी.आर. रामचन्द्र भट पी.	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10910 2.2.95	पुल्लु हाउस, पो.आ. पदनूर, तालूक पुल्लूर, जिला डी.के. ।
85391	सुरेश कुमार शेर्देटी के. करुणाकर शेर्देटी के.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६७	10800 27.8.94	ओल्ड १६, न्यू-३२, १० क्रास, मल्लेश्वरम, बंगलौर ।
85392	सुरेश शेर्देटी ए. शशिकारा शेर्देटी बी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६९	11117 28.11.95	म.नं.२-६७, राहुमुन्डु, पो.आ. साईबरकट्टे, वाया बरकर, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85393	सुषमा चेद्रेरी हरि कुमार चेद्रेरी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11226 10.5.96	डारा एच.के. चेद्रेरी, कंजूरम को-ऑपरेटिव सोसायटी लोवर अरिटांग रोड, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम ।
85394	सुषमा पी.एस. पी. संजीवा नायक	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10977 28.4.95	म.नं.५-३-५६, 'चोटना कृपा', चिटपाडी; तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85395	तवीबा बानू नूर मोहम्मद के.टी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	10744 4.5.94	२८४, सिद्दीओल नगर, बन्नीमाटर-बी, लेआउट, मैसूर ।
85396	ताजमुल अहमद खान मोहम्मद अजमत खान	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	10781 28.7.94	दरगा रोड, पो.आ. कोपल, जिला रायचूर ।
85397	तपशेर्देटी वीना इन्दुपा इन्दुपा एन. तपशेर्देटी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10936 14.2.95	६, गुजराथ भवन, बैलपानावरा नगर कुम्बाकोतम स्नाट, हुबली, जिला धारवाड़ ।
85398	तारादेवी एम. महीन्द्र बाबू	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६९	2153 28.6.95	नं. ५५, १-मैन रोड, लोवर पैलेस ओनवार्डस, बंगलौर ।

85399	तथा सहैब द्वारपालखोट	आयुर्वेद भिषक नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १६७८	10797 25.8.94	सी-१२, लक्ष्मी बिल्डिंग, ५-क्रास, भगीपिनगर, शिलकावाडी, बेलगाम ।
85400	धनुंजा शेटींगर पी. पी. माधवा शेटींगर	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६६	11399 31.12.96	म.नं.५-१-८२, 'श्री शेषा सदन', मैन रोड किन्नीगुल्की उडुपी पोस्ट एवं तालूक जिला डी.के. ।
85401	धारा जे. मोथी राव जे.के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10802 30.8.94	४, ओसबोम रोड 'धरमानिलाया' बंगलौर ।
85402	शिरुमाला प्रसाद जे. गोपालाकृष्णा भट जे.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	11020 4.7.95	जेड्डु हाउस, पो.आ. पेरुवल, वाया अडयनडका तालूक बन्टवाल, जिला डी.के. ।
85403	दोन्डीहल शिवाकुमार अमरणा अमरणा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10899 1.2.95	द्वारा ए.एल. टोन्थल अमर गंगा निवास मरटाहनगर, पो.आ. मुड्डेबिहल, जिला बीजापुर ।
85404	तोशीखाने हेमन्त देवराज देवराज जी. तोशीखाने	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11185 1.3.96	पो.आ. कल्लोली, तालूक गोकक, जिला बेलगाम ।
85405	उदय कुमार पी. शाह पवन कुमार शाह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2197 9.6.96	'आदर्श' बंगलौर, सामने बस स्टैण्ड, सेदम पोस्ट, जिला गुलबर्गा ।
85406	उदया हेब्बर पी. पी. सुब्राहमन्या हेब्बर	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६०	11427 12.2.97	सुरसा क्लीनिक, होडे रोड, सुरसा, तालूक गोकक, जिला डी.के. ।
85407	उदयकुमार एम.बी. एम.बी. भट	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2148 29.3.95	'सावित्री' मेडरहाल्ली, चिक्काबनवास बंगलौर नोर्थ, बंगलौर ।

85408	उदयकुमार शेर्पा नगयशेर्पा ए.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	11020 7.12.95	म.नं. १२-बी. पो.आ. इंदुर कंजोदी, तालूक कुन्दापुर, जिला डी.के.।
85409	उदयशंकरा पी. गणपति भट पी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11238 15.5.96	'अरकाजे', पारकज पोस्ट, बेल्गनाडी तालूक दक्षिण कन्नड जिला।
85410	उमा बी. भास्करा अडिगा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	10734 26.4.94	६६२, ४७-क्रास, १ मैम, बी-ब्लाक, जयानगर, बंगलौर।
85411	उमा बी.एस. बी.के. सयनारायणा	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10983 29.4.95	नं. ५५-ए-५१६-ए, 'आदित्य' शानबाग लेआउट, डोइनेकुन्डी, जिला बंगलौर।
85412	उमर फारूक टी.के.मिर्जा गुलाम महमूद	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2188 27.3.96	नं. ११, ६-२-क्रास, पीछे शास्त्री इंग्लिश स्कूल सूबेदारपल्या, यशवन्थापुर, बंगलौर।
85413	उमेश मंदिवलया काबन्दकी मंदिवलया	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	11061 5.9.95	पो.आ. मुलवाड, तालूक बासवनवागेवाडी, जिला बीजापुर।
85414	उपीन अन्नया शंकराणा शंकराणा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11055 1.9.95	पो.आ. गुडेगोरी, तालूक कुन्दगोल, जिला धारवाड़।
85415	उषा बी. नारायण	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६२	10954 24.3.95	१२/६४, प्रसूधा धाडमबिले एन.एच.१७, मैम रोड, पो.आ. सुरथाक्ल तालूक मंगलौर, जिला साउथ कनारा।
85416	उषा जी. चन्द्रशेखरा मैथा जी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11232 14.5.96	नं. ६६, ३ क्रास, आदि कबीर आश्रम, मैम रोड, मट्टावाहल्ली, आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर।

85417	उषा पर्वणी के.आर. वीरकुमारा के.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६७	11435 19.2.96	पाई निवास कमण्डाड ग्राम एवं पो.आ. कुस्कीकर्दे, तालुक उडुपी, जिला डी.के.।
85418	उषा सब जी. भास्करा एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2205 16.10.96	नं. १४७, १४ क्रॉस, २२ मैन रोड, राधेन्द्र ल लेआउट, पदमनोभा नगर, बंगलौर।
85419	उषा एस. सथ्य पाल बी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10915 2.2.95	१०/१, मेनसन ब्लॉक राजेन्द्र नगर, मैसूर।
85420	उषादेवी एम.वी. बी.के. जगदीश कुमार	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2192 12.7.96	नं. ५८८, उपस्टेयर्स, ८ मैन विजयनगर, बंगलौर।
85421	उषाकिरण राव एस. पी.वी. हरिप्रसाद	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६२	10793 18.8.94	१६६, आसन्द निलाय शाखा कालोनी, २ स्टेज बासवेश्वर नगर, बंगलौर।
85422	वी. शुभा के. वैक्टराव	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	11031 22.7.95	डी.नं. १११, बी इ एम एल लेआउट, वेस्ट आफ चोर्ड रोड, बासवेश्वरनगर, बंगलौर।
85423	वडेयर अनिता अरविन्द अरविन्द	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10714 5.4.94	४४३-ए, सोलापुर रोड, बीजापुर।
85424	वागदुर्गी ममता रेवनासिद्धया रेवनासिद्धया वीरप्पा वागदुर्गी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	10956 27.3.95	पो.आ. कन्नूर, तालुक एवं जिला बीजापुर।
85425	वैद्य बालाभीमा रामाकृष्णापन्त रामाकृष्णा पन्त	ए.वी.वी. (नान्देड) फैक.आफ आयु. व यू.वि.प., महाराष्ट्र	10716 5.4.94	१०-६२५, ब्रह्मपुर, गुलबर्गा।

85426	वज्रेश्वर एम. गोविन्दराज जी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १८८४	2178 26.12.95	म.नं.५, २ कास, ५ मै.न, बिन्नी मिल रोड, गंगानगर, आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर ।
85427	वलीपरमबिल मोहम्मद नजीर बी.के. मोहम्मद	वैद्य विद्वान आ.आयु.परिषद, विजयवाड़ा १६७५	10725 22.4.94	१२, बासवन्ना टेम्पल स्ट्रीट, पो.आ. अदुगोडी बंगलौर ।
85428	वनमाला के.एस. बी.टी. सुरेश	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11415 20.1.97	नं. १४०३, २३ मै.न बगनकरी दूसरा स्टेशन, बंगलौर ।
85429	वन्दना शर्मा के. शिवशंकर अंगरी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	11076 25.9.95	अंगरी हाउस, पो.आ. कन्याना, तालूक बन्वोला, जिला डी.के. ।
85430	वनीश्री श्रीमान एम.के.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	2115 17.5.94	२५, ४ शोप लेन, टाटा सिल्क फोरम बासवनगुडी, बंगलौर ।
85431	वनीश्री हरेकल विश्वनाथ	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10857 2.12.94	६०, ३ कास, २ मै.न रोड, टेलिकोम कालोनी, पो.आ. अलाहल्ली, बंगलौर ।
85432	वनिता वी. वैकटरमणा टी.	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10819 24.9.94	माडल हाउस नं.२, पुत्तिकेशी रोड, थिलकनगर, मैसूर ।
85433	वन्तीगोडी लिंगारजी हनमारड्डी हनमारड्डी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10784 2.8.94	पो.आ. थिरलापुर, तालूक नवलगुन्द, जिला धारवाड़ ।
85434	वरलेकर प्रशान्थ सुयाकर सुयाकर वरलेकर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६२	10743 4.5.94	५११, सामने मीश मेडिकल्स, मै.न रोड कावा हैड पो.आ. कत्वार एन.के. ।

85435	वस्त्राद भद्रस्वामी महालिंगैयाह महालिंगैयाह वस्त्राद	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	2158 24.8.95	म.नं. ३०, ३ कास, गंगप्पा ब्लाक, गंगानगर, आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर ।
85436	वीना लक्ष्मीनारायणा आचार्य	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६१	10959 27.3.95	२-३७, मालंगली, पो.आ. पनियुर, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85437	वीना बी. नायक रामानन्दा नायक	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६३	11193 25.3.96	म.नं. ११०३-१०७-ए, 'हरिदर शान', पो.आ. बन्नाजे, तालूक उडुपी, जिला डी.के. ।
85438	वीना एच.एस. शिवमूर्धे एच.सी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11149 20.1.96	नं.११३५, १ कास, ३ मैन रोड, विजयनगर ईस्ट, बंगलौर ।
85439	वीना के. थिरुमलेश्वर भट	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६४	10975 26.4.95	'स्वप्ना', ग्राम कुन्टीकना, पो.आ. अशोकनगर, जिला मंगलौर ।
85440	वीना कुमारी ए. गणेश राव यू.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11458 24.3.97	म.नं. १०६५/७, एफ-१, 'श्रीकान्ता निलाया' पहला मैन ४ कास, विद्यारन्यापुरम, मैसूर ।
85441	वीना एम.एस. सिद्धलिंगैयाह एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10860 5.12.94	एल.आई.जी. नं. १६१, ८ कास, ४ मैन केनेरी स्टेलाईट टाउन, बंगलौर ।
85442	वीना मय्या टी. नारायणा मय्या टी.	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६०	10763 4.6.94	२१०/१, न्यू एक्सेशन मडीकेरी, कोदागु ।
85443	वीना राजाशकर स्वामी अस्तगीमथ राजाशकर एन. अस्तगीमथ	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11101 31.10.95	नं. ६३, अदयपकानगर, पो.आ. विजयनगर, ग्राम हुब्बली, जिला धारवाड़ ।

85444	वीरसनय्या वीरया हिरैय्य वीरया	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2131 25.10.94	पो.आ. हनमासागर, तालूक कुस्तागी, जिला रायचूर ।
85445	वीरेश के. के. कल्याण	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11380 20.11.96	रेलवे स्टेशन रोड, मरियमनाहल्ली होस्पेट तालूक, जिला बेल्लारी ।
85446	वेंकटकृष्णा टी.एस. टी.बी. सीथारमैयाह	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६४	11279 5.7.96	नं. ४३, पहला मैन ६ क्रास, तालागोडु बलेहोल पोस्ट, मुदीगरे तालूक, चिकमगुर जिला ।
85447	वेंकटरमैयाह नौगैयाह	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	11337 11.9.96	नं. २८६, ३ स्टेज, ३ ब्लॉक, वेस्ट आफ चोर्ड रोड, बासवेसवरा नगर, बंगलौर ।
85448	वेंकटेश भान्ने इश्वरया बी. भान्ने	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६४	11092 17.10.95	निकट एजय्या टेम्पल, पो.आ. गुट्टल, तालूक हवेरी, जिला धारवाड़ ।
85449	वेंकटेश राव एम एम.विष्णु मूर्धे	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १६६५	11350 30.9.96	प.नं. ३-११५, मुदुकुडु, कल्याणपुरा पोस्ट, उडुपी तालूक जिला दक्षिण कन्नड़ ।
85450	वेंकटेश तान्नी पी. पी. रमन्ना तान्नी	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १६६५	11390 31.12.96	शिवप्रसादम, फ्रान्कोपेटे पोस्ट, बन्दवाल तालूक साउथ कनरा जिला ।
85451	वेनू एच.एल. एस.जे. लक्ष्मणा सेट्टी	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2209 3.2.97	नं. ७७६, दूसरा ब्लॉक, ६ ए मैन रोड, बनशंकारी पहला स्टेज, बंगलौर ।
85452	विद्या गणपथि अद सी.पी. सुब्बदी	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६६	11377 20.11.96	नं. १०८८, दूसरा डिविजन आर.पी रोड, नंजनगुडु पोस्ट एवं तालूक, जिला मैसूर ।

85453	विद्या रानी रमेश शेट्टी के.	बी. ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १६६५	11107 15.11.95	'दत्तात्रय' अरन्धी ग्रीम बलेपुनी, तालूक बन्दवाल, जिला डी. के. ।
85454	विद्या एस. विजयदत्त एम. बी.	बी. ए. एम. एस. मैसूर वि. वि., मैसूर १६६५	11220 30.4.96	अश्विनी हैल्य सेन्टर, एम. जी. रोड, शिराहट्टी ।
85455	विद्यानयी शेट्टी गोपाल शेट्टी के.	बी. ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १६६४	11146 29.12.95	'विद्या विहार' पो. आ. नादुर, वाया मन्दीर तालूक उडुपी, जिला डी. के. ।
85456	विनोदश्वर भट एस. गोपाला कृष्णा भट एस.	बी. ए. एम. एस. गुलबर्गा वि. वि., गुलबर्गा १६६६	11353 7.10.96	सूर्यम बैल हाउस, पांजे पोस्ट, पुत्तुर तालूक जिला दक्षिण कन्नड़ ।
85457	विजय कुमार एम. आई ए. एस. मुलीधर	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६६	11401 3.1.97	नं. १३२३/१६-१, पहला क्रॉस, पहला मैन रोड, प्रशास्य नगर, बंगलौर ।
85458	विजया प्रसाद के. कृष्णा भट कैटजे	बी. ए. एम. एस. मद्रास वि. वि., मद्रास १६६०	10774 19.7.94	नेथाली नगर एक्स्टेंशन, पो. आ. एवं तालूक कोप्पा, जिला विक्रमगिरि ।
85459	विजयलक्ष्मी एच. डी. दोड्डपैयाह	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६५	11227 10.5.96	नं. ३२६, ७ ए मैन ४ ब्लाक कोरामंगला, बंगलौर ।
85460	विजयलक्ष्मी पी. बी. बालाकृष्णा गौड़ा पी.	बी. ए. एम. एस. मैसूर वि. वि., मैसूर १६६४	11118 29.11.95	म. नं. १-३६, पित्राकला हाउस, बाजथुरु ग्राम, पो. आ. बलाहू, तालूक पुत्तुर, जिला डी. के. ।
85461	विजयनन्दन सी. मलीमय चिदानन्दा स्वामी पी. मलीमय	बी. ए. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६८	2200 30.9.96	नं. १७, १७ क्रॉस मुथयलानगर, गोकुल पोस्ट, बंगलौर ।

85462	विजयवती बी. हेगड़े के. भास्करा हेगड़े	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १९६४	11262 19.6.96	जी-५६, न्यू टाउन, भद्रवती जिला शिमोगा ।
85463	विजयेन्द्र एस. श्रीनिवास मूर्धे एम.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६५	11126 12.12.95	म.नं. ४७१, १२-क़ास, १३ नैन रोड, पद्मानभानगर, बंगलौर ।
85464	विजयकुमार बी. रमण बी.	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९६५	10825 28.9.94	पो.आ. हयारदा, तालूक हुविनाहवागल्ली, जिला बेल्तारी ।
85465	विमल धोगुले बालप्पा अप्पू चोगुले	आयुर्वेद निष्क नि.भा.आयु.विद्यापीठ, दिल्ली १९७६	11216 20.4.96	म.नं. १८६७, भोज गल्ली, पूजारीवावल शाहपुर, बेलगाम ।
85466	विमल कुमार बी. देवकुमार इन्द्रा	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६५	11389 31.12.96	डी.नं. ६, बुद्धा मार्ग, सिद्धार्थनगर, मैसूर ।
85467	विमला मराठे एम. एम. मंडनाथ	बी.ए.एम.एस. मंगलौर वि.वि., मंगलौर १९६५	11367 28.10.96	“गुरुकृपा” सोदय स्कूल रोड हवामूर एक्स्टेंशन नागासन्न पोस्ट, बंगलौर ।
85468	विनय भट पी. वासुदेवा भट पी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६५	11234 14.5.96	मैन रोड, पाने मंगलौर पोस्ट, बन्दवाल तालूक, दक्षिण कन्नड़ जिला ।
85469	विरूपक्षप्पा रचप्पा तलिकोटी रचप्पा बी. तलिकुटी	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९६६	11366 26.10.96	तेलगी रोड, बासवना बागेवाडी, पोस्ट एवं तालूक जिला बीजापुर ।
85470	विश्वनाथ रेड्डी बासवराप्पा पालिल	बी.ए.एम.एस. गुलबर्गा वि.वि., गुलबर्गा १९६०	11447 3.3.97	म.नं. १-११-२१६, ७वा रे प्लाट नं.१, निजलिंगप्पा कालोनी, रायचूर ।

85471	विवेका एम.बी. एम.जी. शास्कर	बी.ए.एम.एस. मैसूर वि.वि., मैसूर १६६५	11317 2.9.96	'श्री राघवेन्द्र भारथी श्री गुरु कृपा' विजयनगर कालोनी समर पोस्ट एवं तालूक, जिला शिमोगा ।
85472	विवेकानन्दा शेनोय राघवेन्द्र शेनोय बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६९	2120 8.7.94	मेडिकल रोड, ग्राम गोनीकोपालु विरजपेट, जिला कोदागु ।
85473	व्यजयन्तीमाला सी.जी. गुरुदास सी.बी.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	10865 7.12.94	१७७५, 'ब्रजा', ६-मैन रोड, डी ब्लॉक, राजाजीनगर, २- स्टेज, बंगलौर ।
85474	वली वीरन्ना सिद्धन्ना स्वी. सिद्धन्ना चानमालप्पा	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11049 18.8.95	दरबार गली, मंगोली रोड, बीजापुर ।
85475	यल्लात्ती विद्या शंकर शंकर	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६४	11067 13.9.95	म.नं. ५००/५०२, वेस्ट मंगलवारपेट, पो.आ. सोलापुर ।
85476	यशवन्था राघवेन्द्र चारी	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६९	10777 25.7.94	३२४/१, पी.जे. एक्सटेंशन, ८ क्रॉस पो.आ. दक्कनगरे, जिला चित्रदुर्गा ।
85477	यसोधा के. एस.बी. पदमानभा	वैद्य विद्वान आ.आयु परिषद, विजयवाड़ा १६७२	11272 24.6.96	नं. ५४६, २ मैन रोड, दूसरा स्टेज, बी.टी.एम. लेआउट, बंगलौर ।
85478	येछी विश्वनाथ रामन्ना रामन्ना	बी.ए.एम.एस. कर्नाटक वि.वि., धारवाड़ १६६३	10739 28.4.94	पो.आ. होन्वाडा, जिला बीजापुर ।
85479	योगेश राव एस. सदाशिव राव एस.	बी.ए.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	10894 1.2.95	१३/२, एस.एम. रोड जलाहल्ली, वेस्ट पोस्ट बंगलौर । राजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा केन्द्र परिषद् नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

कर्नाटक

भाग II यूनानी

के.पं.संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्राप्त्य निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
8195	अबदी अख्तर ए.इनामदार अब्दुल ख़ाद इनामदार	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६५	769 26.8.96	नं. १, बोवी कालोनी, नागशेट्टी हल्ली, संजयनगर, बंगलौर ।
8196	अब्दुल रहमान अब्दुल ज़ब्बार	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६४	738 12.5.95	द्वारा अब्दुल हान्म, कर्नाटका फैन्सी स्टोर पो.आ. नारायणपुर, तालूक शोरापुर, जिला गुलबर्गा ।
8197	एजाज अहमद सैयद नजीर अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६५	783 31.12.96	नं. २४, दूसरा मैन रोड, लालजी नगर, लक्ष्मन् पोस्ट, बंगलौर ।
8198	आलिया जैन ए.डी.जी. पीरजादे	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६५	777 10.9.96	नं. ८०, पेम्पेगौडा रोड, बैसन टाउन पोस्ट, बंगलौर ।
8199	अमजद पशा सैयद मोहिद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६२	728 2.7.94	द्वारा यू.के. भरमान आरवे. वेंकटेशपुरम पिल्लना गार्डन, अरबिक कालेज, बंगलौर ।
8200	अमथुल हफीज फातिमा मोहम्मद जहिरुद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९६२	709 4.5.95	३६७, ७ ब्रास, पहला ब्लाक, बंगलौर ।
8201	अनीस अहमद एम. अब्दुर रहमान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १९८०	2160 31.8.95	नं. १०२, १ ब्लाक, ईस्ट जयनगर, बंगलौर ।

8202	अनिफा फातिमा मुस्त हक	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	750 8.8.95	नं. २७/३, मरीत्तामी मुल्ल, ए.वी. रोड, कलासीपलायम, बंगलौर ।
8203	अन्वर अंजुम रफीक नुसरय	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६०	707 29.4.94	२५, ६-ए, ३६, ५वां ब्लाक जयनगर, बंगलौर ।
8204	आसिफ उल्लाह ए. एम. अमीर जान ए.	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६४	735 7.4.95	वैकटगिरी कोटे, न्यू कालोनी, मस्जिद रोड, पो. आ. चिन्तामणि, जिला कोलार ।
8205	आसिफा अख्तर एस. अब्दुल्ला	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६४	746 26.5.95	द्वारा डा. ताहिर अली, कर्नाटका क्लीनिक, पटेल सिन्धनुर, जिला रायचूर ।
8206	अधिया सुल्ताना जी. शैक मोहिउद्दीन	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६५	768 26.8.96	नं. १, बोवी कालोनी, नागशेर्दी हल्ली, संजयनगर, बंगलौर ।
8207	आयशा आसमा मोहम्मद सिराजुद्दीन	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६३	715 13.5.94	१३६१, स्वा मैन विजयनगर पो. आ. बंगलौर ।
8208	बसीबिनता एम. ए. सुभान	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	747 8.6.95	द्वारा एम. ए. ए. बैंग, म. नं. १११-ए, (१७३६) २४ क्रास, १६ मैन, दूसरा ब्लाक, राजजी नगर, बंगलौर ।
8209	चन्द्रमौली वर्मा सी. चानगमा राजू एस.	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६४	751 18.8.95	नं. १०७०, अवामी टैंक रोड, फोर्ट कोलार ।
8210	एफाय रैहाना मोहम्मद इब्राहिम	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६५	780 26.9.96	नं. १७६, पहला मैन मैसूर रोड, चामराजपेट, बंगलौर ।

8211	फहिमुनिमा मुखार अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	733 23.3.95	के.एच. रंगनाथा कालोनी नं. २०, दूसरा क्रास, पहला मैन रोड, के.एच.आर.कालोनी मेसूर रोड, जे.जे.आर.नगर, बंगलौर । नं. ४१/ए, आर.बी. रोड, बासवनगुडी पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय विद्यालय रोड, बंगलौर ।
8212	फरजाना परवीन के. अफरोस पाशा	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	742 20.5.95	
8213	फातिमा जहरा इशाक अहमद शरीफ	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	761 31.7.96	नं. ४१/१, ५ क्रास, पहला मैन रोड, आर.टी. नगर, बंगलौर ।
8214	फय्याज अहमद मुबारक अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	704 22.4.94	निकट मक्का मस्जिद, टिम्मापुर, पो.आ. रंगमेट, तालूक शग्रहपुर जिला गुलबर्गा ।
8215	फिरूस नसीम सेयद जकोल्ला	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	764 5.8.96	नं. ५, पहला मैन रोड, के.जी. हल्ली अरैबिक कालेज पोस्ट, बंगलौर नार्थ तालूक, बंगलौर ।
8216	फौजिया खानम मोहम्मद अदीबुल्ला	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	725 22.6.94	२१५, ११था क्रास, के.टी.जे. नगर, दावनगेरे, चित्रदुर्गा ।
8217	फौजिया सुत्ताना अब्दुल जब्बार	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	727 23.6.94	क्वार्टर नं. डी-३६, भीमरायनगुडी, तालूक शाहपुर, जिला गुलबर्गा ।
8218	गोपालाकृष्णा बी.बी. भदरैयाह बी.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	721 14.6.94	ग्राम उप्पीनाकोरे, पो.आ. नगरकोरे, तालूक मदुदुर, जिला मंड्या ।
8219	इफ्तीखसुद्दीन नूसुद्दीन अहमद एन.के.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६२०	2168 31.8.95	नं. ५१, ५-ए-क्रास, टी.एम.सी.एस. लेआउट, जे.पी. नगर, १ फ्लेस, बंगलौर ।

8220	इब्नाल एच.एम. मेनन स. हाजी मोहम्मद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८०	2164 31.8.95	नं. डी-११४, के.पी.डब्ल्यू.डी. क्वार्टर्स, जीवन बीमा नगर, एच.ए.एल. ३ स्टेज, बंगलौर ।
8221	इशरात जहान मोहम्मद असलम	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८१	759 26.6.96	नं. ६२६, ११ मैन हाल दूसरा स्टेज, इन्दिरानगर, बंगलौर ।
8222	कौसर परवीन अल्ताफ अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८२	2170 5.9.95	नं. ७/१, १-फ्लौर, २ मैन रोड, एम.वी. स्ट्रीट, जे.सी. नगर, बंगलौर ।
8223	खालिद जावेद अशराफ अलिक	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	748 5.7.95	नं. १०४६ २६१५ ३६वा क्रास, २६ मैन, ४ टी ब्लॉक, जयनगर, थिलकनगर पोस्ट, बंगलौर ।
8224	खुर्रिद अहमद रकीब आर.ए.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८३	717 13.5.94	नं. ४, एम.नं. तीसरी स्ट्रीट, चारमीनार रोड, बंगलौर ।
8225	कौसेल्लिनसा दजीर जान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	739 16.5.95	डोर नं. ३८८, ३८७ए-क्रास, २६ मैन रोड, ६वा ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर ।
8226	ललिया रेड्डी जी. जी. वैक्टा रामु	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	743 20.5.95	नं. ३२, डिफेंस कालोनी, कोडीगेल्ली मैन रोड, बंगलौर ।
8227	एम.एस. जीयाउर रहमान महमद शाफेउर	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	732 14.2.95	मुबारक मोहल्ला, मोताकलामुर, जिला चित्रदुर्गा ।
8228	महजबीन नजीर अहमद एम.एच.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	776 10.9.96	भूपसुन्दर मैन रोड, आरएमवी, दूसरा स्टेज, बंगलौर ।

8229	मल्लेश गौड़ा एम.एन. निरखनी गौड़ा	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८४	2171 5.9.95	नं. ६०१, १० क्रास, ७ ब्लाक वेस्ट जयनगर, बंगलौर ।
8230	मस्ते तन्वीर अहमद नयाज अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	767 6.8.96	नं. ६२, ५वां मैन रोड, जयमहल एक्स्टेंशन बंगलौर ।
8231	मिर्जा सिकन्दर बैग मिर्जा निजीर बैग	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८३	2175 28.9.95	म.नं. ५-६४८, चोटा रोजा, हुसनी आलम, गुलबर्गा ।
8232	मोहमद अरिफुल्ला बी. मोहमद सनाउल्ला बी.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	713 13.5.94	७, एम.एन. तीसरी स्ट्रीट, न्यू मार्किट रोड शिवाजीनगर, एच.के.पी. रोड, बंगलौर ।
8233	मोहमद अदीबुल्ला मोहमद अजमथुल्ला	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	724 22.6.94	८१५, ११वा क्रास, के.टी.जे. नगर, दावनगेरे, चिन्नदुर्गा ।
8234	मोहमद अहमद अलमास सी.एम. अब्दुल गनी	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	757 7.5.96	नं. ४३, ५वा क्रास, पहला मैन कंक्रानगर, आर.टी. नगर पोस्ट, बंगलौर नोर्थ टालूक बंगलौर ।
8235	मोहमद नूरुल्ला मोहमद इशाक	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८०	2174 20.9.95	न्यू हाउस क्लिपाडी ग्राम, पो.आ. मुलकी, तालूक मंगलौर, जिला डी.के. ।
8236	मोहमद हाफिज अब्दुल समद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	753 23.11.95	नं. २७१७, विक्रोटे, तालूक दोड्डाबल्लपुर, जिला बंगलौर ।
8237	मोहमद खल्लेनुल्लाह शरीफ ए.आर. ए.एच. अब्दुल राउफ	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६८२	2166 31.8.95	नं. २८, नलबन्दा वाडी, पुलिस रोड क्रास, बंगलौर ।

8238	मोहम्मद शफी-उर-रहमान मोहम्मद खलील-उर-रहमान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	774 9.9.96	नं. ६४६, क्लैपेट, कोलार ।
8239	मोहम्मदी नयीम उज जमन मोहम्मद निजामुद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	763 5.8.96	नं. ४०५, तीसरा मैन रोड, आनन्दनगर, बंगलौर ।
8240	मोहम्मद. निसार अली जहीर अली	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	722 22.6.94	द्वारा कर्नाटक क्लैनिंग, प्लेट वाडी, सिन्धुनु, जिला रायचूर ।
8241	मोहम्मद. राउफ हशमी मोहम्मद. इब्राहिम	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	737 12.5.95	म.नं.१८-१३-८/ए/१२, पो.आ. केशवगिरी, इ-बन्दलागुडा, हैदराबाद ।
8242	मोहम्मद आसिफ कुरैशी गफ्फार कुरैशी	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	711 7.5.94	२६४०, ग्राम नलवाडवाडी, पो.आ. रमणग्राम, बंगलौर ।
8243	मुबीन ताज घोस मोहिउद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	778 10.9.96	नं. ३०८, ७वा क्रॉस, रमेशनगर, एच.ए.एल. एस्टेशन विधुतिपुरा पोस्ट, बंगलौर ।
8244	मुजाहिद पाशा ए. अनवर बाशा पी.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	723 22.6.94	२०३, ६, पहला बापूजीनगर, बंगलौर ।
8245	मुशतरी बानू नवाजीश अली बैग	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	2172 7.9.95	नं. सी-१८, ७ क्रॉस, जयमहल एस्टेशन, बंगलौर ।
8246	मुजफ्फर हुसैन इकबाल अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	758 25.5.96	म.नं. ३२३४, सामने रेलवे स्टेशन घोषेखाना मोहल्ला रामणाग्राम, बंगलौर ।

8247	नफीसा सुल्ताना एन. नजीर अहमद	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६४	744 23.5.95	नं. ६०५, ३ कास रोड, पो. आ. सेवर्टनपेट तालुक बंगरपेट, जिला कोलार्ड ।
8248	नाहिदा तबस्सुम नूरुल्लाह खान एम.	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६३	716 13.5.94	४६, कोकबर्म रोड, शिवाजीनगर, बंगलौर ।
8249	नैला मीर अमानुल्ला	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६४	741 16.5.95	डौर नं. बी-२८, डिस्पेंसरी रोड, खलासी पलायम, बंगलौर ।
8250	नजीमा अम्बरीन के. इकबाल अहमद खान	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६१	782 4.12.96	बीएसए क्लीनिक एवं नर्सिंग होम, मैन रोड, महल पोस्ट, कलीक्री (मण्डल) तालुक, जिला वित्तूर ।
8251	निर्मला बी. एस. सुब्रामन्यन ए. एन.	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६३	714 13.5.94	५८, मयस्कृपा, सामने तालुक एम. एन. पोलिटेक्निक कम्पागोन्दना हल्ली, जलाहल्ली, वेस्ट बंगलौर ।
8252	निसाथ रेहाना मोहम्मद जियाउल हक	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६५	772 9.9.96	नं. ४९, ३ कास, पहला स्टेज, पिल्लाना गार्डन, बंगलौर ।
8253	नूर फातिमा रशीद एम. अब्दुल रशीद	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६५	762 31.7.96	नं. ७ एवं ८, पीछे फातिमा स्टेर्स, रोज गार्डन, नेलासन्द, विवेकनगर पो. आ., बंगलौर ।
8254	पदमजा ए. आर. रंगास्वामी ए. टी.	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६३	705 25.4.94	६५४, बी 'ए' मैन रोड, प्रकाशनगर, बंगलौर ।
8255	रफिया बेगम एन. स्व. एम. मोहम्मद नसीरुद्दीन	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६८०	2169 1.9.95	नं. १५१५, ८ मैन रोड, विनोबानगर, तुमकूर ।

8256	रहमथुल्ला मोह. सलेहा	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	745 26.5.95	द्वारा सैयद शुहाबुद्दीन, नं. १०१६, खाजी स्ट्रीट, फोर्ट कोलार ।
8257	रजक खान एच.एम. एच.एम. मयूर खान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६६	781 16.11.96	म.नं. २२/१, निकट इलाही मस्जिद, अरेबिया लेआउट वेकेशपुर, बंगलौर ।
8258	रेश्मा एन. जगदीशा के.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	775 9.9.96	नं. १३०, तीसरा मैन रोड, चापराजपेट, बंगलौर ।
8259	सादत हुसैन अब्दुल हई मीरासदर	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	736 12.5.95	आजम मंजिल सामने गवर्नमिन्ट हाई स्कूल पो.आ. रंगमपेट, तालूक शोरापुर, जिला गुलबर्गा ।
8260	सैफुल्ला पी.एम. एम. सफीउल्ला	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	726 22.6.94	४६, एम.एस. बिल्डिंग, विवेकानगर, बंगलौर ।
8261	सज्जद पाशा अलाउल्ला खान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	708 29.4.94	१, मैत्री वेंकटेश्वरामिण्या स्ट्रीट, एम.आर. पलायम, जे.सी. नगर, बंगलौर ।
8262	समी उल्ला अब्दुल राउफ	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2161 31.8.95	नं. १०, मस्जिद स्ट्रीट, कलासीपलायम, बंगलौर ।
8263	सत्ती प्रसन्ना प्रभाकरा भट	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	752 7.9.95	नं. २७, ३, सी क्रॉस, तीसरा मैन रोड नदिनी लेआउट, बंगलौर ।
8264	सविथा एम. एम. मुयैयाह	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	740 16.5.95	डोर नं. ३८/१, पहला क्रॉस, ५ मैन रोड, हनुमन्थनगर, बंगलौर ।

8265	सैयद नसीम बानो नवाब नवाब मोह. हुसैनी	बी. यू. एम. एस. बम्बई वि. वि., मुम्बई १६६२	756 25.3.96	म.नं. २१-५८, दारबन बेस, सैयद मोजिल असर मोहल्ला पो.आ. एवं तालुक शाहपुर, जिला गुलबर्गा । १-६-६६, अजाननगर, रायचूर ।
8266	सईदा अथर सलाम सलिक एम.ए.	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	710 6.5.94	
8267	शबाना सुल्ताना एम.ए. अकबर खान	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	718 19.5.94	१०/५, दिन्नर स्वी मैन रोड आर.टी. नगर, बंगलौर ।
8268	शहजादा खादिर सैयद इमाम	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	730 15.9.94	पो. आ. एवं तालुक चिन्यामणि, जिला कोलार ।
8269	शहेद हुसैन कश्फ मोहम्मद आरिफ	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	760 31.7.96	नं. ६२, १६ क्रॉस, ७वा मैन रोड, फदरयानपुरा, बंगलौर ।
8270	शहीना बेगम ए. अहमद उल्ला खान	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	2173 7.9.95	नं. ४७, १-क्रॉस, न्यू एक्स्पेंशन कलासीफलायम, बंगलौर ।
8271	शैख अली मोहम्मद अजीजुल्लाह	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६२	712 13.5.94	६, मुसिद स्टीट, ४ मैन, चिन्नपा गार्डन बैसन टाउन, बंगलौर ।
8272	शमीम रुखसाना मोहम्मद अहमद खान	बी. यू. एम. एस. उस्मानिया वि. वि., हैदराबाद १६६४	771 29.8.96	नं. २१०, १४ 'ए' क्रॉस, ५वा मैन, दूसरा ब्लाक, आर.टी. नगर, बंगलौर ।
8273	सत्येदा नाज पवीन बानू एन. एम. सैयद नसीरुल्ला	बी. यू. एम. एस. बंगलौर वि. वि., बंगलौर १६६३	2176 14.11.95	नं. १०/१, सिरसी रोड, ४ क्रॉस, चामराबोटे, बंगलौर ।

8274	सुब्रामन्या टी.आर. टी.आर. रामैयाह	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	755 12.1.96	म.नं. ४२, ४ स्ट्रीट, कट्टरागुप्पे, छाथी लेआउट विवेकानन्दनगर, बी.एस.के., तीसरा स्टेज, बंगलौर ।
8275	सुधा के.एच.	बी.यू.एम.एस.	731	१७२४, पुलिस स्टेशन रोड, बासवनगुडी, बंगलौर ।
	सुदर्शन तंजी	बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	28.12.94	
8276	सुधीन्द्र के.एच. हयावदना पुराणिक	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	719 26.5.94	द्वारा प्रॉसिपल पी.पी. विद्यापीठ पो.आ. क्यारगुप्पा, बंगलौर ।
8277	सैयद अनीस अहमद सैयद जगल अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2163 31.8.95	नं. ११/३, कससुबा स्ट्रीट, धिमैयाह रोड क्रास, बंगलौर ।
8278	सैयद बाखर सैयद शाहाबुद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	770 29.8.96	नं. ५, दूसरा ब्लाक, पी एवं टी क्वार्टर्स, कवलेयारासन्द, बंगलौर ।
8279	सैयद फिरोज अहमद सैयद खादर मोहिद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६४	734 31.3.95	११२, ए.के.एच.बी. कालोनी, ५वा ब्लाक, कोरामंगला, बंगलौर ।
8280	सैयद मोहम्मद अली सैयद सुलेमान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	720 1.6.94	द्वारा जम्बारसाहेब नं. ४४, २ क्रॉस, पहला मैन महादहल्ली, आर.टी. नगर पो.आ. बंगलौर ।
8281	सैयद रफीकुल्ला एस. सैयद महमूद एस.	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2159 31.8.95	नं. ६३, २ मैन रोड, रंगनाथा लेआउट, जे.जे. रामनगर, बंगलौर ।
8282	सैयद शकिरा बानू सैयद यासिनू खादरी	बी.यू.एम.एस. एस.बी. वि.वि., तिरुपति १६६१	754 23.11.95	जामीरदार, इब्राहिमपुरा पेठ, पो.आ. मुदाल, तालुक, लिंगसुसुर, जिला रायचूर ।

8283	सैयद शमशुल्लवारा मोहम्मद खलीलुर रहमान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६२	706 25.4.94	५, पहला क्रॉस, सोन्पपा ब्लाक, जे.सी. नगर, एम.आर. पल्या, बंगलौर ।
8284	सैयद विक्रम अहमद सैयद मुज्ज्जार अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६३	729 22.7.94	ओल्ड सिन्डीकेट बैंक, नरगन मैन रोड, काडुगोनदनहल्ली अरविक कालेज पो.आ. बंगलौर ।
8285	सैयद जाहिद हुसैन सैयद यासीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	766 5.8.96	म.नं. ४२, गनी मंजिल, बेगरे कस्बा, मंगलौर, जिला डी.के. ।
8286	सैयदा समीम फाथिमा अमीर जान	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	773 9.9.96	नं. २२३, जे.एच.बी.सी.एस. ८ क्रॉस, दूसरा मैन जे.पी. नगर, बंगलौर ।
8287	तसनीम बाबू एस. अब्दुल अजीज	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	779 11.9.96	नं. ८/८, दुसरा क्रॉस, २६ मैन रोशन कालोनी तिलकनगर, बंगलौर ।
8288	तसनीम बानू मुशीर अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६९	749 31.7.95	नं. ५४, १ मैन रोड, पैलेस गृहहल्ली, बंगलौर ।
8289	उमराज मुबीन मोहम्मद अहमद	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६९	2167 31.8.95	नं. २८, नलबन्दा वाड़ी, पुलिस रोड क्रॉस, बंगलौर ।
8290	वहीदा सुल्ताना महबूब अली	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६५	765 5.8.96	नं. ३१५, जेएचबीसीएस लेआउट, जे.पी.नगर पोस्ट बंगलौर ।
8291	जियाउद्दीन एस. के. ए. शाहबुद्दीन	बी.यू.एम.एस. बंगलौर वि.वि., बंगलौर १६६०	2165 31.8.95	नं. २२७, ४ क्रॉस, एचएमटी लेआउट, मट्टीकोरे, बंगलौर ।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 021, the 14th September 2005


NOTICE

With reference to the Notice dated the 31st August, 2005 containing the names and addresses of the validly nominated candidates contesting for the election for the two vacancies of Directors on the Central Board under Section 19 (c) of the State Bank of India Act, notice is hereby given that the following candidates have been duly declared elected as Directors on the Bank's Central Board in the election held at the General Meeting of the Shareholders of the Bank on the 14th September, 2005 in the Bank's Auditorium, behind State Bank of India, Madame Cama Road Branch, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai 400 021 (Maharashtra).

1. Dr. Ashok Jhunjhunwala,
Professor,
Telecom & Networks (TeNet) Group,
Department of Electrical Engineering,
IIT, Madras,
Chennai – 600 036

2. Shri. Suman Kumar Bery,
N-42, Panchshila Park
New Delhi – 110 017

Central Office,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400 021.
Dated : 14th September, 2005


(K. ASHOK KINI)
MANAGING DIRECTOR & GE(NB)

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

New Delhi, the 2005

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA GENERAL (AMENDMENT) REGULATIONS, 2005

No.CFG/2005 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of Export-Import Bank of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Export-Import Bank of India General Regulations, 1982, namely: -

1. Short title and commencement – (1) These regulations may be called the Export-Import Bank of India General (Amendment) Regulations, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export-Import Bank of India General Regulations, 1982, (hereinafter referred to as “the said Regulations”), in regulation 14, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) a balance sheet as on the 31st March of each year or such other date in each year as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify, a profit and loss account and a cash flow statement for that year, of the General Fund, in the forms in Schedule I, II and III to these Regulations; and”
3. In the said regulations, for Schedules I, II, I-A and II-A, the following Schedules I, II, I-A and II-A respectively shall be substituted, namely: -

Schedule I

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA**BALANCE SHEET AS AT _____****GENERAL FUND**Previous yearThis yearRs.**LIABILITIES**Rs.**SCHEDULES**

1. Capital	I
2. Reserves	II
3. Profit & Loss Account	III
4. Notes, Bonds & Debentures	
5. Bills Payable	
6. Deposits	IV
7. Borrowings	V
8. Current Liabilities & Provisions for contingencies	
9. Other Liabilities	

Total**ASSETS**

1. Cash & Bank Balances	VI
2. Investments	VII
3. Loans & Advances	VIII
4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted	IX
5. Fixed Assets	X
6. Other Assets	XI

Total

GENERAL FUND		
Previous Year		This Year
<u>Rs.</u>	<u>CONTINGENT LIABILITIES</u>	<u>Rs.</u>
	(i) Acceptances, Guarantees, endorsements & other obligations	
	(ii) On outstanding forward exchange contracts	
	(iii) On underwriting commitments	
	(iv) Uncalled Liability on partly paid investments	
	(v) Claims on the Bank not acknowledged as debts	
	(vi) Bills for collection	
	(vii) On participation certificates	
	(viii) Bills Discounted/Rediscounted	
	(ix) Other monies for which the Bank is contingently liable	

Schedule II

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED****GENERAL FUND**Previous Year
Rs.**EXPENDITURE**This Year
Rs.**SCHEDULES**

1. Interest
2. Credit Insurance, fees and charges
3. Staff Salaries, Allowances
etc. and Terminal Benefits
4. Directors' and Committee
Members' Fees and Expenses
5. Audit Fees
6. Rent, Taxes, Electricity
and Insurance Premia
7. Communication expenses
8. Legal Expenses
9. Other Expenses XII
10. Depreciation
11. Provision for loan losses/contingencies,
depreciation on investments
12. Profit carried down

Total

Provision for Income Tax
Balance of profit transferred to
Balance Sheet

INCOME

1. Interest and Discount XIII
2. Exchange, Commission,
Brokerage and Fees
3. Other Income XIV
4. Loss carried to Balance Sheet

Total

Profit brought down
Excess Income/Interest tax provision
of earlier years written back

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

<u>Previous Year</u>		<u>GENERAL FUND</u> <u>This Year</u>
<u>Rs.</u>		<u>Rs.</u>
Schedule I :	Capital :	
	1. Authorised	
	2. Issued and Paid-up :	
	(Wholly subscribed by the Central Government)	
Schedule II :	Reserves :	
	1. Reserve Fund	
	2. General Reserve	
	3. Other Reserves :	
	Investment Fluctuation Reserve	
	Sinking Fund (Lines of Credit)	
	4. Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	
Schedule III :	Profit & Loss Account :	
	1. Balance as per annexed accounts	
	2. Less: Appropriations:	
	- Transferred to Reserve Fund	
	- Transferred to Investment Fluctuation Reserve	
	- Transferred to Sinking Fund	
	- Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	
	- Provision for tax on distributed profit by way of dividend	
	3. Balance of the net profits (Transferable to the Central Government in terms of Section 23(2) of the EXIM Bank Act, 1981)	
Schedule IV :	Deposits:	
	(a) In India	
	(b) Outside India	

(2)

Schedule V :**Borrowings :****1. From Reserve Bank of India :****(a) Against Trustee
Securities****(b) Against Bills of
Exchange****(c) Out of the National
Industrial Credit
(Long Term Operations) Fund****2. From Government of India****3. From Other Sources :****(a) In India****(b) Outside India****Schedule VI :****Cash & Bank Balances :****1. Cash in Hand****2. Balance with Reserve Bank of
India****3. Balances with other Banks:****(a) In India****i) in current accounts****ii) in other deposit accounts****(b) Outside India****4. Money at call and
short notice**

(3)

Schedule VII:**Investments:**

(net of diminution in value, if any)

1. Securities of Central and
State Governments

2. Equity Shares & Stocks

3. Preference Shares and
Stocks4. Notes, Debentures and
Bonds

5. Others

Schedule VIII :**Loans & Advances:**

1. Foreign Governments

2. Banks:

(a) In India

(b) Outside India

3. Financial Institutions:

(a) In India

(b) Outside India

4. Others

Schedule IX :**Bills of Exchange and Promissory
Notes Discounted/Rediscounted**

(a) In India

(b) Outside India

		(4)	
Schedule X :	Fixed Assets : (At cost less depreciation)		
	1. Premises		
	2. Others		
Schedule XI :	Other Assets :		
	1. Accrued interest on		
	a) investments / bank balances		
	b) loans and advances		
	2. Prepaid insurance premium -		
	paid to Export Credit		
	Guarantee Corpn. of India Ltd.		
	3. Deposits with		
	sundry parties		
	4. Advance Income Tax paid		
	5. Others		
Schedule XII :	Other Expenses :		
	1. Export Promotion Expenses		
	2. Expenses on and related to Data Processing		
	3. Repairs and Maintenance		
	4. Printing and Stationery		
	5. Others		
Schedule XIII :	Interest and Discount :		
	1. Interest and Discount on		
	loans and advances/bills		
	discounted/rediscounted		
	2. Income on Investments/bank balances		
Schedule XIV :	Other Income :		
	1. Net Profit on sale /		
	revaluation of investments		
	2. Net Profit on sale on land,		
	buildings and other assets		
	3. Others		

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA**BALANCE SHEET AS AT _____****EXPORT DEVELOPMENT FUND**Previous YearThis YearRs.Rs.**LIABILITIES**

1.Loans :

- (a) From Government
- (b) From Other Sources :

2.Grants:

- (a)From Government
- (b)From Other Sources

3.Gifts, Donations,Benefactions :

- (a)From Government
- (b)From Other Sources

4.Other Liabilities

5.Profit and Loss Account

Total**ASSETS**

1.Bank Balances

- a) In current accounts
- b) In other deposit accounts

2.Investments

3.Loans & Advances :

- (a) In India
- (b) Outside India

 4. Bills of Exchange and
 Promissory Notes
 Discounted, Rediscounted

- (a) In India
- (b) Outside India

5.Other Assets

- (a) Accrued Interest on
 - (i) Loans and Advances
 - (ii) Investments/bank balances
- (b) Advance Income Tax paid
- (c) Others

Total

(2)		
EXPORT DEVELOPMENT FUND		
<u>Previous Year</u>		<u>This Year</u>
<u>Rs.</u>	<u>CONTINGENT LIABILITIES</u>	<u>Rs.</u>
	(i) Acceptances, Guarantees, endorsements & other obligations	
	(ii) On outstanding forward exchange contracts	
	(iii) On underwriting commitments	
	(iv) Uncalled Liability on partly paid investments	
	(v) Claims on the Bank not acknowledged as debts	
	(vi) Bills for collection	
	(vii) On participation certificates	
	(viii) Bills Discounted/Rediscounted	
	(ix) Other monies for which the Bank is contingently liable	

Schedule II-A

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED _____**EXPORT DEVELOPMENT FUND****Previous Year**
Rs.**This Year**
Rs.**EXPENDITURE**

1. Interest
2. Other Expenses
3. Profit carried down

Total

Provision for Income Tax

Balance of profit transferred to
Balance Sheet**INCOME**

1. Interest and Discount
 - (a) loans and advances
 - (b) investments / bank balances
2. Exchange, Commission,
Brokerage and Fees
3. Other Income
4. Loss carried to
Balance Sheet

Total

Profit brought down


Excess Income/Interest tax provision
of earlier years written back

4. In the said regulations, after Schedule II-A, the following Schedule shall be inserted, namely: -

Schedule III

Cash Flow Statement for the year ended			
		Amount (Rs in lacs)	
Particulars		Year ended... (this year)	Year ended... (previous year)
Cash flow from Operating Activities			
Net Profit before tax and extra-ordinary items			
Adjustments for			
- (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net)			
- (Profit)/Loss on sale of Investments (Net)			
- Depreciation			
- Discount/Expenses on bond issues written off			
- Transfer from Investment Fluctuation Reserve			
- Provisions/Write-offs of Loans/Investments & other provisions			
- Others - to specify			
Adjustments for			
- Other Assets			
- Current liabilities			
Cash generated from operations			
Payment of income tax/interest tax			
Net cash flow from operating activities			
Cash flow from Investing activities			
- Net purchase of fixed assets			
- Net change in investments			
Net cash used in / raised from Investing activities			
Cash Flow from Financing activities			
- Equity capital infusion			
- Loans borrowed (net of repayments made)			
- Loans lent, bills discounted & rediscounted (net of repayments received)			
- Dividend on equity shares & tax on dividend			
Net cash used in / raised from Financing activities			
Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalents			
Opening Cash & Cash Equivalents			
Closing Cash & Cash Equivalents			

Note:- Govt. of India has given approval to the Principal Regulations vide letter F.No.14(18)//76/IF.I dated July 24, 1987 (requirement of Notification in the Official Gazette was inserted in Section 39(1) of Exim Bank Act with effect from December 30, 1988). Amendments in Regulation 14 & Schedules were published in the Official Gazette on February 9, 2002, Regulation 8 on February 9, 2002, Regulations 3, 5 & 7 on February 9, 2002, Regulations 4 & 10 on December 19, 2003 and Regulation 6 on December 19, 2003.



(S. Sridhar)
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th July 2005

No.U-16/53/99/Med.II/(A.P.) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. A. Chandra Shekhar	3.9.2005 to 2.9.2006	Hyderabad


DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

EMPLOYEE EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
BHAVISHYA NI (HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 14th July 2005

-07-2005

No. C.P.F.C./1(4)44/2005/EZ—

S. O. _____ whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

S. No.	Code No.	Name of estt.	Date of Coverage	Date of Consent
1	AS/5712	M/s. H. L. Enterprises, Barbia, Arunachal Pradesh	01-04-05	01-04-05
2	AS/5749	M/s. AMPAS, R.G. Baruah Road, Guwahati	02-05-05	02-05-05
3	AS/5734	M/s. Baba Ganesh Travel, Shankar Nagar, Noonmati, Guwahati	07-04-05	07-04-05
4	AS/5579	M/s. J. S. Enterprises, Salbari, Noonmati, Guwahati	29-12-04	29-12-04
5	AS/5663	M/s. Assam Board of Wakfs, Dispur, Guwahati - 6.	18-02-05	18-02-05
6	AS/3857	M/s. St. Francis D'Assisi School, Gurchuk, Guwahati	01-03-02	01-03-02
7	AS/5617	M/s. Yashana, Lachit Nagar, Guwahati	01-02-05	01-02-05
8	WB/38389	M/s. The Panihati Co-op., North 24-Parganas	01-04-02	01-04-02
9	WB/30872	M/s. Deepak Kumar Roy, Maheshmati, Malda	01-11-02	01-11-02
10	WB/31260	M/s. Kadamgachi 'O' Dimiti S.K.U.S. Ltd. (Mini Bank), P.O. Khanti Dist., Uttar Dinajpur	01-07-04	01-07-04
11	WB/41443	M/s. Meadow Food Specialities, Kolkata	01-07-04	01-07-04
12	WB/31267	M/s. Islampur Mahila Credit co-op. Society Ltd., Deshbandhupara, Dist. Uttar Dinajpur, Sikkim	01-09-04	01-09-04

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments

DR. A. K. CHANDOK
Regional P. F. Commissioner(C)

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
NA'

FORM B

(See Rule 27)

New Delhi, the 23rd August 2005

Notice under Sub-section 1 of Section 13 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 read with Rule 27 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985

Notice is hereby given that: -

- (1) (a) The final Regional Plan has been prepared; and
- (b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the National Capital Region Planning Board situated at Core-IV B, 1st Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003 on all working days from 11.00 A.M. to 3.00 P.M.



MEMBER SECRETARY
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI 110058, 30th AUGUST, 2005

No. 20-52/CR/2005 Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section(1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Karnataka and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:- Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Karnataka) from April 1994 to March 1997 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.



(P.R. SHARMA)
REGISTRAR

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE
KARNATAKA
PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
84735	A. Ajay Ramalingam A.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1986	10618 08/02/95	M.I.G. 36, Gangotri Layout, Distt. Mysore.
84736	Abale Anwar Hussain Syed Rasul Syed Rasul Abale	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1988	10687 13/01/95	Abale House, Bisthi gali PO, Jhalkuta Tq. Muddangihal, Distt. Bijapur.
84737	Ajay A Ramalingam A.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2140 08/02/95	MIG 36, Gongotri Layout, Sarwathipuram, Mysore
84738	Ajithanatha Indra K. Aparajitha Indra K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11228 13/05/96	At. Kelapete, Kashiyaia Post, Bejthangady Taluk, Dakshina Kannada Distt.
84739	Aken Shrinivas Narasayya Natasayya Gowrayya Aken	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10878 10/01/95	21/78, Detanagar, Chalipeth, Solapur.
84740	Allahsaheb Nabisaheb Yadawa Nabisaheb	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2186 23/02/96	H.No.L.R.34, Nandini Layout, Bangalore.
84741	Amba Bhavani P. Premakumar G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11400 01/01/97	No.51/26, "Nandana" 20th Cross, 22nd Main Vijayanagar, Bangalore.
84742	Ambujakshamma B. Ramalah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	10795 02/08/94	3786, Thimmanakurte, Kumbarpel, Kungadiappa Main Rd., Doudaballapur, Bangalore.
84743	Ambujakshi M. Narayana Swami	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1987	2127 15/10/94	No.17, Yellappa Street, Chikmavalli, Bangalore.
84744	Amitha Kumari Sundara Kuttan	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11301 17/08/96	H.No.4 (1), Panilyur Post, Udupli Taluk, Dakshina Kannada Distt.
84745	Amoghasiddha Keshappa Hatti Keshappa Kareppa Hatti	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1996	11351 04/10/96	Aratal Post, Athan Taluk, Distt. Belgaum.
84746	Amrita S. Puranik D. Seetharama Prasad	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11340 12/09/96	No.34, Hennur Road, Ankanreddy Layout St. Thomas Town, Bangalore.

84747	Ananda M.G. D. Gangadharimallah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore. 1994	11344 12/05/96	No.1472, Kalyanahalli, T. Dasarahalli, Bangalore North Tk., Bangalore.
84748	Anandkumar Mookabasappa Mookabasappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11159 24/07/96	C/o S.C. Hosamani (Advocate) Tagore Road PO & Tq. Gadag, Distt. Dharwar.
84749	Ananthasayana G.H. Hanumanthappa G.	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1995	11213 18/04/96	"Hennakuta", Tyagarajanagar, Chellakere Post & Tq., Distt. Chitradurga.
84750	Angadi Andanappa Veerappa Veerappa Andanappa Angadi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10881 11/01/95	C/o I.A. Angadi, Post-Hole-Alur, Tq. Ron, Distt. Dharwar.
84751	Anil Kumar S. Kalyani Shivaputtrappa G. Kalyani	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1996	11357 09/10/96	Station Road, Hole-Alur Post, Ron-Tq, Distt. Dharwar.
84752	Anitha K. K. Taranatha Bhett	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11405 03/01/97	C/o Nutan Cloth Centre, Jayapura Post, Koppa Taluk, Chickmagalur Distt.
84753	Anitha Kumari B.B. B.S. Biddappa	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11425 03/02/97	Covercolly Estate, P.B.No.3, Somwarpet, Post Somwarpet, Tk. Kodagu Distt.
84754	Anappa Sooda H. Bhoja Sooda K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1984	2133 21/12/94	Arakeshwara Nilaya, 6th Cross, Chamundeswari Nagar, Mandya.
84755	Anupama Kamath K. K.C. V. Kamath	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11257 14/06/96	C/o V. Mohandes Nayak, House No.8/130, Behind MIT, 8th-Block, Manipal.
84756	Anuradha A. D.V. Bhuvanesh	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11224 10/05/96	Dommiasandra Post, Anekal Taluk, Distt. Bangalore.
84757	Anuradha B.M. Mallojirao B.R.	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga, 1994	10840 20/10/94	C/o Padmalatha Stores Main Road, PO & Tq.-Belur, Distt. Hassan.
84758	Anuradha M. Visveswarajah M.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	11115 27/11/95	Sriranga" 119, 10-Cross, 29- Main Road, J.P. Nagar, 1-Phase, Bangalore.
84759	Anuradha Nadkarni Prashant Kumar B.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	10968 12/04/95	Near Varadraj Temple, PO.Gokarna Tq. Kumata, Distt. N.K.

84760	Aparna Prabhudev Shankhinmath Prabhudev R. Shankhinmath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10828 29/03/94	Near Shivaji Circle Post Mudhol, Distt. Bijapur.
84761	Aruna Kumari P. Vrupaksh H.V.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11170 12/02/96	H.No.140/1A, 3-Block, 4-Main Road Thyagarajana gar, Bangalore.
84762	Arunamma P. Gopal Reddy P.	BAMS Guibarga Univ., Guibarga 1995	11210 18/04/96	C/o M.S. Des Door No.23(2) Ward VIII, Alagappa Rd., Brusspath, Bellary.
84763	Asema Parveen Syed Inayatulla	BAMS Guibarga Univ., Guibarga 1994	10995 17/05/95	Door No.13, Ward No.22, Ex-Servicemen Colony, Main Road, Koul Bazar, Bellary.
84764	Asha N. Nanjundalah S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11249 01/06/96	No.973, Ranganatha Nilaya, Havnur Bedevaru Bagalkurte, Nagasandra Post, Bangalore.
84765	Asha S. B. Krishna Moorthy	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11388 02/12/96	At. Alekkady, Murulliya Post, Sulita Tk. Dakshina Kannada Distt.
84766	Asha T.K. Krishna Murthy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10731 28/04/94	2M, 24th Cross 15th Main Banashankari II-Stage, Bangalore.
84767	Ashifail S. Dongargason Shoulstail	BAMS Guibarga Univ., Guibarga 1995	11105 15/11/95	P.O. Kohalli, Tq. Athani, Distt. Belgaum.
84768	Ashok Ethar K. Mahalingeshwara	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11123 07/12/95	Pamkutti "At-Karmila, PO. Daigaladika, Tq. Sulita, Distt. D.K.
84769	Ashok G. Mattigatti Gangappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10783 02/08/94	Mygeri Onl. Post Navalur, Distt. Dharwar.
84770	Ashok Mukundappa I.T.I. Mukundappa Budappa I.T.I.	BAMS Guibarga Univ., Guibarga 1994	10999 20/05/95	PO. Bennikoppa, Tq. Shirahalli, Distt. Dharwar.
84771	Ashoka Kumar B. Balechandra Rao B.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11098 10/10/95	Guthumane, Kannadi-II, PO. Dharmasthala, Tq. Belthangangadi, Distt. D.K.
84772	Ashwini K.T. Thimmarayappa K.R.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11140 23/12/95	H.No.614/25, 13-Cross, 5-Main Road, Vijayanagar, Bangalore.

8-1773	Ashwini Kumar Govindrao Badchikar Govind Rao Badchikar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2210 13/02/97	Near Bus Stand Badchikar Hospital, Banhattipost, Jemkhandi Tq., Distt. Bijapur.
8-1774	Ashwinikuma Govinda Rao Badchikar Govindrao Badchikar	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1986	11081 10/10/95	PO. Banahatti, Tq. Jemkhandi, Distt. Bijapur.
8-1775	B. Jayarama Shetty Bhujanga Shetty	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2132 21/11/94	16, 421/1, 7th Cross, 2-Main, Amarjyothinagar, 2nd Main, Vijayanagar.
8-1776	B.S. Mehesha Shankarrao B.T.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11073 22/09/95	PO. Belavinakodige, Tq. Koppa, Distt. Chickamagalur.
8-1777	Babaladi Khandappa Basappa Babaladi Basappa Gurulingappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11199 29/03/96	At. Shiranal, Tq. & Distt. Bijapur.
8-1778	Babaladi Khandappa Basappa M. Shankar Joshi Babaladi Basappa Gurulingappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10963 04/04/95	PO. Mala, Tq. Karkala, Distt. D.K.
8-1779	Babaladimath Shankarayya Shivrudrayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10906 02/02/95	At & PO. Chandargi Tq. Ramadurga, Distt. Belgaum.
8-1780	Baburajendra Shivaraddi Deeveraddi Shivaraddi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1989	10862 05/12/94	At & PO. Gudisager, Tq. Navegund, Distt. Dharwar.
8-1781	Baby Shetty Shivaram Shetty M.K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11387 02/12/96	Shiriyara Post, Udipi Taluk, Dakshina Kannada Distt.
8-1782	Bagali Chandrakala Siddappa Siddappa Bhimappa Bagali	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10902 01/12/95	223, Vivekanagar Ct. & Distt. Bijapur.
8-1783	Bagali Suresh Parasappa Bagali Parasappa Dundappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11048 18/08/95	C/o A.P. Begali (Advocate) Mathapathi Gailli Begali Building, Bijapur.
8-1784	Balanur Manjunath Siddappa B.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	10826 28/09/94	7, 1 Main Road, Gandhinagar, Distt. Bellary.
8-1785	Balakrishna S. Doddanajappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10940 22/02/95	16, Kabban Pet, 19th Cross, Bangalore.

84786	Elakrishna M. Kunthanna Ballyaya M.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10856 02/12/94	Shanthi Nilaya, At. Mundodi, Post Shantigodu Tq. Pettur, Dist. D.K.
84787	Elakrishna Udupak. Jagadbanda Udupak.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10729 26/04/94	"Sudarshan" Kudli Heredi Grama Barakur Udupi, D.K.
84788	Elasubramanya S. Harikrishna Bhat S.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11046 16/06/95	Thenkabetu House, P.O. Aroor, Tq. Udupi, Dist. D.K.
84789	Elakrishna Kulkarni Belaventi Rao	Valdya Visharad All Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1970	11365 26/10/96	Plot No. 668, Section No 5, Srinagar Malamaruthi Extn., Belgaum.
84790	Barathambhe B. N. Siddappa	Ayurved Bhishak All Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1977	11002 22/05/95	H.No. 616/2, P.O. Ramagatta, Tq. Harapanahalli, Tq., Dist. Bellary.
84791	Basappa S. Hadaped Late Shivarayappa Basappa Hadaped	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga, 1996	11358 09/10/96	Atharga Post, Indi Taluk, Bijapur.
84792	Basari Hukappa Yalappa Yalleppa Basari	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10790 25/08/94	M.I.G.I. 97, HUDCO Colony, Gadeg, Dist. Dharwar.
84793	Basavanagouda H. Dyavanagoudar Hanumantagouda B Dyavanagoudar	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga, 1996	11370 31/10/96	Gudageri Post, Kundagol Taluk, Dist. Dharwar.
84794	Beena A.G. M. Gopalakrishna Pillai	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10737 26/04/94	# 180, "Shanthi" New Byappanahalli Extn. Indiranagar, Bangalore.
84795	Bellada Karashiddappa S. Shankarappa Bellada	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2113 11/05/94	Uma Clinic, P.O. Kustagi, Dist. Raichur.
84796	Bhagyalekshmi T.S. Subbarao T.G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11223 10/05/96	No. 369, 9th Cross, BDA Ayalahalli, Layout Girinagar, Bangalore.
84797	Bharatha H. Bhojappaarasu	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11080 30/05/95	H.No. 2-11 (I), Hosangody Aramani P.O. Maroor, Karkala, Dist. D.K.
84798	Bharathi A.P. Poonacha A.B.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11217 23/04/96	Poovkunji Estate, Hoskeri Village, Maragodu Post, Madikeri Taluk, Goorg Dist.

84799	Etharathi C. C. Mallappa Goud	Valiya Vidwan A.A. Parshad, Vijayawada 1973	11237 14/05/96	H.I.No.16-78, B4, Baramappa Road, Ananthapur.
84800	Ehargavi Ramachandra Athal	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1990	11420 25/01/97	Ramachandra Nursing Home Belanje Rd. At & PO-Hebri, Tq. Karkala, Distt. SK.
84801	Ehaskara A. A. Remachandralah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1983	2206 16/10/96	No.140, 14th Cross, 22nd Main Road, Raghavendra Layout, Padmaratha Nagar, Bangalore.
84802	Ehavana Devi U. K. Janardhana Sharma	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10873 28/12/94	37/3/A, Akkithikkanna Nilaya K.R. Mohalla, Distt. Mysore.
84803	Ehimappa Totai Mudakappa Totar	Ayurved Bhishak A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	11360 11/10/96	Uppina Betageri Post, Tq. & Distt. Dharwar.
84804	Ehuvaneswari J. R. Jayachandra	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11269 22/06/96	No.1007, 13th Main, Il-Cross, H.A.L. 11-Stage Indiranagar, Bangalore.
84805	Ellekal Lingaraj Shankrappa Shankrappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10786 03/08/94	P/2, Jabin Quarts. Vidyannagar, Hubli, Distt. Dharwar.
84806	Eliradar Sujata Iranagouda Iranagouda Basavantharaya Biradar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10921 14/02/95	31, Near Engg. College, Mallikarjun Asharam, Vijaya College, Post & Distt. Bijapur.
84807	Busanurmath Rajashekhar Gangadhar Swamy	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11171 16/02/96	M.I.G.-1-226, HUDCO Colony, Distt. Dharwar.
84808	Chabbi Madivalappa Basappa Chabbi Basappa Veerabhadra	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10712 06/04/94	Chikkabellikatte PO, Govanakoppa, Tq. Ballihongal, Distt. Belgaum.
84809	Chafekar Manjire Aravind Chafekar Aravind Dattatraya	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur, 1987	11121 07/12/95	H.No.6675/B-42, K.C. Ranroad, PO. Gadag, Distt. Dharwar.
84810	Champak S. S.P. Vasuki	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	2151 30/05/95	"Nandagokula", No.4139/7, 1-Floor, B-Block, 2-Stage, 2-Main Road, Subramanyanagar, Bangalore.
84811	Chanagoudar Shivarudrappa Shivegouda Shiveppa Chanagoudar	BAMS Karnatak Univ., Dharwar, 1993	10794 18/08/94	At. Badabiyakuda Post Harugeri, Raibagh, Tq. Belgaum.

84812	Chanchalkar Anuradha Layappa Layappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10831 03/10/94	4, Gobbarachawel Shahapet Galli, PO & Distt. Bijapur.
84813	Chandrasekhar Venkatramana Bhat K.	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1989	10776 20/07/94	Parijata Nilaya, Mejar Arwathkat'e Kalyana Math, Santane pet, Udupi. D.K.
84814	Chandramouli R. Raju M.N.N.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11338 11/03/96	No.53/1, (14/1), lind -Cross, Wheeler Rd. Shadim Colony, Frazer Town, Bangalore.
84815	Chandran G.R. R. Gopal Krishnan	BAMS Univ. of Kerala, 1988	11462 31/03/97	H.No.3/19, Pushpagiri Kottakkani Rd. Kasargod, Kerala State.
84816	Chandrasekhar Krishna Acharya	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10994 16/05/95	Kannaje House, Lalila Village, PO. Durganagar, Tq. Elthange, Distt. D.K.
84817	Chandrasekhar B. Jambagi Balakrishna A. Jambagi	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11134 18/12/95	Adi Ganga Mall Galli, PO. Raibag, Distt. Belgaur.
84818	Chandrasekhar H.G. Shivakumar H.G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2184 11/01/96	H.No.597, Kaipet, PO. Davangere, Distt. Chitradurga.
84819	Chandrasekhar V. Yeganti Virupakshappa I. Yeganti	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1996	11372 05/11/96	At & PO. Hiranagi. Tq. Indri, Distt. Bijapur.
84820	Channabasappa Belagavi Malikarjuna C. Belagavi	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1995	11214 18/04/96	H.No.14, Opp. Ayurveda Mahavidyalaya, Bijapur.
84821	Channegoudra Anandgouda Danappagouda Danappagouda	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11013 07/06/95	Veerabhadreshwara Krupa, Neharu Nagar PO. Byadgi, Distt. Dharwar.
84822	Cherikka Thoduvi Ummar Zubaida Ummar C.	Valiyya Vidwan A.A. Parished, Vijayawada 1979	10874 28/12/94	646, Near K.S.R.T.C. Dispot, At & PO. Andersonpet Bangarpet, Distt. Kolar. K.G.P.
84823	Cherukupalli Bhanu Murthy C. Sreenivasalaiah	Valiyya Vidwan A.A. Parished, Vijayawada 1978	10717 06/04/94	35, 7th Cross III Main BEML, Layout Basaweshwarnagar, Bangalore.
84824	Chitra H.A. Sadananda Paragonde	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	2180 26/12/95	H.No.600/B, Vishwamariya Double Road, West of 1-Cross, Kuvempunagar, Mysore.
84825	Choudhari Chandaladevi Bhimarao Bhimarao	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1984	10792 16/08/94	38, Mangoli Road, Bijapur.

84826	Choudhari Laxmi Veeranna Chandradhara Arakeri	BAMS Karnatak Univ., Dharwar, 1990	10745 06/05/94	At & P.O. Basavan Bagewadi Distt. Bijapur
84827	Chougule Sumitra Pandurang Pandurang Kedam Chougule	MFAM. Fac. of AUSM., Bombay, 1970	11130 14/12/95	C/o Dr. C.G. Shinde. Guru Hospital, Junpet, P.O. Ramdurga, Distt. Belgaum.
84828	Churi Prabhudev Lingabasaappa Lingabasaappa Churi	BAMS Karnatak Univ., Dharwar, 1984	10765 13/06/94	Chru Clinic, At & P.O. Haveri, Distt. Dharwar.
84829	D.N. Arunkumar Narayanarao	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10961 30/03/95	No.985, II Main, III Cross, Vijayanayapuram, Mysore.
84830	Desar Maruti Ayyappa Ayyappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11040 08/08/95	Hakim Chowk, Near Gol Gumbas, Bijapur.
84831	Dattatril T.R. T.S. Ranganatha	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2195 03/09/96	H.No.178, 10th Cross, 3rd Stage, Gokulam, Mysore.
84832	Dayananda S. Govinda Bhat S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2144 28/02/95	"Govinda Krappa", 197 P. Banahalli Cross, P.O. Chandapur, Tq. Anekal, Distt. Bangalore.
84833	Deepak S.M. Megharaj S.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11252 05/06/96	"Vani Vilas", Jain Pete, Moodabidri Post, Karikala Taluk, Dakshina Kannada Distt.
84834	Deshmukh Pradipkumar Yashwanth Yashwanth Deshmukh	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11026 12/07/95	P.O. Mayani, Tq. Khatav, Distt. Satara.
84835	Deshpande Alaka Jayarao Sripada Shankar Shastri	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2212 27/02/97	"Surabhi" No.48, 9th Main, 18th Cross, Bandeppa Garden Extn., Muthyala Nagar, Bangalore.
84836	Deshpande Kavita Vijaya Vijay Shankar Deshpande	BAMS Univ. of Bombay, Bombay, 1991	11114 23/11/95	H.No.444, Vtoba Devagalli, Vishwakshmi Sadan, P.O. Khanapura, Distt. Belgaum.
84837	Devaki S.K. Deshava Bhat S.S.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11253 05/06/96	"Shivasadana, Palthamroole, Panaje Post, P.U. Tk., Distt. D.K.
84838	Devaraj N.R. K. Rajagopal Gouda	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11254 06/06/96	No.137, 7th Cross, Ilird-Block, Tyagaragnagar, Bangalore.

84839	Dharsi Dhasharath Ningappa Ningappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10897 01/02/96	Rajput Gali Indiraod, Distt. Bijapur.
84840	Dinesh C.H. Krishne Bhat C.H.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10911 02/02/96	Chandukudlu House At & PO, Badaganur Tq. Pullu, Distt. D.K.
84841	Dinesh Nayak J. Late J. Naradev Nayak	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2114 19/05/94	"Naradev", Court Road, Udupi, Distt. D.K.
84842	Divyalakshmi R. Rameliah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11267 22/06/96	No.5. UAS Layout RMV 4th-Stage, Sanjaynagar Bangalore North Tq. Bangalore.
84843	Dodewad Fakeerappa Somalingappa Somalingappa Fakeerappa Dodewad	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10942 23/02/95	"Pithru Krupa" Muthiyunjaya Nagar Market Yard, At & P.O. Bailhongal, Distt. Belgaum.
84844	Dodewad Fakeerappa Somalingappa Somalingappa Fakeerappa Dodewad	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	2143 23/02/95	"Pithru Krupa" Muthiyunjaya Nagar, Market Yard PO. Bailhongal, Distt. Belgaum.
84845	Doddamani Shamsud Begum Abdul Rehman Saheb Abdulrahman Saheb Doddamani	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11064 08/09/95	H.No.V-5678, Jawala Masjid Opp. Jawala Galli, P.O. Gedag, Distt. Dharwar.
84846	Doddamani Shashidhar Hanamanappa Hanamanthappa Mallashappa Doddamani	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11197 29/03/96	LIG-114, HUDCO Colony, PO. Gedag, Distt. Dharwar.
84847	G. Shobhalatha Guruswamy P.M.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11084 10/10/95	No.2319, J-Block, Sarvagna Road, Kuvempu Nagar, Mysore.
84848	G.S. Gopalakrishna Kanthan G.S.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1989	10813 13/09/94	PO. Road, Navachethana Clinic, PO. Shriramapur, Tq. Hosadurga, Distt. Chitradurga.
84849	Gachinamani Doddabasappa Basappa Basappa Gachinamani	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10898 01/02/96	C/o B.P. Gachinamani PO. Kodihai, Tq. Hungund, Distt. Bijapur.
84850	Gedag Murugesappa Channa Veerappa Channaveerappa V. Gedag	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11167 02/02/96	H.No.50, PO> Hikkal, Tq. Railbag, Distt. Belgaum.

8-4851	Gala Shantilal Lakshmi Gala Lakshmi K.	BAMS Univ. of Poona, Pune, 1974	11059 05/09/95	H.I.No.25, New High School Road, V.V.Puram, Bangalore.
8-4852	Galiyavar Vandana Jampanna Jannannavar A.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10931 14/02/95	Health Camp Gadag Belgeri, PO & T.Q. Gadag, Distt. Dharwar.
8-4853	Ganesh M. Devagirimath Mahadevalak K. Devagirimath	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2154 12/07/95	PO, Sunakalla Bidari, T.Q. Ranthennur, Distt. Dharwar.
8-4854	Ganesh Prasad S. Shanmukhaswamy M.P.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11124 07/12/95	H.I.No.224, Small Shop Street, PO, T. Narasipura, Distt. Mysore.
8-4855	Ganesh P. Krishna Moorthy B.N.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	10855 02/12/94	Near Old Panchayath Office PO, Pukur Tq. Udupi, Distt. D.K.
8-4856	Ganesh U. Koti Poojari	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11379 20/11/96	Kapri House, Uthtur Post, Kundapur Tk, Dakshina Kannada Distt.
8-4857	Gangadhar C. Late Chikkanna H.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11328 09/09/96	C/o Lakshmi Kanth, H.No.203/8, 17th-Block Ind-Main, Rajajinagar, Bangalore.
8-4858	Gangamma B.T. V. Ajithkumar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10861 05/12/94	Theris Cottage J.R.S. Layout, Devasandra K.R. Puram, Bangalore.
8-4859	Ganiger Akkamahadevi Awappa Awappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10963 05/12/94	Near Kaidasa Ayurvedic College, PO, Badami, Distt. Bijapur.
8-4860	Gayathri K. Madhava K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11070 18/09/95	H.I.No.1-1-50, PO, Kunjibettu, Tq. Udupi, Distt. D.K.
8-4861	Gayathri M.B. Bebunath M.B.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10741 28/04/94	303, Cavalry Road, Bangalore.
8-4862	Geetha Sannayya Bhat	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11327 09/09/96	Moodikeri, Hanchali Village, Barkur PO, Udupi Taluk, Dakshina Kannada Distt.
8-4863	Geetha P. Radhakrishna Ramarao K.S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	11324 04/09/96	H.I.No.1608, Third Cross, M.G. Road, Tumkur.

84834	Geetha Prabhu M Raghavendra Prabhu M	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10730 26/04/94	"Ananth" Prasad" Diambal Ashoka Nagar PC Distt. Mangalore. Prakruthi Clinic P.O. Santhaji, Tq. Sulleya, Distt. D.K.
84835	Geetha S A.S. Santhoshkumar	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	10872 28/12/94	
84836	Geetha S.P B.R. Ramakrishna	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2135 06/01/95	2479/1, 25-Cross, 17th Main Banashankri-2 Stage, Bangalore.
84837	Giridharakaje Shivarama Kaje	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1989	10841 18/11/94	"Prashanth" P.O. Kataka Tq. Puttur, Distt. D.K.
84838	Goni Jayasheela Mudduveerappa Muduveerappa M. Com	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10832 14/02/95	K.C. Rani Road, Masari, Ta. Gadag, Distt. Dharwar.
84839	Gopinath K. Moorthy K.K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1989	10837 12/10/94	Market Road, PO Javagal Tq. Arasikere, Distt. Hassan.
84870	Gerebel Veerappa Malleappa Malleappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10892 30/01/95	PO. Hooli Tq. Savadathi. Distt. Belgaum.
84871	Gouda Triveni Ranganath Ranganath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11043 09/08/95	Ch. Jayamma, PO. Santhepet, Tq. Sirsi, Distt. Tumkur.
84872	Goudar Suvama Shektargouda Mallikarjunagouda C. Patti	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11135 19/12/95	Ch. C.S. Patti, PO. Hireharakuni, Tq. Kundegrai, Distt. Dharwar.
84873	Govindaraju R. Ramalah	Valdiya Vidwan A.A. Parished, Vijayawada, 1974	11206 11/04/96	CMC. 126, Hosehalli, Mandya.
84874	Gowri Shenoy K. Vittal Shenoy K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11247 29/05/96	K.K. Shenoy Compound, Darbe Post, Puttur Taluk, Distt. D.K.
84875	Gudegeri Anitha Channappa Channappa Basappa Gudegeri	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1991	10773 16/07/94	Padmashree Clinic Main Road, Harugeri Tq. Raibag, Distt. Belgaum.
84876	Guru Raja M.B. Bhuvanah Murthy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10986 03/05/95	Vittal, Vinobanagar, 2-Stage, Tq. & Distt. Shimoga.

8-18-77	Gurumanjunatha A.M. Siddappa	Ayurved Bhishek A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi, 1978	11001 22/05/95	Areyur, PO. Hebbur Hobli, Tq. 8, Distt. Tumkur.
8-18-78	Guruprasad Narad J.K. Krishnamoorti U.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	11044 11/06/95	PO> Uchila, Tq. Udupi, Distt. D.K.
8-18-79	Guruprasad Rao M. M. Shivaram Rao	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2121 13/07/94	Shivapadma Clinic PO. Kakkige, Tq. Elaltheangadi Distt. D.K.
8-18-80	Hebligeyanoba Narayanasa Narayanasa	Ayurved Bhishek A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi, 1986	11017 01/07/95	No.2272, Nadvinapet, Ward No.3, PO. Gulerigudda, Tq. Basahani, Distt. Siliguri.
8-18-81	Hedari Mallappa Kulappa Kullappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1992	10799 27/08/94	PO. Athariga, Tq. Indl, Distt. Bilapour.
8-18-82	Hedimani Mahantappa Andanappa Andanappa V. Hedimani	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1992	10904 02/02/95	PO. Mushigeri Tq. Ron, Distt. Dharwar.
8-18-83	Hariprakash M. Subraya Bhat M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11071 21/06/95	Shanthi Nilaya, Mallari Village, PO. Kanp, Tq. Udupi, Distt. D.K.
8-18-84	Hariprasad K. Chinnayya Suvama S.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11091 17/10/95	Main Road, Suvarana Printers Saundra Manson PO-Bethangady Distt. D.K.
8-18-85	Hariprasad K.S. Shivarama Gowda K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10824 27/09/94	517, D.P. I. Al. Kudkuli, PO. Panjikallu, Tq. Kasargodu.
8-18-86	Hebbur Vidya Ramakrishna Ramakrishna Hebbur	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10842 18/11/94	124, Bank Quarters, PO. Manipal, Tq. Udupi, Distt. D.K.
8-18-87	Hejmadi Shobha Jenardhan Hejmadi	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	10858 02/12/94	Shivaprasad Nivas Doddamane PO. Hejmadi, Tq. Udupi, Distt. D.K.
8-18-88	Hemalatha H.L. B.C. Raju	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11136 19/12/95	PO. Hedikere, Tq. Tarikere, Distt. Chickmagalur.
8-18-89	Hemantha S. K. Sathish Hegde	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1995	11336 10/09/96	Shiroor Village, Garadimane Muddumane PO. Mandarth, Udupi Tq. Distt. D.K.
8-18-90	Hipparagi Rajeshkhar Giramallappa Giramallappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10896 01/02/95	C/o M.G. Nandeswar Kagalji Galli, Athani, Belgaum.

84891	Hiremath Basavaraj Satalingayya Satalingayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10972 25/04/95	Balachandra Sadana, R No. 26, Vidyangar Hubli, Distt. Dharwar.
84892	Hiremath Chennamma Siddayya Siddayya Basalingayya Hiremath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11191 13/03/96	Sai Nagar Road, Pyati Oni, PO. Unkal, Tq. Hubli, Distt. Dharwar.
84893	Hiremath Dayananda Viswanath Viswanath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10768 02/07/94	Hunnur Post, Jamkharadi Tq., Distt. Bijapur.
84894	Hiremath Jagadish Gurupadayya Gurupadayya P. Hiremath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11053 28/08/95	Gosavi Chali, Navalgund, Dharwar.
84895	Hiremath Rekha Gangadarayya Gangadarayya Shivayya Hiremath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11113 23/11/95	Geethangili No.-24, Ravindra Nagar Vidyannagar, PO. Hunakal, Tq. Hubli, Distt. Dharwar.
84896	Hiremath S.G. Gurudeva Hiremath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1990	11032 26/07/95	Anugraha Nilaya", Ganesh Colony, I-Cross, Bellary.
84897	Hiremath Veerabhadralah Marigaleah Marigaleah	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10943 28/02/95	PO. Madalageri Tq. Ron, Distt. Dharwar.
84898	Hiremath Veerayya Balayya Balayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10722 22/04/94	PO. Hulikatti, Tq. Savadathi, Distt. Belgaum.
84899	Holla Jagadish Subray Subray Holla	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1987	2147 15/03/95	"Chaitanya Clinic", 20-Peet Road, Muneshwara Block, GEF Post, Bangalore.
84900	Hosamani Usha Ramanna Ramanna Bharamanna Hosamani	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10987 03/05/95	Pithruchaya Building Near Ghodake Factory Old Hubli, Distt. Dharwar.
84901	Hublikar Chandrakant Keshwnasa Keshwnasa	BAMS Gujarat Ay. Univ., Jamnagar, 1984	11410 09/01/97	Channapeth, Old Hubli, Near Baburao Bakeri Hubli, Distt. Dharwar.
84902	Huddar Shivakumar Fakeerappa Fakeerappa Shivappa Huddar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11180 26/02/96	PO. Gejendragad, Tq. Ron, Distt. Dharwar.

8-1903	Heger Ravindra Chandrasheethar Chandrashekhar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10811 07/09/94	P.O. Thadavalega Ta. Indol, Distt. Bijapur.
8-1904	Hulkantimath Pandaravi Siddabasayya Siddabasayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10880 11/01/95	Basaveshwarnagar-Lions. Near English Medium School, Heverl, Distt. Dharwar.
8-1905	Iramba Karadkar Guruputra Karadkar	Ayurved Bhishek A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1977	11411 09/01/97	Mahadev Gali, Ankl Post, Chikodi Taluk, Distt. Belgaum.
8-1906	Ishwar J. Koulagi Jagadev Neelappa Koulagi	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1995	11244 23/05/96	Sarawad Post, Bijapur Tk & Distt.
8-1907	Ishwarappa Ilakal Gurupadappa	Ayurved Bhishek A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1978	10970 20/04/95	P.O. Kotumachagi, Tq. Gadag, Distt. Dharwar.
8-1908	Jadernall Manjunath Kallappa Kallappa Jadernall	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11172 16/02/96	P.O. Hole-Alur, Tq. Ron, Distt. Dharwar.
8-1909	Jagadeesh M.S. M. Shivashankarajiah	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11246 29/05/96	"Sri Veerabhadreshwara Nilaya" Vidyannagar Chitradurga.
8-1910	Jagadeesh S. S. Shivaswamy	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1984	11349 24/09/96	H.No. 14 EWS, Ind-Stage, Hannurmantha Nagar, Bannimantap Extn. Mysore.
8-1911	Jagadeesh I. Hiremath Irayya Hiremath	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	11019 04/07/95	P.O. Belavanek, Tq. Ron, Distt. Dharwar.
8-1912	Jagadeesh Pai K. Gopal Pai K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2108 02/04/94	Ashwini Clinic, Medhav Soudha P.O. Karkala, Distt. S.K.
8-1913	Jagadeesh K. Krishnappa Shetty B.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11307 26/08/96	"Jayashree Sदन", Gottangadi, Belve Post, Kundapur Tq. Distt. D.K.
8-1914	Jaikrishna Nayak Surendra Nayak	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	11005 26/05/95	No. 105, Academy Quarters, P.O. Manipal, Tq-Udupi, Distt. D.K.
8-1915	Jain Ashok Kumar Mallappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2118 26/05/90	P.O. Medalegari, Tq. Harapana Halli, Distt. Bellary.

8-1916	Jāmakhandi Mangala Belaraj Belaraj G. Jankhaneti	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11047 16/08/95	C/o Belaraj Jankhaneti, No. 204, P.O. Savedi, Tq. Ron, Distt. Dharwar.
8-1917	Jamunadevi R. T.S. Ranganath	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11368 31/12/96	Ranganatha Swamy Temple Street, Huliyar Post, Chikkrayakanahalli Tk., Distt. Tumkur.
8-1918	Janki R. Rangappa	Vaidya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada 1974	11433 17/02/97	No.729, 4th Cross, 2nd Main Prakashnagar, Bangalore.
8-1919	Janeu Vijaya Sedaranda Sedaranda Nagappa Jannu	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1991	10929 30/09/94	E.W.S. 392, Gamana Gatti Road, P.O. Navanagar Dharwar, Dt. Hubli.
8-1920	Jatti Akkurai Irappa Irappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1984	10771 11/07/94	P.O. Ankli, Tq. Chikodi, Distt. Belgaum.
8-1921	Jatti Ismail Babasaheb Babasaheb	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1996	11419 25/01/97	At & P.O. Ghonesagi, Distt. Bijapur.
8-1922	Jayachandran D.V. Kannan A.K.	Vaidya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada 1974	11434 17/02/97	Ravi Nursing Home, Stadium Road, Chikaballapura, Distt. Kolar.
8-1923	Jayalakshmi K. V. Krishnaswamy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	10884 13/01/95	1652/17.5, II-Cross Rommarchan Puram, Sreerampuram, Bangalore.
8-1924	Jayanthi Kumari B.R. Shastri K.R.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11421 28/01/97	No.83, 13th Cross, 9th Main Wilson Garden, Bangalore.
8-1925	Jayaram Bhat K. Krishnaraja Bhat K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10919 08/02/95	M.M. 22-92, Kambala Katta Krodashram PO & Tq. Udupi, Distt. D.K.
8-1926	Jayaram U.P. Parameshwar BhatU.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	11011 07/06/95	Vinayaka Pharmacy, At. Kallugundi, PO. Sampeje, Tq. Sullaya, Distt. D.K.
8-1927	Jayashankar Hiremath Mahantayya Hiremath	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2139 02/02/95	23, Old Bank Colony, Konanakunte Ooddakallesadra, Bangalore, South, Bangalore.
8-1928	Jayashree K. Nagaraj Bhat	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11428 12/02/97	"Chethanadka", Kuntikana Post, Via Peradatta Kasaregod, Distt. Kerala.
8-1929	Jayashree S. V.S. Murthy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11363 17/10/96	M/s Shrivens Co. No.33, 13th Cross, Geddahalli, Bangalore.

841930	Jeer Sanjay Kalleppa Kalleppa Bannanje Jeer	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10998 20/05/95	Near K B S No.7, Shahapeth, Shahapeth Galli, Bijapur.
841931	Jeer Ramasastri Shankarashastri Shankarashastri Jeer	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10756 23/05/94	Datta Temple Rd. P.O. Gajendragad, Tq. Fion, Dist. Dharwar.
841932	Jithendra Shetty Late Sunda Shetty	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1993	10746 06/05/94	P.C. Memoor, Tq. Udipi, Distt. South Karnataka.
841933	Jyothi K. Shetty A. Krishna Shetty	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10895 01/02/95	382, III-Block, III-Stage V. Main Basawashwernagar, Bangalore.
841934	Jyothi Lakmi Patil Krishneraya Patil P.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11162 29/01/96	Patil House, P.O. Pethri Cherakdy, Tq. Udipi, Distt. D.K.
841935	Jyothi M.S. Subbaramalah M.S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11306 26/08/96	Thiyagaraja Rd. Fort Malavalli, Malavalli Post, Distt. Mandya.
841936	Jyothi S. Murthy N.K. Shridhar Murthy	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10766 14/06/94	Nadehalli PO & Tq. Sorab, Distt. Shimoga.
841937	Jyothi Saraswathi KV. Varadarajan K.N.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10736 26/04/94	127, 14th Cross 8th Main B.I.M. Layout lind Sage, Bangalore.
841938	Jyothilaxmi P. Basavana Gouda	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11325 05/09/95	H.No.11-6-201-A, Brestwarpet, Raichur.
841939	K. Vijayakumar Vishwanath Rao	BAMS Omania Univ., Hyderabad, 1985	10992 12/05/95	C/o Chandra Senam, 3-2-121, Brahmanawadi, Chowbara, Bidar.
841940	K.V. Veena Venkata Setty K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11083 10/10/95	H.No.263, 8-Cross, 4-Main Road, 1-Phase Vijayanagar, Mysore.
841941	Kabbur Rajashekar Mahalingappa Mahalingappa N. Kabbur	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10796 24/08/94	78, Vasanth Nagar, Solapur.
841942	Kadappa C. Karnati Chandramappa C. Karnati	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	10971 25/04/95	P.O. Itagi, Tq. Basavanabagewadi, Distt. Bijapur.
841943	Kadimdwani Arunoladi Krishnarao Krishnarao D. Kadim Dwani	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2152 20/06/95	No.50, 1-Cross, Hanumappa Layout, Sulthan Palya R.T. Nagar, Bangalore.

8-49-44	Kajjagar Negeraj Channappa Channappa G. Kajjagar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1992	10053 24/11/94	P.O. Yavagal, Tq. Rane, Distt. Channar.
8-49-45	Kakthandaki Nirmale Hanamanth Kakthandaki Hanamanth Bhimaray	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10060 27/03/95	W.S.-149, Adarshnagar New HUCO Vijaya College, Campus, Bijapur.
8-49-46	Kalekhar D.V. Vishnu Bhat D.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1988	10762 03/06/94	Prakruthi Clinic P.O. Basaralu, Tq. Mandya.
8-49-47	Kalghatigi Madhuri Satyabodh Satyabodh Kalghatigi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11025 11/07/95	H.No.14709, Gurukripa, Keshavnagar, Distt. Dharwar
8-49-48	Kali Yamanappa Daryappa Daryappa Basalingappa Kali	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1996	11417 24/01/97	No.48, Navabag, Distt. Bijapur.
8-49-49	Kalludi Suvamadevi Muddaranggalah	Vaidya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada 1981	11304 17/08/96	Sanjeevvarddy Building M.H. Road, Kodigenahalli Post, Machuguni Tk. Distt. Tumkur.
8-49-50	Kalpana Kumari V. N. Veerappa	BAMS Bengaluru Univ., Bangalore, 1989	10941 22/02/95	47, Buddha Vihar Rd. Prazer Town, Bangalore.
8-49-51	Kamala R.J. Umesh V.	BAMS Bengaluru Univ., Bangalore, 1994	10985 09/05/95	No.53 (1997), 18-Cross, 21-Main Vijayanagar, Bangalore.
8-49-52	Kamarunisa K.H. K.P. Hussain	BAMS Bengaluru Univ., Bangalore, 1994	10987 16/12/94	Coorg Condiments Aswathkutte Main Rd. Kasturibenagar Mysore Rd., Bangalore.
8-49-53	Kamate Prakesh Mallappa Mallappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1995	11168 12/02/96	Main Road, P.O. Barfolli, Tq. Indi, Distt. Bijapur.
8-49-54	Kanchana M. Bhat H. Shambhur Sharma	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10949 21/03/95	O/o H.S. Sharma, 279, Rajendranivas H-A, Main Road Koramangala, Bangalore.
8-49-55	Kannure Ravanaskidappa Mallappa Mallappa Ravanaskidappa Kannure	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11173 19/02/96	P.O. Sankhi, Tq. Jath, Distt. Sangli.
8-49-56	Kanthiraj T.M. Shivanandalah T.M.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11068 15/09/95	No.D-149, 1-Cross, Vidyanagar, Shimoga.

84957	Karadakkatti Shandavva Veerappa Veerappa K.V. Karadakkatti	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1983	10901 01/02/95	Shahapurpet PO. Gadag, Distt. Dharwar.
84958	Karunakar Chondhari Veerappa Basappa Chondhari	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11165 30/01/96	PO. Basavanna Bagewagi, Distt. Bijapur.
84959	Kashinath Malleppa Bhairamatti Malleppa Bhairamatti	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1986	2196 09/09/96	No.151/1, Mysore Road, Bangalore.
84960	Kasturi M.R. K. Puttarangappa	Vaidya Vidwan A.A. Parishad, Vijayawada, 1978	11260 17/06/96	Shree Rupa Clinic, No.735A, M.G. Road, Bangalore.
84961	Kattimani Kallappa Shiveputra Shiveputra Kattimani	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1983	10757 23/05/94	956, PO. Iyegaur Tq. Athani, Distt. Belgaum.
84962	Kattimani Ravindra Gurulingappa Gurulingappa B. Kattimani	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11100 31/10/95	No.2324, "Meena" Maratha Galli, PO. Gotalak, Distt. Belgaum.
84963	Kattinapudi Karunakar Rao Kattinapudi Rarnarao	BAMS Nagarjuna Univ., Nagarjuna, Nagar 1987	10913 02/02/95	7, Okali Camp University Main Rd., Gulbarga.
84964	Kaveri Kuttappa K.S. Kuttappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11331 09/09/96	No.26, "Sonasa Mansion", Gunumahal Extn. Kamimegondanahalli, Bangalore.
84965	Kavitha M. Maribesava Swami K.S.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10818 24/09/94	904, C.H.I. Madhavachar Road, Marlunneigi Circle Lakshminipukam, Mysore.
84966	Kembhavi Aakash Suhas Suhas	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10935 14/02/95	75, "Chaitanya" J.P. Nagar, I-Main Rd. Udyapanagar Hubli, Distt. Dharwar.
84967	Keshava P.K. Late Krishnappa Gowda P.M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10801 27/08/94	618, D.P-2, Krishna Nivas Perumunda PO. Kallappalli Tq. Hosadurg, Distt. Kasargodu.
84968	Keshava Prasanna C.H. C.H. Gopalakrishna Bhat	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11394 31/12/96	Sri Krishna Clinic, Bazar Street, Vannarpete, Viveknagar, Bangalore.

84969	Kulami Venkata Nagarathna Mani Chandrashekhar S.	BAMS Nagarjuna Univ., Nagarjuna, Nagar 1981	11163 20/01/96	H.No.103, 5-Cross, 20-Main Road, B.T.M. Layout, Bangalore.
84970	Kiran Kumar A. Mahalinga Bhat A.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	16847 18/11/94	407/8, Greenilaya Al. Eglipura PO, Viveknagar, Bangalore.
84971	Kirangouda M. M. Devendra Gowda	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1995	11111 20/11/95	H.No.23 D/18, 3-Cross, Nehru Colony Bellary.
84972	Kishori S.A. Parshwanatha P.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	11150 20/01/96	Padenthra Betta House, PO. Kavalakatte, Tq. Banaval, Distt. D.K.
84973	Kishore Kumar Kodlibelli K.G. Manai	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2203 10/10/96	No.956, 1st Main Road, Divanarapalya, Bangalore
84974	Koppad Shankar Siddappa Siddappa Basappa Koppad	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11021 04/07/95	PO. Mugalkhod, Tq. Raibag, Distt. Belgaum.
84975	Koradhanyamath Mallikarjunayya Shivabasayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11160 24/01/96	H.No.88, PO. Kodikoppa (Naregal), Tq. Ron, Distt. Dharwar.
84976	Koradhanyamath Veeresh Shankrayya Shankrayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10749 11/05/94	PO. Gajendragad, Tq. Ron, Distt. Dharwar.
84977	Kori Ashok Ishwarappa Ishwarappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11178 24/02/96	Inamdar Colony, B.L.D.E. Road, PO. Kakhanda, Distt. Bijapur.
84978	Korishetter Basavaraj Kashappa Kashappa Korishetter	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	11012 07/08/95	At. Kallur, PO. Benchali, Tq. Gedeg, Distt. Dharwar.
84979	Kotranavar Sateeshkumar Sangamesh Sangamesh	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10908 02/02/95	20, Sangameshwara Colony Gyangbowdi, Distt. Bijapur.
84980	Kousthubha G.Y. G. Yagneswara Updhyaya	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11129 14/12/95	No.10/1, 1-Cross, Chetram Block, Govipuram, Bangalore.
84981	Krupesh P. Rangappa T.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10993 15/05/95	Sri Krupanivas Behind Jyothi Theater, PO. Hosadurga, Distt. Chitradurga.
84982	Kulkarni Dattatraya Kashirao Kashinath Venkat Rao Kulkarni	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11177 24/02/96	C/o G.V. Kulkarni, Mane House, Shahu Nagar Gubbawada Tq. Sindagi, Distt. Bijapur.

8-19-93	Kulkarni Jyotsna Bhimasen Bhimasen Putto Kulkarni	BAMS Shaivaji Univ., Kolhapur, 1991	11057 01/09/95	No 23/192, West of Chord Road, Pirloskar Colony, Basaveshwara Nagar, Bangalore
8-19-94	Kulkarni Mukund Ramesh Rao Ramesh Rao	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11179 24/02/96	C/o P.A. Kulkarni, Behice Chival, Bagal Kot Cross, Bagalkot Road, Bijapur
8-19-95	Kulkarni Shafini Krishna Rao Ramachandra G. Kulkarni	BAMS Univ. of Poona, Pune, 1994	11056 01/09/95	No. 151, Ranghat Road, Sukanya Working Womens Hostel, Camp., Belgaum
8-19-96	Kulkarni Shrikant Venkatesh Venkatesh	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1991	10835 12/10/94	Kolaragalli P.O. Hunnur Tq. Jannkhandi, Distt. Bijapur
8-19-97	Kulkarni Vinod Prakash Prakash Bheemara Kulkarni	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10871 28/12/94	P.O. Halane, Tq. Khanapur, Distt. Belgaum
8-19-98	Lakshmi Charitha R A. Ramaiah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11305 26/08/96	No 20/2, 4th Cross, Malleswaram, 1st Phase, Bangalore
8-19-99	Lakshmi H.G. Shivarani N.G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	11345 12/09/96	No. 65, 7th-Cross, J.P. Nagar, 1st Phase Bangalore
8-19-90	Lakshminarayana Pandit P.N. Pandit	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga, 1984	11190 13/03/96	H.No.938, Khajju Bhag, Kursawada, Karwar, Distt. N.L.K.
8-19-91	Lalitha U.H. Lakshmi Narayana Rao U.H.	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga, 1994	10854 24/11/94	59/7, 14th Main Rd. Banashantri 1st Stage 1st Block, Hanumanthnagar, Bangalore
8-19-92	Lalithamma H. K.R. Beskar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1984	2204 15/10/96	C/o M.V. Rameshchandra Rao Kote Balli, Agalagandi Post, Chickamangalore
8-19-93	Lata Devi S. M.K. Venkataraman	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11409 09/01/97	No 24, 6th Main, Narayanappa Block, R.T. Nagar, Bangalore
8-19-94	Latha S. Shivaraya Holla	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11241 23/05/96	No. 8/1, Tri Salinatha Nilaya, 5th Cross, Anjaneya Temple Rd. Nagesandra, Bangalore
8-19-95	Latif Ahmed Ghouse Mohiuddin Indikar Ghouse Mohiuddin M. Indikar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1982	2199 30/09/96	C/o M. Abdul Subhan, No.741, 30th "H" Cross, Telnagar, Near Carmel Convent East & Road, Bangalore

84996	Laxman N. Mulkarni Narayana Rao	BAMS Bangalore Univ., Bangalore. 1992	2119 14/06/94	840/4, Seetharamanjaneya Nilaya, Bahabalingar Jalahalli, Bangalore
84997	Leela Rani R. Gavisiddappa R.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1993	10752 13/05/94	106, Ward No. 17, Patela Nagar, At & PO, Bellary.
84998	M. Sreedevi M. Lexmiledy	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1992	11103 04/11/95	No 542/1 Vidyarthi Bhavan, KTJ, Nager, 13-Cross, P.O. Davanagere, Distt. Chitradurga.
84999	M.C. Shiva Swamy Late Channappa	Ayurved Bhashak A.I. Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1970	11003 23/05/95	Sri Guru Krupa, A.V.R Road, J.C. Ext., Tq. Kanakapura, Bangalore.
85000	M.R. Nagaraju M. Revanna	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2136 06/01/95	3, 2-Cross, Wilson Garden, Bangalore.
85001	M.S. Sudha Sreekanthiah B.R.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2116 26/05/94	766, 25-Cross Rd., 4th Main Road, Vidyaranyapuram, Mysore.
85002	M.S. Vidya Bhavani Sethanarayana Gupta	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10979 29/04/95	H.No.332, "Shantinivas", 25-Cross, 9-Main Road, Banashankari, 2-Stage, Bangalore.
85003	Mitagar Laxman Tularam Tukkeppa Mitagar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1981	10718 06/04/94	Besavan Devar Street Mugalihal, Khanapur, Distt. Belgaum.
85004	Madhava D. Venugopalachar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10879 10/01/95	B.H. Road Ranipet PO, Hospet, Distt. Bellary.
85005	Madhavi V. Ananda Kumar V.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1996	11106 15/11/95	No.3/24, Kasai Street, Kalamma Street, Opp. S.R.R. Theatre, Bellary.
85006	Madhukara Shetty T. Viswanatha Shetty K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10735 26/04/94	Jannadi Hardali, Mandalli, Kundapur, D.K.
85007	Madhumathi M.S. N. Nagesh	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1984	2112 11/05/94	Physician Govt. Ayurvedic Hospital, PO. Chikkur Tq. Arasikere, Distt. Hassan.
85008	Madhusudan K.H. R. Hanumantha Chari	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11408 07/01/97	No.892/A, 11rd-Cross, Ashoknagar, Baneshankari Ist-Stage, 11rd-Block, Bangalore.
85009	Madhusudan N. Narayana Swamy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2183 26/12/95	H.No.35, Old No.53, Amranilaya, 5-Cross, 14-Main H.M.T. Layout, PO-Mathikere, Bangalore.

85010	Madhusudana K.N. Narayana K.G.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10750 13/05/94	Manjunath Clinic, PO. Patahalli, Tq. Srijangapatta, Distt. Mandya.
85011	Madhwar Saiprakash Ramechandra Ramachandra	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11050 21/08/95	PO. Hole Alur, Tq. Ron, Distt. Dharwar.
85012	Mahammad Iqbal K. Sadukunhi K.M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	10912 02/02/96	Ayisha Manzi At. Belaringe, PO. Kinye, Distt. Mangalore, Distt. D.K.
85013	Mahantesh C. Hiremath Chandrashekharaya Hiremath	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11391 31/12/96	Kalagurki Post, Basavana Bagewadi Tk., Distt. Bijapur.
85014	Mahevarkar Sarojini Dattappa Dattappa Mallari Mahevarkar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	11116 28/11/95	H.No./A/2601, Sindhikuta Road, Ravivarpat, PO. Goakak, Distt. Belgaum.
85015	Mahesh G. Badiger Ganappa S. Badiger	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1996	11355 07/10/96	Hartapur Post, Gadag Taluk, Distt. Dharwar.
85016	Mahesh U. Dinakarpal U.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1990	10925 25/03/95	1-7/1, "Indraprastha" Alevoo- Manipal Road, Guddeyanganadi, Alevoo, Distt. Udupi, Dt.D.K.
85017	Maheshwar Shivapitappa Guggari S.P. Guggari	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1985	2214 22/03/97	"Guru Krupa", Hebballi Post, Badami Tk., Distt. Bijapur.
85018	Mahishi Revindra Shrinavas	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10976 27/04/95	No.16/1, Dr. Mashishi Compound, Mashishi Road, PO. Melmaddi, Distt. Dharwar.
85019	Mala Rao Ramachandra Rao	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11154 23/01/96	W/o Rajesh Prabhu, No.90/5, 3-Cross, 25-Main Road, B.T.M. Layout, 2-Stage, Bangalore.
85020	Malabagi Dayanand Malappa Malappa Siddappa Malabagi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11176 24/02/96	C/o V.P. Roogi (Advocate), Thripura Sundari Road Mahatma Gandhi, Main Road, Bijapur.
85021	Malaprabha R. Rudrapur Ramalinga Mallappa Rudrapur	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10876 04/01/95	Eholareshetty Chawli Basavanagar, PO & Tq. Balihongal, Distt. Belgaum.

85022	Melathi Dejappa Kollan Ramachandra K.S.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	10790 11/08/94	3-2-4, "Om Guruprasad" National Highway No.17, Ambalapadya Tq. Udipi, Distt. D.K.
85023	Melathi Sinha S.D. Durgaprasad Sinha S.V.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11141 23/12/95	H.No.215, 5-Cross, 5-Main Road, Ganganagar Layout, Bangalore.
85024	Mallavarapu Sarejanma M.V. Brahmananda Reddy	Vaidya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada, 1972	10891 30/01/85	Kumbara Beedi Koratagere, Distt. Tumkur.
85025	Mallavarapu Veerabrahmananda Reddy Late M. Krishna Reddy	Vaidya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada, 1972	10890 30/01/85	Kumbara Beedi Koratagere, Distt. Tumkur.
85026	Mallikarjuna B.S. Budal Shankerappa	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10914 02/02/95	110/1, K.N. Galli, P.O. Davanagere, Distt. Chitradurga.
85027	Manmatha Acharya Acharya N.H.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11233 14/05/96	No.117, I, "F" Cross, 3rd Stage, 4th- Block, Basaveswarammagar, Bangalore.
85028	Manmatha G. Balakrishna Paisary	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10713 05/04/94	979, 14th Main Road, IX-Cross T.K. Layout IV-Phase Kuvempunagar, Mysore.
85029	Manidala Ramanakumari Gandhi Manidala	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1989	11042 09/08/95	C/o M. Rajagopala Rao, No.1-2-330/3, Myakora Gedda, Chitalkala Guda, Secn drabed.
85030	Mandre Prabhakar Kamalakar Kamalekar S. Mandre	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11143 23/12/85	H.No.137, Prakash Building, Shivagiri, Dharwar.
85031	Mangala B. N.C. Bhaskar	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10728 26/04/94	18-B-III, Main Road, Alana Halli layout, Mysore.
85032	Mangala G. Nadakami G.M. Nadkarni	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10886 13/01/95	47, III-Temple Street, K.R. Puram, Malleshwaram, P.O., Bangalore.
85033	Mangala Jagannath Salmi Ashok Kumar Gadgode	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur, 1979	10804 31/08/94	5-1-46, Main Road, P.O. Shorapur Distt. Gulbarga.
85034	Mangala Shenoy K. K. Ganesh Shenoy	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11404 03/01/97	"Usha" No.69, 4th-Cross, S.B.M. Colony, Banashankari, Ist-Stage, Bangalore.

Registrar

85035	Manisha Laxman Parulekar Laxman Ashramam Parulekar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10979 28/04/95	Dabele Chai, P.B. Road, PO Sankeshwar, Tq. Hukkeri, Distt. Belgaum.
85036	Manjula K. Krishna Murthy K.V.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11274 26/06/96	No. 45, Kuvempunagar, Tumkur.
85037	Manjula N. Nagabushan N.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11330 09/02/96	H.No. 8, Bakshi Manzil, Ist Cross, Siddeshwara Nagar, Shrinoga.
85038	Manjunatha Goud P. Kumar Goud Patel	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1985	10926 14/02/95	37/1, Maruthinilaya Behind Nandi School, South Condonment, Distt. Bellary.
85039	Manoj Kumar Shetty N. Raghurema Shetty K.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1995	11212 18/04/96	Nojady Post, Kundapur Taluk, Dakshina Kanneada Distt.
85040	Manojkumar K.B. Bhaskaran Vaidyan	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1989	11280 05/07/96	No. 218/11, Bahubali Nagar, Jalahalli Post, Bangalore.
85041	Manonmani L. Lakshminarasimha MUrthy	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10807 01/09/94	742, I Main Road, VII Block, II Phase, Banashankari, III Stage, Bangalore.
85042	Marideva Sarma T.H.M. T.H.M. Jambunath Sarma	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2123 30/08/94	29/18, 2-Link Rd., Parvathinagar, Bellary.
85043	Mary Asha Louis Louis M.T.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10981 29/04/95	C-24, B.E.L. Colony (Offices) PO, Jalahalli, Bangalore.
85044	Marshal Shrinivas Gopal Gopal	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11169 12/02/96	PO, Sulebhatti, Tq. Hunagunda, Distt. Bijapur.
85045	Mathad Prathakar Chandrayya Chandrayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	11008 02/06/95	PO, Melmane Hatti, Tq. Gokak, Distt. Belgaum.
85046	Mathapati Shakuntala Shivayya Pujari Udayayya Siddayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10923 14/02/95	17 (2) Bhagyashree Building Banagar Gali Jorapur Peth, Distt. Bijapur.
85047	Mathapati Somashaktarayya S. Shivashankarayya	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10789 08/03/94	PO, Hathargi, Tq. Hukkeri, Distt. Belgaum.

85048	Meena Y. Vyom Sharma	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1996	11352 07/10/96	H.No.Mil.G.13, Garbhingar, Distt. Belary.
85049	Meenakshi C.Y. Channeppa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	2150 28/04/95	Gulam Husain Galli, Khairan Khara Bazar, Bijapur.
85050	Meenakshi Malakavva Kantikar Maharudrayya Swamy Kantikar	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur, 1988	10997 18/05/95	P.O. & Tq. Aurad, Distt. Bidar
85051	Meera S. Nagendra S.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10974 26/04/95	H.No.3-4-344/2, "Shrikrishna Nilaya" Kadrikumbala Road, P.O. Bhal, Tq. Mangalore, Tq.-D.K.
85052	Mellegatti Basalingappa Chanabasappa Chanabasappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10775 20/07/94	Nekara Nagar Old Hubli, Distt. Dharwar.
85053	Minaxi Virupakshswami Veerayya C. Kaimath	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur, 1989	11430 14/02/97	No.1737, Nanwadgalli, Gadag, Post & Tk. Distt. Dharwar.
85054	Mini Nair V. Nair P.V.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10982 29/04/95	No.8, Lakshmalah Reddy Road, P.O. Ulssor, Bangalore.
85055	Moghul Nagur Babu Baig M. Davaji	Valdiya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada 1978	10888 30/01/95	K.68/A, III Main L.N. Puram, Bangalore.
85056	Mohammada Goussasheeb L. Nadaf Lokusaheb D. Nadaf	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1996	11356 07/10/96	Magadi Post, Shirahetti Tq. Distt. Dharwar.
85057	Mohan Maruti Rao Jiddimani Marutirao Jiddimani	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur, 1981	10805 31/08/94	74-11, Busstand Road, P.O.-Tq- Aland, Distt. Gulbarga.
85058	Mohasa S.G. S.V. Govindappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11407 06/01/97	Krishna Clinic, Turuvekere Post, Distt. Tumkur.
85059	Mohankumari Basavaraj Ligate	D.A.M. Board of Studies in I.M., Mysore State 1988	10764 10/06/94	360, Jay Nikethan East Mangalwarpet, Solapur.
85060	Mohanraj R. Rajappa R.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	2129 22/10/94	213/Y, 3rd Block, 53-Cross, Rajajinagar, Bangalore.

85061	Mehdi. Raifi H. Hakeem Huseinsab Hakeem	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10733 26/04/94	12098 V-Cross Geyathirugai, Bangalore.
85062	Mona R. B. Rengaswamy	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	11041 09/08/95	No. 2, E-Block, BTM Layout Main Road, Customs & Central Excise Staff Quarters Madhwa, Bangalore.
85063	Moose Bairy Meldin Bairy	IBAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1992	11189 11/03/95	Alamdi House, PO. Kuvetu, Tq. Belthangadi, Distt. D.K.
85064	Murthyraj N. Hiremath Nanjundiah	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2191 03/07/96	H.No. 3623, 8th Main, 5th Cross, M.C Colony, 'B' Block, Davangere 577004, Distt. Chitradurga
85065	Mulinani Raveendra Hanumanaraddi Hanumanaraddi R. Mulliram	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11065 06/09/95	P.O. Birkadalatti, Tq. Gadag, Distt. Dharwar.
85066	Mulinani Suresh Basappa Basappa Mullimani Sangappa	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1996	11418 24/01/97	At & P.O. Hosur, Tq. Saundatti, Distt. Belgaum.
85067	Mullur Virupaxappa Sakreppa Sakreppa	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1984	10845 18/11/94	Shivakrupa Clinic, Vineyakpet P.O. Hevalguind, Distt. Dharwar.
85068	Muthalli Devaraj Veeresh Veeresh Muthalli	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10738 27/04/94	Hasham Manji Gulaganji Koppa, Distt. Dharwar.
85069	Murali Krishnan R. Rajagopalan B.G.	IBAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10720 22/04/94	14th Cross D.No. 4, 1st Floor, Guplalayout Ursor, Bangalore.
85070	Muralidhar A. Venkappacharya Ashrif	IBAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1995	11104 15/11/95	No. 96-2/XX, Cowd Bazar, Opp. Employment Office, Bellary.
85071	Muralidhar Pujar Prathada Chary S. Pujar	IBAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1995	11211 18/04/96	C/o P.S. Pujar, Yatagiri Street(Fort) Ranibennur Post & Tk., Distt. Dharwar.
85072	Muralidhara Ramachandra Bhat P.L.	IBAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1991	10691 12/05/95	H.No. 2/46, PO. Pangala, Tq. Udupi, Distt. D.K.
85073	Murtikrishna Bhat K. Srinivasa bhat K.S.	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2182 26/12/95	H.No. 1, Mallanilaya, 9-G-Main Road, Pipeline Road, Vijayanagar, Bangalore.

85074	Murthy Veena Krishnamurthy M.P. Jagadeesha	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11221 10/05/96	No.138, 11, B-Cross, Ind-Stage, Rajajinagar, Bangalore.
85075	Murulidhar S.T. S.N. Thimmamachar	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1992	10723 22/04/94	Back of Ranganatha Temple, Gorab, Distt. Shimoga
85076	Mushi Suresh Sangappa Sangappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11038 04/08/95	P.O. Mugalkhod, Tq. Raibag, Distt. Belgaum.
85077	Mutalik Patil Vinayak Shamarao Mutalik Patil Shamarao	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1992	10836 12/10/94	Desai Ingali, Tq. Chiklodol, Distt. Belgaum.
85078	Myrhill K.S. Varaha Swamy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2202 10/10/96	No.334, 17th C'Cross, 9th Mah Road, Indiranagar, Ind Stage, Bangalore.
85079	N. Nagendra Kumar N. Nagaraja Setty	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2137 17/01/95	23/2, 16th Cross, Leikkasandra, Bangalore.
85080	Nagalakshmi H.P. H.N. Prabhakar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11326 09/09/96	H.No.1497, "Block, AECS Layout, Kundalahalli, Marathihalli Post, Bangalore.
85081	Nagappa Chittaragi Mallappa Chittaragi	Ayurved Bhishak A.I.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1978	10953 23/03/95	Near D.C.C. Bank P.O. Kamalagi, Tq. Hungund, Distt. Bijapur.
85082	Nagappa Fakhrappa Murshilli Fakhrappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1986	2213 20/03/97	At Somasamudra Post, Tk. & Distt. Bellary.
85083	Nagaraja Althal Yajna Narayana Althal	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10821 24/09/94	Sri Durganugraha, P.O. Mandarhi, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85084	Nagaraja Hegde M.R. Raviraja Hegde M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	11052 25/08/95	No.91 (7), Jail Road, Shimoga.
85085	Nagaraja Samaga K. Srinivasa Samaga K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	10791 16/08/94	P.O. Kelarkata Bettugrama, Udipi, D.K.
85086	Nagarajappa B.K. Krishnappa S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11334 10/09/96	No.1089, IVth-Main, MCR, Layout, Bangalore.

85087	Nagarathana G. Padmakara A.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2110 13/04/94	68, Sree Nilaya, ITI Layout Ekanashankar, 3rd Stage, Vidyapeetha, Bangalore.
85088	Nagaratna B. Hiremath Basavakumar C. Hiremath	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1994	11127 12/12/95	H.No.341, 1-Cross, 1-Main Road, Lashimipura, Kampegowda Nagar, Bangalore.
85089	Nagasamudra Chandra kenth Sangappa Sangappa Nagasanudra	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11158 24/01/96	Near Shanbhag Lodge, Opp. Nooran Building PO, Gadagi, Distt. Dharwar.
85090	Nagendralal D.N. D. Daddanegappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2142 14/02/95	Myakatura Village, Hiriyur Palya, Distt. Chitradurga.
85091	Naik Brahmanand Krishna Krishne Rama Naik	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10816 24/07/94	P.O. Basagoda, Tq. Ankola, Distt. Uttara Kanada.
85092	Nakil Rahul Bapusaheb Bapusaheb Nakli	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11027 12/07/95	Near Maruti Mandir, P.O. Islampur, Tq. Watwa, Distt. Sangali.
85093	Nalini C. Chandrashekar Gowda B.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10984 29/04/95	H.No.703, 2-Stage, 2-A, Main D-Block, Rajajinagar, Bangalore.
85094	Namitha Ratnakara Hegde	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1987	11208 17/04/96	No 747, 5th Cross, 9th 'C' Main Rd. R.P.C.Layout Vijayanagar, Bangalore.
85095	Naragund Bhogesh Pralahad Rao Prelahad Rao Venkatarao Naragund	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11369 30/10/96	C/o Machhappanavar Building, Girist Colony, Distt. Bijapur.
85096	Narayana Asra U. Late Vishnu Asra U.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	11128 14/12/95	C/o Dr. K.S. Shabaraya, Ashwani Clinic, P. Uppinangady Road, Harady
85097	Narayana Bhat K. Ganapathi Bhat Kartchar	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10950 22/03/95	PO-Tq. Puttur, Distt. D.K. Ananthashastha House, Ganathottu, PO. Medanthar, Tq. Belthangady, Distt. D.K.
85098	Narayana M. Thulapalle Mukunda N. Thulapalle	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1979	2194 17/08/96	Elthangady Post & Taluk, Distt. D.K.
85099	Narayana Rao V. Late Madallogattirao V.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2156 24/07/95	Main Road, PO. Kudathini, Distt. Bellary.

85100	Narute Nilesh Dattatray Dattatray Laxman Narute	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11029 12/07/95	S.P. Highschool Road, P.O. Kurundwad, Tq. Shiroli, Distt. Kolapur.
85101	Nesruddin Chandrasaheb Gunaki Chandrasaheb Gunaki	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11009 02/06/95	P.O. Negatana, Distt. Bijapur.
85102	Navalagatti Nagappa Rudrappa Rudrappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11148 11/01/96	P.O. Navalagatti, Tq. Eerihongal, Distt. Belgaum.
85103	Naveen Chandra Hegde Narasimha Hegde T.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10715 05/04/94	Thadekali House, P.O. Neejavara, Distt. D.K.
85104	Nidagundi Jagadish Muniyappa Muriappa Mallappa Nadagandi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1995	11156 23/01/96	Dyanawana Gudi, Kareya Main Road, P.O. Basvana Bagjewadi, Distt. Bijapur.
85105	Nidagundi Shivananda Parappa Parappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11054 01/09/95	P.O. Belur, Tq. Badami, Distt. Bijapur.
85106	Niranjana Hegde N. Govinda Hegde	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	10851 21/11/94	M.D.-4/B/6, Jail Road, PO & Tq & Distt. Shimoga.
85107	Niranjana Rao B. Anandarama Rao B.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11015 17/06/95	H.No.3-41, P.O. Barkur, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85108	Niranjana Acharya B. Narendra Acharya B.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	10844 18/11/94	Near S.V.S. Devala PO & Tq. Bantwal, Distt. D.K.
85109	Niranjana Murthy N.V. Rajeshkar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10980 29/04/95	No.756/3, 10-Main, 7-Cross, HAL, 2-Stage Indiranagar, Bangalore.
85110	Nirmala H.P. P.H. Hipparagi	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11078 27/09/95	B-141, "Matru Krupa" Bharath Nagar PO. BEML Nagar, Baugarpet, Distt. Kolar.
85111	Nirmala M. Megaraja Jain	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10820 24/09/94	431, Ashoka Road, Mysore.
85112	Nirmala Vestrad Vestrad Rudramuni	BAMS Guilbarga Univ., Gulbarga, 1993	10930 14/02/95	23, Old Bank Colony, Konanakunte Dodda Kallasandra South, Bangalore.

85113	Nuchitsharanabasheshwara Nuchhi Chanegondappa Malagandappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11074 25/09/95	Rama Mandir Road, Bijapur.
85114	Otageri Andanappa Basappa Basappa Otageri	BSAM Karnataka Univ., Dharwar, 1981	10754 17/05/94	46, Binjavadagi, PO. Amaravathi, Tq. Hungund, Distt. Bijapur.
85115	P.V. Yadhavi Vijayakumar P.V.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11088 13/10/95	Gouri Nilaya, PO. Puthur, Distt. D.K.
85116	Padmaraja K. Shankararayan Bhat K.	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1991	10965 04/04/95	H.No.4-47, Banubettu House, Kashimata PO. Vittal, Tq. Bantwal, Distt. D.K.
85117	Padmasree Sankappa Shetty	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10843 18/11/94	2-11 (1) Hosangadi Aramane, PO. Morur, Via Mudubidre, Tq. Karkala, Distt. D.K.
85118	Padmavathi A. A. Srinivasa Bhat	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1983	10726 22/04/94	Parag Bramthavara Tq. Udupi, Distt. D.K.
85119	Padmavathi B. B. Kondachary	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1986	10883 11/01/95	Sri Laxmi Clinic L-28, Gandhinagar II Cross, Distt. Bellary.
85120	Padmini Rao K. Raghavendra Rao K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10785 02/08/94	Kaimadi House Kudumal Ranga Rao Road, PO. Kodialbelli, Mangalore, D.K.
85121	Palled Shankappa Veerabasappa	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	10882 11/01/95	PO. Magadi, Tq. Shirahatti, Distt. Dharwar.
85122	Pamela Ann Saritha Albert Picardo	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11362 14/10/96	H.No.4-4-108, Vivekananda Mrg, Udupi Post At-Ajjerhad, Udupi Tq. Distt. K.
85123	Paragonde Anil Siddharan Siddharan	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1990	10772 13/07/94	1/11, Rama Neela Nilaya, Dhatagere Gaili, Bijapur.
85124	Pavetgouda B. Hiregouda Basanagouda	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	10988 10/05/95	PO. Baradur, Tq. Mundargi, Distt. Dharwar.
85125	Pestay Anruti Devendrappa Devendrappa Hanumanthpasta	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10957 27/03/95	71, Hirepeth Road No.2, Old Hubli, Tq. Hubli, Distt. Dharwar.

85126	Pattanu Silar Rao Syda Rao	Valdya Vidwan A.A. Parishad, Vijayawada 1979	11145 28/12/95	Near Sheshi Mahal Theater, Patel Road, Rajahmundry
85127	Pathan Maslan Rao Salda	Valdya Vidwan A.A. Parishad, Vijayawada 1982	11144 20/12/95	Gawan Chowk, Bidar.
85128	Patil Adrushya Basanagouda Basane Gouda Veeranagouda Patil	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1987	11149 20/11/95	P.O. Dattarwad, Tq. Shirur, Distt. Kolhapur.
85129	Patil Andanagoud Shekharagouda Shekharagouda Patil	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11198 29/03/96	Okkalageri, Kumbhar Street, P.O. Gadeg, Distt. Dharwar.
85130	Patil Anilkumar Ningangouda Patil Ningangouda Shivgouda	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11174 19/02/96	P.O. Basaragi, Tq. Jath, Distt. Sangli.
85131	Patil Babagouda Adagouda Adagouda B. Patil	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11382 21/11/96	Gundwad Post, Railbag Taluk, Distt. Belgaum.
85132	Patil Babalad Basagondappa Naresh H. Patil Babelad	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10830 30/09/94	Shivaleela Nivas Khan Bazar, Distt. Bijapur.
85133	Patil Bhagirathidevi Basanagouda Basanagouda Patil	BSAM Karnataka Univ., Dharwar, 1982	10727 25/04/94	C/o V. B. Patil, P.D.J. Play Ground Darbargalli, Distt. Bijapur.
85134	Patil Girijadevi Basanagouda Anil Mallappa Nagavi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10780 26/07/94	Dehind Padri School, 13, Near P.D.J. Play Ground Shirshikena Nagar, Darbargalli, Distt. Bijapur.
85135	Patil Lakhamagouda Basa Prabhudu Basaprabhudu R. Patil	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11007 26/05/95	Near Police Station, Ghatabrabha, West Part, Tq. Guktak, Distt. Belgaum.
85136	Patil Mallikarjuna Gouda Chandrashekhara Gouda	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10948 17/03/95	At. Hireharakuni, Tq. Kundagoal, Distt. Dharwar.
85137	Patil Mallikarjuna Bheemaraya Gouda Patil Bhimarayanagouda Legappagouda	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10751 13/05/94	At & P.O. Salehalla Basavana Bagewadi, Distt. Bijapur.
85138	Patil Ramanagouda Ranganagouda Ranganagouda Patil	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	11147 11/01/96	P.O. Mudhol, Distt. Bijapur.

85139	Patil Savitri Basanagouda Basanagouda S. Patil	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11196 29/03/96	H.No.207, P.O. Noolvi, Tq. Hubli, Distt. Dharwar.
85140	Patil Shankargouda Sangnagouda Sangargouda V. Patil	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11013 02/06/95	P.O. Hilekotehalli, Tq. Hunagunda, Distt. Bijapur.
85141	Patil Shashikala Anjanagouda Anjanagouda Ramanna Goudapathi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10920 14/02/95	Near Sai DrMind School Viveknagar West, Distt. Bijapur.
85142	Patil Sudha Chandra Gouda	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10889 30/01/95	Basaveshwara Nagar Near A.C. Office, P.O. & Tq. Gadag, Distt. Dharwar.
85143	Patil Sukumargouda Adivappa Gouda Adivappa Gouda	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11157 24/01/96	P.O. Doni, Tq. Mundargi, Distt. Dharwar.
85144	Patil Sunita S. Ashok N. Pattanashetti	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1990	10817 24/09/94	Physician Primary Health Centre, P.O. Medikeswara, Tq. Muddabihal, Distt. Bijapur.
85145	Patil Veerappa Veeranna Veeranna Patil	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10973 26/04/95	P.O. Inchal, Badigar Street, Tq. Saundatti, Distt. Belgaum.
85146	Patwardhan Ravikumar Aravind Ganapathi Rao Patwardhan	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10907 02/02/95	59/1, Hospet Road, P.O. Shirasi, Distt. Uttara Kannada.
85147	Phadnis Leena Dattatraya Phadnis Dattatraya Gopal Rao	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11194 25/03/96	H.No.316-A, Roy Road, P.O. Tilakwadi West Tq. & Distt. Belgaum.
85148	Phse Sangeeta Manehar Manohar	BAMS Univ. of Bombay, Bombay, 1992	11439 18/01/97	H.No.334 "Keshav Sadan", Baswan Street Basveshwar Circle, Khesbag, Belgaum
85149	Poomachandra A. Ananda Shetty T.S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11395 31/12/96	"Jyothi liaya" Ild Cross, Neehu Nagar, Mandya
85150	Poomine Keshava Nayak K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10803 31/08/94	6-4-31, A. Maruthi Line Valakadu, P.O. Udipi, Distt. D.K.
85151	Poomima K.M. Late Mallashetty K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11402 03/01/97	No.2639, 10th, 'B' Cross, 'A' Main IInd Stage R.P.C. Layout, Vijayanagar, Bangalore.

85152	Poomima R. Shenoy B.M. Kannath	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	11089 19/10/95	H.No.97, Manocha Apartments, H-Block, Vikaspuri, New Delhi.
85153	Prabhakar V.M. Mudlagiri V.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1995	11139 23/12/95	H.No.3012, "Raghunagiri Nilaya", Behind T Subhash Nagar, Nelamangalla, Chore-Rural Dist.
85154	Prabhatia C.H. Subramanya Bhat C.H.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10939 14/02/95	Padikkal House Yet hadka, Kasargod.
85155	Pradeep P.K. Nayak P. Keshava Nayak	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11381 20/11/96	Appl Sons Compound Shivepete Pariedka Post, Puttur Tk., Distt. D.K.
85156	Prakash Kumar N.K. Keshava Bhat N.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2145 07/03/95	P.O. Menchi Kukkeji Near Panemangalore, Distt. S.K.
85157	Prakash M. Tangedi Murigeppa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1993	10905 02/02/95	388/2, Ward No.2, Maligalli, P.O. Jeth, Distt. Sangli.
85158	Prakash Pal A. Sarvottama Pal A.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	11089 17/10/95	C/o A. Sundar Pal & Company, Cloth Mar PO, Koteighwar, Tq. Kandapur, Distt. D.K.
85159	Prakash S.C. Sylvester D'souza	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	10893 30/01/95	2-58, PO Panja, Tq. Sulya, Distt. D.K.
85160	Prakash Shetty Narayana Shetty H.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1984	2177 28/12/95	H.No.1, Brindavan Apartments, KRS Road, Yathavagiri P.O., Mysore.
85161	Prakash Naika Henya Naika	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11261 18/06/96	H.No.2-42, Kollanige House, Hosoor Village Karje Post, Udipi, Tq. South Kanara Distt.
85162	Prasad Babu K. Venkatappa K.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1996	11386 02/12/96	Govinda Reddy Compound, Maremma Temple, Kappagal Road, Bellary.
85163	Prasan Bhasme Basawant Bhasme	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11133 18/12/95	Sri Vinayaka Health Centre, Behind HAL Hospital, Reddy Palya, Bangalore
85164	Prasanna Karur N.H. Karur	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11323 04/09/96	Near Ankadakatte, Neramballi Road, Koteswara Post, Kundapura Tq., Distt. D.K.

85165	Presanna Kumar B. Bettagouda S.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11022 04/07/95	No 1287, Netarunagar, Mandya.
85166	Presanna Narasimharao Subraya Rao	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1985	10944 04/03/95	3230 A, Ele and Irani Bengilow Hassan
85167	Presharath K. K. Manohar	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11275 29/06/96	Shantha Dispensary, Hote Honnur Post Bhadravathi Tk., Distt. Shimoga.
85168	Presharath R. Late Rajashkar N.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11142 23/12/95	H.I.No. 649, "Rajashree" 10-E-Main Road, 3-Stage, 4-Block, Eksa vesthwaragar, Bangalore.
85169	Prethibha B. Harischandra K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11371 04/11/96	1-35, (1) Near Kudpu Temple, At- Kudupu Post, Omanjuru, Tq. Mangalore, Distt. D.K.
85170	Prathima Gunapal Kadambari	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	10869 22/12/94	Ahimsa Majila Colony Jeppu, P.O. Kankaneady, Distt. Mangalore.
85171	Prathima Kamath M. N.P. Kamath	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11087 12/10/95	H.I.No. 725, 1-Main Road, Vyailkaval, Bangalore.
85172	Prethiba Bhandiwat Venkatarao	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	2187 26/02/96	C/o B.Y. Madwalar, Koppadakeri, M.B. Nagar, Dharwar.
85173	Premalatha Tharanatha Balyaya	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1994	11005 11/10/95	No. 4-106, Sri Durga Nives, P.O. Belmannu, Tq. Karkal, Distt. D.K.
85174	Premalatha A.K. A. Krishna Bhat	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11414 18/01/97	H.I.No. 1254, "Shree Ganganilaya", Harady Puttur, Post & Tq., Distt. D.K.
85175	Punith Babu P. Prema Kumar G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11245 25/05/96	No. 5126, 'A', "Nanana", 22nd Main, 20th Cross, Behind B. T. S. Garage, Vijayanagar, Bangalore.
85176	Puranikmath Arunkumar Shadaksharayya Shadaksharayya Belagangayya Puraalkmath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10810 07/03/94	P.O. Babaleshwara, Distt. Bijapur.
85177	Pushpa Thimmliah M.C.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10721 22/04/94	538, B.B. Block (HUDCO) Bannimantap Extn., Mysore.

85178	Pushpaelatha H.S. Shankaranarayana Bhatta	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1993	11095 17/10/95	H.No.599, Old Agrahara, PO- Shankaranara, Tq-Kundapur, Distt. D.K.
85179	Pushparaja Shetty P.M. Muddanna Shetty P.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1985	10859 02/12/94	Rekha Sedan Bilal P.O. Mangalore, Distt. D.K.
85180	Pushparaja Shetty P.M. Muddanna Shetty P.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2244 21/02/97	"Rokha-Sedan", Gijst-Kerkhad Post Mangalore Tk., Distt. D.K.
85181	Puttarangappa K. B. Kristinappa	Vaidya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada, 1975	11259 17/06/96	No.735, MG Road, Bangalore.
85182	Puttaswamy Aradya Soma Aradya	D.A.M. Board of Studies in LM.Mysore, Bangalore 1972	11192 13/03/96	Bandur, P.O. Dugganahalli, Tq. Malavalli, Distt. Mandya
85183	Qudsia Thansneem S.A. M.R. Safiruddin Ahmed	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11329 09/09/96	No.832, 10th Main, 11rd Stage, Pillanna Garden Arabic College, Bangalore.
85184	R. Rachalah L. Rachalah	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11097 19/10/95	D.No.3958, Annamma Street, 2-Cross, Gandhi Nagar, Mysore.
85185	Redha G. Venkataswamy G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11137 22/12/95	NA-915, BEL Colony, PO. Jalahalli, Bangalore
85186	Raghavendra Achar Anantharama	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1988	10951 23/03/95	Tanty Compound, 4-2-20, Al Naykare P.O. Ambalipady, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85187	Raghavendra Acharya P. Panduranga Acharya P.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1985	11109 20/11/95	H.No.96-2/XX, Opp. Employment Office, Cowl Bazar, Bellary
85188	Raghavendra R. Joshi Rangarao Joshi	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2157 03/08/95	4-Cross, Subhashnagar, Main Road Nelamangal, Distt. Bangalore.
85189	Raghavendra Rao S. Ramachandra Rao S.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10759 24/05/94	PO. Anandapur, Tq. Sagar, Distt. Shimoga.
85190	Raghavendra S. N. Sripathy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11315 27/08/96	No.100/E, 11rd Main Road, Vith Cross, K.G. Nagar, Bangalore.

85191	Raghavendra Shettigar Na. Asimha Shettiga S.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11094 17/10/95	Kunchimane, Al. Saliker, Brathanavasa PO-Ehrahmavara, Tq. Udupi, Distt. D.K.
85192	Raghavendra Upadhyaya K. Krishnemoorthy Upadhyaya	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1986	2122 18/08/94	Market Road, PO. Javaga, Tq. Aurikere, Distt. Hassan.
85193	Raghuveer Avedhati K. Shripaty Avadhani K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1987	11152 22/01/96	H.No. 1-86, S.V. Temple, PO. Kalyanpur, Tq. Udupi, Distt. D.K.
85194	Raiker Pushpaletha N. D.S. Ramakrishnan	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1986	11161 24/01/96	Laxmi Krupa, Vivekananda Road, At-Hosamani, Shimoga.
85195	Rajagopala S. Shrikrishna S.	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore, 1991	11166 01/02/96	C/o Dr. P.S. Bhat, "Geetanjali", Barebital, PO. Bejai, Tq. Mangalore, Distt. D.K.
85196	Rajani K.V. Ramash S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11248 31/05/96	No. 422, 1st Main, 1st Block, R. Nagar, Bangalore.
85197	Rajani Shankar Bhavikatti Shankar S. Bhavikatti	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11277 29/06/96	P-10, KREG Campus, Suratkal Srinivas Nagar Post, Mangalore, Distt. D.K.
85198	Rajashekar K.V. Veerappa M.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1986	10747 06/05/94	PO, Doggnala, Tq. Holalkere, Distt. Chitradurga.
85199	Rajeevalochana D. C.T. Doreswamy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	11392 31/12/96	"Sree Ranga", Near UCO Bank B.H. Rd. Valmiki Nagar, Tumkur.
85200	Rajesh Acharya N. N. Vasudeva Acharya	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1995	11406 08/01/97	No. 1159, 11rd Main, Girinagar 1st Phase, Bangalore.
85201	Rajesh Prabhu M. Gopalakrishna Prathu M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11155 23/01/96	No. 90, 3-Cross, 25-Main Road, BTM Layout, 2-Stage, Bangalore.
85202	Rajesh D. Pandi K. Dharmaraja Pandi K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11090 17/10/95	Rajagriha" Kuvattu Village, Guruvayenekere Tq. Bethangadi, Distt. D.K.
85203	Rajmane Jitendra Shankar Shankar Rajmane	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11028 12/07/95	PO. Ales, Tq. Shirol, Distt. Kolhapur.

85204	Rakshinda Subhani M. Abdul Subhan	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1986	2198 30/06/96	C/o M. Abdul Subhan, No. 741, 30th "b" Cross Tilaknagar, Near Carmel Convent East & Road Bangalore PO: Hardalli Mandalli, Tq. Kundapur, Distt. D.K.
85205	Ram Mandhar H. Thimmappa Shetty	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10812 13/06/94	
85206	Rama Prasad T. Krishna Sastri T.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10850 21/11/94	152, "Sri-Sapthagiri" 13-B Cross Road, Yalahanka Satellite Town, Bangalore.
85207	Ramachandra M. Muniswamy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10849 21/11/94	135, PO: Amruthahalli, Tq. Bangalore, North Bangalore.
85208	Ramachandra U.V. Bhatia U.V.R.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1986	2117 26/05/94	550/17, 7th Main, Hanumanthanagar, Bangalore
85209	Ramanagouda S. Patil Siddanagouda D. Patil	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1995	11119 29/11/95	Ukumanal, PO: Katakana Halli, Distt. Bijapur.
85210	Ramananda Takra Late Mukunda Takra	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1991	11292 01/08/96	At-Peethri Post, Cherkady, Udipi Tq. Dakshina Kannada Distt.
85211	Ramanath Bhat Gopalkrishna Bhat M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11195 27/03/96	H.No.12-4-49 C, "Raghavendra Nikaya", Kadarettu Jagannath Nayak Street, PO & Tq. Udipi, Distt. D.K.
85212	Ramappa Neelappa Kerur Neelappa H. Kerur	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga 1993	10755 23/05/94	PO: Ramageri, Tq. Shirahatti, Distt. Dharwar.
85213	Ramatirth Chidanand Rachappa Rachappa S. Ramakrishna	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11188 06/03/96	PO: Gulgal Jambagi, Tq. Mudhol, Distt. Bijapur.
85214	Ramesh Adiga M. Shankaranarayana Adiga M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11416 22/01/97	Heggurje Village, Mandarthi Post, Udipi Tq., Distt. D.K.
85215	Ramesh Rao C.G. Govinda Rao C.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1985	2130 25/10/94	Sri Ganesh Kripa, Santhekatte, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85216	Ranjani G.S. Suryanarayana G.R.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11102 03/11/95	No.82, East End "D"-Main, 9-Block, Jaynagar, Bangalore.

85217	Rashinka Sanjeev Madheverao Madhavarao Halbatappa Rashinka	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11053 01/09/95	No 5302/1A, Dr Rajendraprasad Main Rd, Tenginkal Elara, PO, Betageri, Tq Chardag, Distt. Dharwar, No.60, First Floor 3-Cross, Gavijpura Ext., Bangalore.
85218	Rathna Veni T. Ishwar Bhat T	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10989 10/05/95	
85219	Rathod Sulochana Lalsing Lakshman Sulochana	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10922 14/02/95	72, K.H.E. Colony, Bijapur.
85220	Ravijumar H.G. Govindra Rao H.V.	Vaidya Vidwan A.A.Panished, Vijayawada, 1973	11273 24/06/96	Urdikere Post, Tumkur Taluk & Distt.
85221	Ravikiran M.G. Ganapathi Bhat	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11036 03/08/95	Near P.U.C. College, PO. Vittal, Tq. Elantval, Distt. D.K.
85222	Ravindra G.S. Sadashiva Murthy G.S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11270 24/06/96	No.1288/1, C. Krishna Raja Mair Road, Krishna Murthy Puram, Mysore.
85223	Ravindra Kalyan Rao Kulkarni Kalyanarao V. Kulkarni	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10815 23/09/94	A/35, Karwar Road, Hubli PO, Distt. Dharwar.
85224	Ravisha Prabhu P. Anatha Prabhu P.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11037 04/08/95	PO, Perdoor, Near Vijaya Bank Tq. Udupl, Distt. D.K.
85225	Ravishankar B. Kotrappa B.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11033 27/07/95	D-63, At. Golum, 4-Stage, Yadavagiri, Mysore.
85226	Ravishankar S. M. Krishna Bhat	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11006 26/05/95	Settindu House, PO. Kuthkunja, Via Panje, Tq. Sulita, Distt. D.K.
85227	Ravishankara Y. Ishwara Bhat Y.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11393 31/12/96	Yekana House, Mair Post, Via Perla, Distt. Nasaragod.
85228	Reitha Pal M. Shankar Pal M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11062 06/09/95	No.468, Attur Church Road, PO. Karkal, Distt. D.K.
85229	Renuka Devi Chikraswamy	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10952 23/03/95	7-13, # Stage, 10 Cross Mokshamarga Siddhartha Layout, Mysore.

85230	Renuka S.M. Mahabala Shet	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2146 14/03/96	16, Shanta Nives, P & T Colony, R.T. Nagar, Bangalore.
85231	Reshma Farhana Hidayath Ulla Khan	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11255 08/06/96	H.No.1153/A, Patwagar Street, Mendi Mohalla, Mysore.
85232	Rohini M.R. Shridhara Murthy HS.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11138 22/12/95	H.No.486, 50-Peet Road, 16-Main Road, Hanumanthnagar, Bangalore.
85233	Roned Noorahamat Abdulrahman Saheb Abdul Rahaman Saheb	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10719 22/04/94	1083, Near Katturiane Ettigalli, Tq. Narsagi, Distt. Dharwar.
85234	Roopashree S. Venkatarmana Bhatg	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11096 19/10/95	Sodankoor House, P.O. Anekallu, Manjeshwar (Via) Tq. Karsaragod, (Kerala State)
85235	Rottishevantika Baburao Baburao K. Rotti	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11183 01/03/96	Madhala Maruthi Geilli, Kulkarnwada P.O. & Tq. Akkalkot, Distt. Sholapur.
85236	Rukmini K. Govindra Bhat N.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1993	10925 11/02/95	"Keshava Krupe" H. 17, Bhalkal Mood Bhalkal Dist. N.K.
85237	S. Sreenivasa Murthy Chikkarangalah	Ayurved Bhishak A.I.Ay. Vidyapeethi, Delhi, 1977	10946 16/03/95	Siddapura, Kasaba Hobli, Tq. Madhugiri, Distt. Tumkur.
85238	S.K. Sridhar Murthy Krishna Murthy S.N.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2125 12/09/94	272, S-B, Remco-Layout, Vijaynagar 2nd Stage, Bangalore.
85239	Sabharit Ganapati Gajanan Gajanan Sabharit	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1984	10832 07/10/94	Mahalakshmi Nilaya Melina Idagunji Tq-Honnavar, Distt. Uttara Kannata.
85240	Sabitri Thapa Chhetri Padam Bahadur Thapa Chhetri	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11396 31/12/96	Ranka Dhejley Post.
85241	Sadananda Hebbar P. P. Subraya Hebbar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1982	2216 27/03/97	No.321, Vth Main, 1st 'A' Cross, Mico Layout Arekere, Bannerghatta Road, Bangalore.
85242	Sadashivananda Late Korega	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11322 04/09/96	Near S.V.S. Higher Primary School, Kidiyoor Post, Udipi, Distt. D.K.

85243	Sadhana K. Shreespadrao K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	10760 27/05/94	PO, Kalyanpur, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85244	Sahane K. K. Ramanaik	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1995	11332 09/06/96	"Rama Nivas", H.No.111-81, Km., Ashwini Nagar, Kasaragod, Kerala State.
85245	Sajjanar Jyothi Channappa Channappa Sajjanar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	11039 08/09/95	No.339, 1-Stage, KHB Colony, 6-Cross, Basaveshwaranagar, Bangalore.
85246	Sakeena Banu Elai M.R.A.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	10742 03/05/94	A-21, Kulkarni Colony, 11 Block Koramangala, PO, Bangalore.
85247	Saleemunnisa M.A. Shariff	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10822 24/09/94	Aralepete Renukamba Rd. Channarayana Patna PO-Tq- Distt. Hassan.
85248	Sallimath Girish Madhwelappa Madhwelappa Veerappa Sallimath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11069 15/09/95	P.O. Tigadi, Tq. Ballihongal, Distt. Belgaum.
85249	Salma Bano Syed Vail	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1984	2208 20/11/96	No.23, 1st Main, Khazi Street Cross, Erasavenegudi, Bangalore.
85250	Salma Rizwan T. Ghouse Amed Khatirishi	BSAM Univ. of Mysore, Mysore, 1976	11066 13/09/95	No.21, MIG, Subhash Nagar, Main Road, Badernakkan, Mysore.
85251	Sambrekar Sharada Nanyana	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1985	10806 01/09/94	4050, Kangralagalli, Belgaum.
85252	Samina M. Sindgikar Mohammed Akil A. Sindgikar	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1993	10870 28/12/94	38, Mirdegalli PO, Bijapur, Distt. Bijapur.
85253	Sampath B.N. Nagabhusana B.K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1985	11086 12/10/95	No.979, 1-Cross, 9-Main, HIG House, Vivekanandanagar, Mysore.
85254	Sandhya K. Venkat Rao	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10833 07/10/94	Mudmunda House, Mednur Grama PO-Kavu Tq-Puttur, Distt.D.K.
85255	Sandhya Kumari N. Mahaveer Jain	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11275 28/08/96	"Vidyashree", Arasakatte, Narevi Post, Bethangady Tk., Distt. D.K.

85256	Sandhyataxmi M. Udayakumar K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11181 27/02/96	H.No.115/A, PO, Kaniyoor, Tq. Puttur, Distt. D.K.
85257	Sangita Tukaram Sangve Tukaram Sangve	BAMS Merrithwada Univ., Aurangabad, 1991	11348 23/09/96	H.No.5-4-57, Brahmanan Galli, Aland Post & Tk, Distt. Gulbarga
85258	Sanjay Chandrashekar Chandargimath Chandrashekar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10929 14/02/95	193/A, Bhodagalli, Shahapur, Belgaum.
85259	Sanjay Das P.K. Haridas	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10875 04/01/95	Harri Bhavan, Residence Road, PO. Mahe, Distt. Pandichery State.
85260	Sanjay Raj B. Revindranath Raj B.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	11297 17/08/96	"Dhruvamani", Athiraj Post, Uduppi Taluk, Distt. Dakshina Kannada.
85261	Sanjay V. Venkatesh V.N.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11219 25/04/96	D.No.1554, 16th Main Road, Vijaya Nagar, Bangalore.
85262	Sanjaya K.S. Sundara Shetty K.M.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11314 27/08/96	"Shree Shankari Nilaya", Hirekere Koppa Post & Tq. Chickmagalur Distt.
85263	Sannur Vivekananda Gerappa Gerappa	DAM Board of Studies in I.M.Mysore, Bangalore 1973	11082 10/10/95	No.10, At. Devalapura, PO. Kadakola, Distt. Mysore.
85264	Santhosh Bharathilal Sheth Bharathilal	BAMS Shivaji Univ., Kolhapur, 1982	10809 05/09/94	2-2-2, Hanuman Rd., PO. Alanda, Distt. Gulbarga.
85265	Santhesh Kumar Someshwara Krishna Shetty	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11024 11/07/95	Mangalore-Shivamogga Main Road, At. Bellavalli, Tq. Thirthahalli, Distt. Shivamogga.
85266	Santhosh M. Sundar Rao M.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11230 13/05/96	"Sindhoore", CTO Road, Sarnethadka Post Puttur T. Dakshina Kannada Distt.
85267	Saraschandra Singh B.N. Naryana Singh	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1979	10787 03/08/94	53, Main Road Gandhi Bazar, Besavanagudi, Bangalore.

85268	Saraswathi Rao B. Ramakrishna Rao B.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11108 20/11/95	PO. Gidlakatte, Tq. Bantwala, Distt. D.K.
85269	Saroja Murugesappa Antalkodi Veeresh Kumar S. Shirol	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1988	2201 10/10/96	C/o Dr. V.S. Shirol No.A-12/12, Staff Quarter J.N. Medical College Campus, Belgaum.
85270	Sarojadevi Bedagunchi Umapathi B.	BAMS Guibarga Univ., Guibarga 1995	11209 18/04/96	Tavaragera Post, Kustagi Taluk, Distt. Raichur.
85271	Sathish Pal K. Rameshchandra Pal K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11045 11/08/95	PO. Kunjalu, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85272	Sathisha B.H. Honna Setty	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11373 18/11/96	At & PO. Bhuvanahalli, Tq. Pithya Pattana, Mysore.
85273	Sathya Moorthi K. Thirumaleshwara Bhat K.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10990 10/05/95	Pailandes Bulding P.M. Rao Road, Mangalore, Distt. S.K.
85274	Sathya Prasad Rao Thimmappa Rao	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11023 06/07/95	At. Moodubege, PO. Ampanax, Tq. Kundapur, Distt. D.K.
85275	Sathyanarayan U. U.Bhimappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2141 08/02/95	19/1, Kalappa Block, 3-Cross, 1st Main Rd., Ramachandra Puram, Bangalore.
85276	Sathyanarayana Thammayya Patali U.	BAMS Guibarga Univ., Guibarga 1994	10966 08/04/95	PO. Uthoor, Tq. Kundapur, Distt. D.K.
85277	Sathyanarayana Rai A. Venkappa Rai	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2138 02/02/95	PO. Beluval, Tq. Karkala, Distt. D.K.
85278	Sathish G.I. Ishwarbhat G.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11187 02/03/96	Sumanasa, Goledegudde, PO. Chandragutti, Tq. Soraba, Distt. Shimoga.
85279	Sathisa Krishna Rao K. Sheethashayi Rao	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	11112 23/11/95	H.No.-0-91, PO. Kamaleshele, Tq. Kandapur, Distt. D.K.
85280	Savadi Basavaraj Sidramappa Shidramappa Savadi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10933 14/02/95	K.C. Rani Rd. Masari, PO & Tq. Gadag, Distt. Dharwar.

85281	Savarur Prasanna Vittala Rao Vittala Rao Gundacharya Savarur	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10927 14/02/95	Quarters No. 2, Old Civil Hosptla., M.G. Road, Distt. Bijapur.
85282	Savita C. Hunashimarad Chandrashekar Mahadevappa Hunashimarad	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11132 18/12/95	H.No.23, KHB Colony, 1-Main Road, PO. Renabennur, Distt. Dharwar.
85283	Savitha Rani C. Channabasappa K.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1985	11077 27/03/95	H.No.676, B.B. Garden, Mysore.
85284	Savitha S.G. S.V. Govindappa	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11288 22/03/96	Krishna Clinic, Turuvekere Post & Taluk, Distt. Tumkur.
85285	Savitha Shanbhogue I. I.V. Shanbhogue	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11298 17/03/96	"Panchavathi", 5th Cross, Adarshanagar Adilmane Road, Hassan.
85286	Savitha T.V. T.N. Vijaya Narayan	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1985	11376 20/11/96	No 522, 10th Cross, 4th Main, Vidyarana Puram, Mysore.
85287	Savitri T.N. Natarajan T.N.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1983	10732 26/04/94	81, Cheluvah Compound Pipe Line, Sri Nagar, Bangalore.
85288	Sayed Basheer Ahmed M. Karnoolkar Mohamed Hanef Karnoolkar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1983	2189 10/05/96	Makam Galli, Banmapur Chouk, Behind Laxmi Talkies, Hubli Post & Tk., Distt. Dharwar.
85289	Seethalakshmi B.S. Siddalah S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10684 07/12/94	43, I-Cross K.H.B. Colony Main Rd. Ooti Rd. Nanjangud, Distt. Mysore.
85290	Shahapuri Basavaraj Baburao Baburao	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1990	11083 17/10/95	No.438, Gajanana Road, PO. Halaga. Tq. Belgaum, Distt. Belgaum.
85291	Shalk Haji Peeran Mastan Saheb	Yaldya Vidwan A.A. Parshad, Vijayawada, 1976	11368 20/10/96	Prasanti Nursing Home, Vivekananda Rd., Srinivasapur Post, Distt. Kolar.
85292	Shalk Mohammad Shafi Khadervall Saheb	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1987	10808 02/03/94	PO. Porumamilla, Tq. Badvel, Distt. Cuddapal.

85293	Shalikh Avilbasha Moulali Moulali	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10924 14/02/95	144, Madki Nagar, Poona Road, Tq. & Distt. Solapur.
85294	Shailaja Y. A. Madyashta	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11014 17/06/95	Sreepradha", PC Sasthana, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85295	Shailaja Narayanasetty Ramasetty S.M.	BAMS Anirwati Univ., Amravati, 1992	11151 22/01/96	C/o S.M. Venkobesetty, Main Roaroad, PC. Huvina Hadagali, Distt. Belkari.
85296	Shailaja U. Prasanna Narasimha Rao	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10838 15/10/94	Behind Irani Banglow, Church Road, Hassan.
85297	Sham C.R. Shastri C.R.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	11250 01/06/96	H.No.220, Astrama Road, Henakal Post, Mysore.
85298	Shanbhag Vinayak Ramakrishna Shanbhag Ramakrishna Ganapati	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10909 02/02/95	PC. Manchikeri, Tq. Yallepur, Distt. U.K.
85299	Shankara Narayana Bhat S. Krishna Bhat S.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10945 06/03/95	LIG-17, I-Cross, Doddanagudde, PO. Udipi, Kunji-Bettu, Distt. D.K.
85300	Shankarappa Madivalappa Shirur Madivalappam Shirur	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2207 19/10/96	At & PO. Shirur, Tq. Navalgund Via Anantnighavi, Distt. Dharwar.
85301	Shankargouda Shivana Gouda	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1995	11231 13/05/96	C/o Siddana Broda Swadhar, Thirajanthakal Post, Gangavathi Tk., Distt. Raichur
85302	Shantha K. Sudhakar Bhat	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10834 12/10/94	Car Street, PO. Aroor, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85303	Shanthi Prasada B. Padmenabha Inda	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11000 22/05/95	Shanthi Nilaya", Mahaveeranagar, PO. Vencor, Tq. Belthangady, Distt. D.K.
85304	Sharad Sapna Rai E. Rai B.L.N.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	10868 22/12/94	Court Road Puttur, D.K.
85305	Sharada G. Awadhoot	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10740 28/04/94	19, "Aashray" Hesarphatta Road, Begalkunte House Nagasandra Rd. Building Society, Bangalore.

85306	Shirada S. Gurnase Shyam Laxman Rao Gurnasire	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10869 19/04/95	Shanadha", Manjunath Pura, Dharwar.
85307	Sharanappa K. Haltri Kotabatsappa Haltri	BAMS Guibarga Univ., Guibarga 1996	11354 07/10/96	Sompur Post, Yelburga Tq., Distt. Raichur.
85308	Sharma Geeta Mahendra Mahendra Sharma	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11184 01/03/96	P.O. Heggami, Tq. Siddapur, Distt. U.K.
85309	Sharmada A.N. Anandareo A.N.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10962 30/03/95	"Ashwini Krupa" PO-Baldebetu, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85310	Sharmila Veera Rodrigues Robert S. Rodrigues	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11316 27/08/96	H.No.3-17, R-E. Villa, Simen Lane, Lower Maroli Kulshekar Post, Mangalore Distt. D.K.
85311	Sharvani U. U.K. Vasanthakumar	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11300 17/08/96	H.No.5-2-(23), I, Shanthinagar Post, Udipi Tk. Dakshinakannada Dist.
85312	Shashidhara Pal K. Kogga	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10767 18/06/94	"Pal House" PO, Baldebetu, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85313	Shashikala S. Sambeshivam C.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11164 30/01/96	H.No.N-156, 4-Cross, Nagappa Block, Sriampuram, Bangalore.
85314	Shashikara Shetty B. Vital Shetty K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1989	10839 17/10/94	Kshira Clinic, J.C. Rd. Chamarepet PO & Tq. Sagar, Distt. Shivamoga.
85315	Shastri Gururaj Vasanthrao Vasanthrao Ramania Shastri	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10837 14/02/95	PO. Ranibennur, Distt. Dharwar.
85316	Sheela Rajendra Shidlaya H.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	10724 22/04/94	Daya Sagar Gudda Angadi, Tq. Udupi, Distt. D.K.
85317	Sheelavathi A. Annaleppa K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10848 21/11/94	Shree Guru Raghavendra Clinic, M.G.Rd. Chikaballapur, Distt. Kolar
85318	Shenitha N. N. Sahadevan	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11302 17/08/96	H.No.3/1514, Vilarthodi Nilam P.K.P. Road, Nedakkvu Post Kozhikode Tq & Distt.

85319	Shesh Kumar K. Ananthanarayan K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2126 15/10/84	E-3/24, Behind Syndicate Bank Colony, Arkere Village, Bangalore
85320	Shet Rajakumar Rannan Rammann N. Shet	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	1122 07/12/85	Bannerghatta Rd., Bangalore Bazar Road, PO. Laxmeshwar, Tq. Shirahatti, Distt. Dharwar.
85321	Shettar Raghavendra Venkatesh Venkatesh Raghavendra Shettar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	1034 14/02/85	Veeranarayana Road, (Temple) PO & Tq. Gedag, Distt. Dharwar.
85322	Shetty Leena Madhukar Madhuka. Shetty	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10827 28/09/84	4/3, 1-Main Rd. Jeichamarajhagra, Tq. Hutki, Distt. Dharwar.
85323	Shrikhar Baiy T. Vishnumoorthi Baiy T.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11034 28/07/85	Sri Subramanya Nkayaaya, Ejarabattu Main Road, Al. Thantadi, PO. Mandarthi Tq. Udupi, Distt. D.K.
85324	Shiva Kumar Bhat K. Subrahmanya Bhat K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10877 04/01/85	Keminar House, PO. Perampadi Vla Ebele, Tq. Puttur, Distt. D.K.
85325	Shivakumar K.N. Narayana Bhat K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	11236 14/05/86	H.No. 5-2-80, Kolembe, Udupi Post, Udupi Taluk, Distt. Dakshina Kannada.
85326	Shivakumar M.B. Balagangadhar Thiak	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10782 20/07/84	"Thiribhuvan" PO Kukkuladika, Tq. Suliya, Distt. D.K.
85327	Shivakumar N. Nanjalah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11035 31/07/85	No. 136/24, 7-Cross, 3-Main Road, Channarayana, Bangalore.
85328	Shivalingappa T. T. Durugappa	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga, 1987	11429 12/02/87	Khanahosahalli Post, Kudligi Tk. Distt. Beladga.
85329	Shivanagayya V. Hosamath Veerabhadrayya	BAMS Guilbarga Univ., Guilbarga, 1994	11016 20/06/85	Ejstiban, PO Laxmeshwar, Tq. Shirahatti, Distt. Dharwar.
85330	Shivananda S. Hittalamani Siddappa Hittalamani	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2155 12/07/85	Muthyayunjanagar, East-Ext. Fazilbenur, Distt. Dharwar.
85331	Shivananda S.H. Savadatti H.B.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11131 18/12/85	H.No. 2212, 4A-Cross, 4-Main Road R.P.C. Layout, Vijayanagar-2, Stage, Bangalore.

85332	Shivanannd Gbyakud Gottalappa	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1994	11063 07/09/95	C/o K.S. Kenagi, Alkavi Masjid Road, Mathapathi Galli, Bijapur.
85333	Shivaputrappa Demappa Gowri Demappa Gouri	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11075 25/09/95	P.O. Sulla, Tq Hubli, Distt. Dharwar.
85334	Shivayogi Panchaxarayya Aradhymath Panchaxarayya Sangayya Aradhymath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10916 06/02/95	B.57/1, 3-Cross, 1st Main Rd, Heggeni Colony, Old Hubli, Distt. Dharwar.
85335	Shobhadevi C.P. Krishnaraja K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11364 17/10/96	Kachipalla Mane, Post Maliyuru Tq & Distt. Kasargodu.
85336	Shobhadevi P. Balakrishna Bhat P.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11182 01/03/96	Komminadka House, P.O. Badagakajekkar, Tq. Bantwal, Distt. D.K.
85337	Shreevijaya A.K. Keshava Bhat A.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10967 07/04/95	Shrirampet, Kasaragod.
85338	Shridhar A. L.A.P. Bhat	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1983	2215 27/03/97	No.145, 11nd Main Road, 3rd Cross, Chamaraj Pet, Bangalore.
85339	Swithari S.R. Ramachandra Bhat K.V.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1983	11072 22/09/95	Sri Guru Nilaya, Kanyad-2, PO. Dharmasthala, Tq. Belthangady, Distt. D.K.
85340	Shrikanth K. K. Srinivasa Bhat	BAMS Bharthiar Univ., Coimbatore, 1982	11281 05/07/96	M.M.20-32, Kodavoor-Adludiupi Road, Mudubettu Koodrashram Post, Taluk Udipi, Distt. D.K.
85341	Shrinivasa Nayek Late Narayana Nayek	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1993	10753 13/05/94	4, (A) Shrivara Kaimurgi, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85342	Shripathi Acharya G. Gunuraj Acharya K.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1987	10852 21/11/94	5-1-94, A "Bharadwaja Krupa" Near Mission Compound, PO. Bailur, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85343	Shyama Prakash K. Shankamarayana Bhat K.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10903 02/02/95	Jappudukku House, PO Perla, Tq. Kasaragodu. (Kerala State)
85344	Siddayya Aradhyamath Shivayya Aradhyamath	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1985	11303 17/08/96	H.No.2658/A, Kalidas Road, V.V. Mohalla, Mysore.

85358	Subrahmanya Prasad S.J. Shivanande S.J.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1992	11291 01/03/96	H.No.8/185, Ikkeri Road, Shimkappanik Nagar Sagar Tk., Distt. Shimoga.
85359	Subrahmanya Udupa A. Nagesh Udupa A.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	11051 22/08/95	P.O. Alcor, Tq. Kundapur, Distt. D.K.
85360	Subrahmanya Wagle K. Sundar Nayak	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1989	2134 28/12/94	At-Santiyar, PO-Kalkara, Tq-Pattur, Distt. D.K.
85361	Subrata Kumar Paul Sujan Chandra Paul	Vaidya Vidwan A.A.Parkshad, Vijayawada 1981	10770 06/07/94	D.No.116/2, B. Korbadi Layout K.B.Extn., Davangere, Distt. Chitradurga.
85362	Suchetha Prabhu K. Jasgadesh Patil S.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1987	10858 27/03/95	1376, 1-Main Rd., Prashant Nagar, M.R.C.R. Layout, Bangalore.
85363	Sudeshkumar Shetty K. Karunakar Shetty K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2124 30/08/94	New No.32 Old No.19, 10th-Cross, Malleshwaram, Bangalore.
85364	Sudha Kamath P. P. Ramadas Kamath	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	16938 14/02/95	PO> Balehonur, Tq. Narasimharajpur, Distt. Chickmagalur.
85365	Sudha M.N. Naresimha M.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	11251 05/06/96	H.No.331, M' Block, lind Stage, Kuvempunagar, Mysore.
85366	Sudhakar Reddy S.V. S. Seshu Reddy	Vaidya Vidwan A.A.Parkshad, Vijayawada, 1982	11361 11/10/96	No.12-12-87, Arab Mohalla, Raichur.
85367	Sudheendra A. Deshpande Deshpande A.J.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10846 18/11/94	159, 38-Cross, II Block, Rajajinagar, Bangalore.
85368	Suja K. Sreedhar K. Sreenivas Murthy	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2190 17/06/96	H.No.58/A, Nandini Layout, Bangalore.
85369	Sujatha A. Ramachandra Rao	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1988	2179 26/12/95	H.No.70, 5-Cross, Hanumanthanagar, Bangalore.
85370	Sujatha A. Shetty S.N. Achutha	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11461 27/03/97	Anjanya Swamy Street, Karedande, Sringeri Post, Distt. Chickmagalur.

85371	Sujatha B.A. Anne Gowda	IBAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11375 20/11/96	Ellenahalli Post, Srirangapatna Taluk Mandya District.
85372	Sujatha K.G. K. Gowindan	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11222 10/05/96	No.143, 7th Main, 4th Cross, JP Nagar, 3rd Phase, Bangalore.
85373	Sujatha Reddy K.V. Guru Reddy	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1986	10769 04/07/94	767, IV Main Rd., A Block, III Stage, Rajajinagar, Bangalore.
85374	Sujatha S. Satyenarayanan V.K.	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10928 14/02/95	D/o Sant Indira, G. Gopal Naith, Compuroid Kanchuga Street, Suggikallu Kote, Chikmagalur
85375	Sukesh M.K. Naryana K.	IBAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1993	10748 06/05/94	C-28, "Panchjanya" KSRTC Behind Busstand, P.Q. Channarayana Panna, Hassan.
85376	Sukumar K. Krishna Bhat K.	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	11186 02/03/96	Neithady House, P.O. Darbe. Tq. Purpur, Distt. D.K.
85377	Sulekunta Ramakrishnan Chinnappa	Validya Vidwan A.A.Panishad, Vijayawada 1977	10996 17/05/95	Door No.22, Shop Street, Sulekunte Tq. Bangalore, Distt. Kolar.
85378	Suma B.S. S. Shivalingalath	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11403 03/01/97	No.112/3, VII Main Rd. Besic P.O. Ganganagar, R.T. Nagar Post, Bangalore.
85379	Suman Latha Mishra K.L. Mishra	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11225 10/05/96	H.No.25/09, DRT Colony Bangur Nagar, Dandipost Haliyal Taluk, Distt. Karwar.
85380	Sumana T.M. T.B. Manjunath	IBAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11271 24/03/96	B.M. Sri Road, Basaweshwara Street, Tarikere Post & Tk., Chikmagalur Dt.
85381	Sumithra H.T. Sannappa	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1974	10823 26/09/94	26/25, 18th Main 4-Cross, 2nd Stage, Indiranagar, Bangalore.
85382	Sumithra T. Gowda Venkatesh K.	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2128 19/10/94	141/B, 6th-Cross, 4th-Block, Rajajinagar, Bangalore.
85383	Sundara Raja M.L. Lingalah	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11397 31/12/96	No.5, 1st Mah Road, IInd Cross, Old Ganganagar R.T. Nagar Post, Bangalore.

85384	Surekha Dayanand Shetty	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10364 04/04/95	H.No.3-110, "Shivaprasad", PO, Kenjoor, Tq. Udipi, Dist. D.K.
85385	Surekha M. Danigond Mallappa S. Danigond	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11153 22/01/96	H.No.2164, Halepetha Gali, PO, Terdal, Tq. Jamakhandli, Dist. Bijapur.
85386	Surekha S. S. Sunderam Naik	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	11266 22/06/96	No.597, 27th Main Road, 1st Phase, Ind. Stage, BTM Layout, Bangalore.
85387	Suresh B. T. B.S. Tharmayya	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1993	10758 25/05/94	2781, III Main Rd. V. V. Mohalle, Mysore.
85388	Suresh Babu K.R. Ramachandra Rao K.S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11413 16/01/97	Kandavara Post, Chickballapur Tk., Dist. Kolar.
85389	Suresh Hegde B. Ananda Hegde B.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	2185 14/02/96	"Yaksha Kripa", Billadi Village, PO, Janur Katte, Tq. Udupi, Dist. D.K.
85390	Suresh Kumar P.R. Ramachandra Bhat P.	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10910 02/02/96	Pulu House, PO. Padnoor, Tq. Puttur, Dist. D.K.
85391	Suresh Kumar Shetty K. Karunakar Shetty K.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1987	10800 27/06/94	Old 19, New-32, 10th Cross, Malleshwaram, Bangalore.
85392	Suresh Shetty A. Shashikara Shetty B.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1991	11117 28/11/95	H.No.2-67, Radumundu, PO. Saibarkatte, Via Barkar, Tq. Udupi, Dist. D.K.
85393	Sushma Chettri Hari Kumar Chettri	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11226 10/05/96	C/o H.K. Chettri, Consumer, Co-operative Society Lower Arithang Rd., Gangtok, East Sikkim.
85394	Sushma P.S. P. Sanjeeva Nayak	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10977 28/04/95	H.No.5-3-58, "Chotana Krupa", Chitpady, Tq. Udupi, Dist. D.K.
85395	Tabeeba Banu Noor Mohmood K.T.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	10744 04/05/94	284, Siddhol Nagar, Bannimatar-B, Layout, Mysore.
85396	Tajammul Ahmed Khan Mohamed Ajmal Khan	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1986	10781 28/07/94	Darga Road, PO. Koppal, Dist. Raichur.
85397	Tapashetti Veena Dundappa Dundappa N. Tapashetti	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10936 14/02/95	8, Gujarath Bhavan, Ballappanavara Nagar Kumbakonam Plat, Hubli, Dist. Dharwar.

85398	Taradevi M. Maheendra Babu	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2153 28/06/95	No. 5/5, 1—Main Road, Lower Palace Orchards, Bangalore.
85399	Tatyasaheb Dwaralkhot	Ayurved Bhishak A.L.Ay. Vidyapeeth, Delhi, 1976	10797 25/08/94	C-12, Lakshmi Building, 5-Cross, Bhagiyappa, Thilakavadi, Belgaum.
85400	Thenuja Shettigar P. P. Madhava Shettigar	IBAMS Gulbarga Univ., Gulbarga 1996	11399 31/12/96	H.No. 5-1-82, "Shree Shesha Saktan" Main Rd., Kimmulky Udupi Post & Tk Distt. D.K.
85401	Thara J. Mothi Rao J.K.	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10802 30/08/94	4, Osborne Road "Dhannanileya" Bangalore.
85402	Thirumala Prasad J. GopalaKrishna Bhat J.	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	11020 04/07/95	Jerdur House PO, Peruvai, Via Adyanedika Tq. Bantwal, Distt. D.K.
85403	Tondihal Shivakumar Amarappa Amarappa	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	10899 01/02/95	C/o A.L. Tondhal Amar Ganga Nivas Maddur, PO, Muddebihal, Distt. Bijapur.
85404	Toshikane Hemant Devaraj Devaraj G. Toshikane	IBAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11185 01/03/96	PO, Kailoli, Tq. Gokak, Distt. Belgaum.
85405	Uday Kumar P. Shah Pawan Kumar Shah	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2197 09/06/96	"Adash" Bangalore, Opp. Bus Stand, Sedam Post, Distt. Gulbarga.
85406	Udaya Hebbar P. P. Subrahmanya Hebbar	IBAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1990	11427 12/02/97	Suraksha Clinic, Hode Post, Udupi Tk., Distt. D.K.
85407	Udayakumar M.V. M.V. Bhat	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2148 29/03/95	"Savithri" Medarahalli, Chikkabanavara Bangalore North, Bangalore.
85408	Udayakumar Shetty Nagayyeshetty A.	IBAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	11020 07/12/95	H.No. 12-B, PO, Edur Kunjadi, Tq. Kundapur, Distt. D.K.
85409	Udayashankara P. Ganapathy Bhat P.	IBAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11238 15/05/96	"Arkele", Parakaj Post, Belthangady Tk., Dakshina Kannada Distt.
85410	Uma B. Bhaskara Adiga	IBAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	10734 26/01/94	69/2, 47-Cross, 1—Main, B-Block, Jayanagar, Bangalore.

85411	Uma B.S. B.K. Sathyanarayana	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10983 29/04/95	No.55-A-519-A, "Aditya", Shanbag Layout, Doddanekundi, Distt. Bangalore.
85412	Umar Farooq T.K. Mirja Gulam Mahmood	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2188 27/03/96	No.11, 8-A-Cross, Eshwari Shastri English School, Siddharthpalya, Yeshwanthapur, Bangalore.
85413	Umesh Madhwalayya Kakhandaki Madhwalayya	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	11061 05/09/95	P.O. Mulwad, Tq. Basavanabagewad, Distt. Bijapur.
85414	Uppin Annappa Shankarappa Shankarappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11055 01/09/95	P.O. Gudgeri, Tq. Kundgol, Distt. Dharwar.
85415	Usha B. Narayan	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1992	10954 24/03/95	12/84, Prasudha" Thadambile NH-17, Main Rd. PO. Surathkal Tq- Mangalore, Distt. South Canara.
85416	Usha G. Chandrashekara Malva G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11232 14/05/96	No.66, Ilird-Cross, Adl Kabir Ashram Main Rd., Matadethalli, R.T. Nagar Post, Bangalore.
85417	Usha Parvathi K.R. Veerakumara K	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1997	11435 19/02/96	Pai Nivaa Compound A1 & PO Kukkittatte, Tq. Udupi, Distt. D.K.
85418	Usha Rao G. Bhaskara S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1983	2205 16/10/96	No.140, 14th Cross, 22nd Main Rd., Raghavendra Layout, Padmanabha Nagar, Bangalore.
85419	Usha S. Sethya Paul V.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10915 02/02/95	10/1, Benson Block Rajendra Nagar, Mysore.
85420	Ushadevi M.V. B.K. Jagadeesh Kumar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2192 12/07/96	No.598, Upstairs, 8th Main, Vijayanagar, Bangalore.
85421	Ushakiran Rao S. P.V. Hariprasad	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1992	10793 18/08/94	196, Anand Nilay Shairada Colony, 2-Stage Basaveshwara Nagar, Bangalore.
85422	V. Shubha K. Venkatrao	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	11031 22/07/95	D.No.111, BEML Layout, West of Chord Road, Basaveshwara Nagar, Bangalore.
85423	Vadayer Anita Aravind Aravind	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10714 05/04/94	44-3-A, Solapur Road, Bijapur.

85424	Vagadurgi Mamata Revanasiddappa Revanasiddappa Veerappa Vagadurgi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar 1994	10956 27/03/95	P.O. Kannur, Tq. & Distt. Bijapur.
85425	Vaidya Balebheema Ramakrishnapant Ramakrishna Pant	AVV (Nanded) Fac. of AUSM., Maharashtra, BAMS	10716 05/04/94	10-925, Brahampur, Gulbarga.
85426	Vajreshwar M. Govindraji G.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1984	2178 26/12/95	H.No.5 2-Cross, 5-Main, Binay Mill Road, Ganganagar, R.T. Nagar Post, Bangalore.
85427	Valiparambil Mohamed Nazeer V.K. Mohamed	Vaidya Vidwan A.A.Parishad, Vijayawada 1975	10725 22/04/94	12, Basavanna Temple Street, PC> Adugodi Bangalore.
85428	Venamala K.M. B.T. Suresh	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1993	11415 20/01/97	No.1403, 23rd Main, Banashankari IInd Stage, Bangalore.
85429	Vandana Sharma K. Shiveshankar Angri	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11076 25/06/95	Angri House, P.O. Kanyana, Tq. Bantwala. Distt. D.K.
85430	Varishree Shritman M.K.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2115 17/05/94	25, 4-Shop Lane, Tata Silk Form Basawangudi, Bangalore
85431	Varishree Harekal Vishwanath	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10857 02/12/94	50, 3-Cross, 2-Main Rd., Telecom Colony, P.O. Alahalli, Bangalore.
85432	Varithe V. Venkataramana T.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10819 24/09/94	Model House No.2, Pulikeshi Road, Thilaknagar, Mysore.
85433	Vantigodi Lingareddi Hanamaraddi Hanamaraddi	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10784 02/08/94	P.O. Thirlepur, Tq. Navalgund, Distt. Dharwar.
85434	Varnekar Prashanth Sudhakar Sudhakar Varnekar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1992	10743 04/05/94	511, Opp. Mengesh Medicals, Main Rd. Kawa Head P.O., Kanwar N.K.
85435	Vastrad Bhadrashwamy Mahalingalah Mahalingalah Vastrad	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	2158 24/08/95	H.No.30, 3-Cross, Gengappa Block, Ganganagar, R.T. Nagar Post, Bangalore.
85436	Veena Laxminarayana Acharya	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	10859 27/03/95	2-37, Mallangali, P.O. Panthur, Tq. Udupi, Distt. D.K.

85437	Veena B. Nayak Ramananda Nayak	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1983	11193 25/03/96	H.No.1103-107-A, "Heridar Shar", PO. Bannanje, Tq. Udipi, Distt. D.K.
85438	Veena H.S. Shivamurthy H.C.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1985	11149 20/01/96	No.1135, 1-Cross, 3-Main Road, Vijayanagar East, Bangalore
85439	Veena K. Thirumaleshwar Bhat	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	10075 26/04/95	"Swappa", At-Kupplakara, PC. Ashoknagar, Distt. Mangalore.
85440	Veena KUmari A. Genesh Rao U.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1985	11458 24/03/97	H.No.1065/7, F-1 "Srikanta Nilaya" 1st Main 14th Cross, Vidyarenyapuram, Mysore.
85441	Veena M.S. Siddalingalah S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10860 05/12/94	LIG No.161, 8-Cross, 4-Main, Kengeri Satellite Town, Bangalore.
85442	Veena Mayya T. Narayana Mayya T.	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1990	10763 04/06/94	210/1, New Extn., Madikeri, Kodagu.
85443	Veena Rajashakar Swamy Astagimath Rajashakar N. Astagimath	BAMS Karnataka Univ., Dhanwar, 1994	11101 31/10/95	No.93, Adyapakanager, PO. Vijayanagar, At-Hubbli, Distt. Dhanwar.
85444	Veerasingayya Veerayya Hiremath Veeraya	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1983	2131 25/10/94	PO. Hanamasagar, Tq. Kushtagi, Distt. Raichur.
85445	Veerasha K. K. Kalappa	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11380 20/11/96	Railway Station Road, Mariyammahalli Hospet Taluk, Distt. Bellary.
85446	Venkatakrishna T.S. T.V. Seetharamaiah	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11279 05/07/96	No.43, 1st Main 6th Cross, Talagodu Balehole Post, Mudlgare Tk., Chickmagalur Distt.
85447	Venkataramaiah Nagaiah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1985	11337 11/09/96	No.289, 3rd Stage, 3rd Block, West of Chord Road, Basaveswara Nagara, Bangalore.
85448	Venkatesh I Bandre Ishwarappa V. Bandre	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	11092 17/10/95	Near Ajlavya Temple, PO. Guttal, Tq. Hevenl, Distt. Dhanwar.
85449	Venkatesh Rao M. M.Vishnu Murthy	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1985	11350 30/09/96	H.No.3-115, Moodukuru, Kaiyapur Post, Udipi Tk. Distt. Dakshina Kannada.

85450	Venkatash Tantri P. P. Ramenna Tantri	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11390 31/12/96	Shivaprasadam, Faringepete Post, Bantwal Tk. South Kannara Dist.
85451	Venu H.L. S.J. Lakshmana Setty	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2209 03/02/97	No. 779, 11nd Block, 9th 'A' Main Rd., Benashankari Ist-Stage, Bangalore.
85452	Vidye Ganapathi Ad C.P. Subbad	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1996	11377 20/11/96	No. 1088, 2nd Division R.F. Road, Nanjanaagdu Post & Tk., Distt. Mysore
85453	Vidye Rani Ramesh Shetty K.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1995	11107 15/11/95	"Dattatreya", Aranthady Villape- Balepuni, Tq-Bantwal, Distt. D.K.
85454	Vidye S. Vijayadutt M.V.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1995	11220 30/04/96	Ashwini Health Centre, M.G. Road, Shirahatti
85455	Vidyanathi Shetthi Gopal Shetty K.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	11146 29/12/95	"Vidya Vihar", PO. Nadiur, Via Mandarthi, Tq. Udupi, Distt. D.K.
85456	Vigneshwar Bhat S. Gopala Krishna Bhat S.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1996	11353 07/10/96	Sooryam Ball Hous., Panaje Post, Puttur Tk., Distt. Dakshina Kannada.
85457	Vijay Kumar M.J A.S. Muralidhar	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	11401 03/01/97	No. 1323/16-1, 1st Cross, 1st Main Rd, Prashanth Nagar, Bangalore.
85458	Vijaya Prasad K. Krishna Bhat Kaimale	BAMS Univ. of Madras, Madras, 1990	10774 19/07/94	Nethaji Nagar-Extn., PO & Tq. Koppa, Distt. Chikamagalore.
85459	Vijayalakshmi H.D. Doddappaiah	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11227 10/05/96	No. 329, 7th 'A' Main, 4th Block Koramangala, Bangalore.
85460	Vijayalaxmi P.B. Bala Krishna Gouda P.	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11118 29/11/95	H.No. 1-39, Pjakkala House, Bajathuru Village, PO. Valalu, Tq. Puttur, Distt. D.K.
85461	Vijayanandan C. Mallmath Chidananda Swamy P. Malimath	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1988	2200 30/09/96	No. 17, 17th Cross, Muthyalanagar, Gokul Post, Bangalore.
85462	Vijayavani B. Hegde K. Bhaskara Hegde	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1994	11262 19/06/96	G-59, New Town, Bhadravati, Distt. Shimoga.

85463	Vijayendra S. Srinivasa Murthy M.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11126 12/12/95	H.No.471, 12-Cross, 13-Main Road, Padmanabhanagar, Bangalore.
85464	Vijaykumar B. Rangappa B.	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1994	10025 28/09/94	P.C. Hyarada, Tq. Huvimahadagalli, Distt. Bellary.
85465	Vinod Chougule Balappa Appu Chougule	Ayurved Shastrik A.I.Ay.Vidyapeeth, Delhi, 1979	11218 20/04/86	H.No.1397, Bhoj Galli, Fularinaw Shahapur, Belgaum.
85466	Vinod Kumar B. Devakumar Indra	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1995	11389 31/12/96	D.No.9, Eddha Marg, Siddarthenagar, Mysore.
85467	Vineela Marathe M. M. Manjunath	BAMS Mangalore Univ., Mangalore, 1994	11367 28/10/96	"Gurukrupa" Sowdarya School Road Havender Extn. Nagasandra Post, Bangalore.
85468	Vinaya Bhat P. Vasudeva Bhat P.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	11234 14/05/96	Main Rd., Pane Mangalore Post, Bentival Tq., Dakshina Kannada Distt.
85469	Virupaxappa Rechappa Talikoti Rechappa V. Talikoti	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1996	11366 26/10/96	Telagi Road, Basavana Bagewadi, Post & Tk., Distt. Bijapur.
85470	Vishwanath Reddy Basawarajappa Patti	BAMS Gulbarga Univ., Gulbarga, 1990	11447 03/03/97	H.No.1-11-216, 7th Row Plot No.1, Nilalingappa Colony, Raichur.
85471	Viveka M.B. M.G. Bhaskar	BAMS Univ. of Mysore, Mysore, 1985	11317 02/09/96	"Sri Raghavendra Bherathi Sri Gurus Krupa", Vijayanagar Colony Sagar Post & Taluk, Distt. Shimoga.
85472	Vivekananda Shenoy Raghavendrashenoy B.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	2120 08/07/94	Medicar Road, At-Gonikoppalu Virajpet, Distt. Kodagu.
85473	Vijayantimala C.G. Garudachar C.V.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	10865 07/12/94	1775, "Vreja", 6-Main Rd., D-Block, Rajajinagar, 2-Stage, Bangalore.
85474	Wail Veeranna Siddanna Late Siddanna Chanamallappa	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11049 18/08/95	Darbar Galli, Mangoli Road, Bijapur.

85475	Yallatti Vidya Shankar Shankar	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1994	11067 13/06/95	H.No.500/502, West Mangalwarpeth, PO. Solapur.
85476	Yashavantha Raghavendra Chari	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1991	10777 25/07/94	384/1, P.J. Extension, 8-Cross, PO. Devenagere, Distt. Chitradurga.
85477	Yasodhaa K. S.V. Pedmanabha	Vaidya Vidwan A.A. Parishad, Vijayawada, 1972	11272 24/06/96	No.549, 2th Main Rd., IInd Stage, BTM., Layout, Bangalore.
85478	Yechhi Vishwanath Ramanna Ramanna	BAMS Karnataka Univ., Dharwar, 1993	10739 28/04/94	PO. Honewada, Distt. Bijapur.
85479	Yogesh Rao S. Sadashiva Rao S.	BAMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	10894 01/02/95	13/2, S.M. Road Jalahalli, West Post Bangalore.

Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE
KARNATAKA
PART - II - UNNANI

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDED BY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
8195	Abdi Akthar A. Inamdar Abdul Rasheed Inamdar	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	769 26/08/96	No.1, Bovi Colony, Nagashetty Halli, Sanjaynagar, Bangalore.
8196	Abdul Rahman Abdul Jabbar	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	738 12/05/95	C/o Abdul Hannan, Karnataka Fancy Store PO, Narayanpur, Tq. Shorapur, Distt. Gulbarga.
8197	Ajaz Ahmed Syed Nazeer Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	783 31/12/96	No.24, Hind Main Road, Lalji Nagar, Lavandra Post, Bangalore.
8198	Aliya Zainab A.D.G. Peerzade	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1996	777 10/09/96	No.80, Pemmegouda Road, Benson Town Post, Bangalore.
8199	Amjad Pasha Syed Mohiddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	728 02/07/94	C/o U.K. Bharmaraji, Venkateshpuram Pillana Garden, Arabic College, Bangalore.
8200	Amthul Hafeez Fathima Mohd. Zahiruddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	709 04/05/95	397, 7th-Cross, Ist-Block, Bangalore.
8201	Anees Ahmed M. Abdur Rahman	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	2190 31/08/95	No.102, 1-Block, East, Jayanagar, Bangalore.
8202	Anifa Fathima Noorul Haq	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	750 08/08/95	No.27/3, Mariswamy Mutt, A.V. Road, Katasipalyam, Bangalore.
8203	Anwar Anjum Rafeeqnusrath	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	707 29/04/94	25, 9th-A, 36th, 5th-Block, Jayanagar, Bangalore.
8204	Asif Ulla A.M. Ameer Jan A.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	735 07/04/95	Venkatagiri Kote, New Colony, Masjid Road, PO. Chintamani, Distt. Kolar.
8205	Asifa Akthar S. Abdulla	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	746 26/05/95	C/o Dr. Tahir Ali, Karnataka Clinic, Patel Sindhur, Distt. Raichur.

8206	Athiya Sultana G. Shaik Mohiuddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	768 26/08/96	No.1, Bovi Cokmy, Nagashetty Halli, Sanjayanagar, Bangalore
8207	Ayisha Asma Mohamed Sirajuddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	715 13/05/94	1361, 9th-Main Vijayanagar PO., Bangalore.
8208	Baseerunnisa M.A. Subhan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	747 08/09/95	C/o M.A.A. Baig, H.No.111-A, (1736), 24th Cross, 19th Main, 2nd Block,Rajajinagar, Bangalore.
8209	Chandramouli Verma C. Changama Raju S.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	751 18/08/95	No.1070, Avemi Tank Road, Fort Kolar.
8210	Effath Ralhana MOhamed Ibrahim	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	780 26/09/96	No.179, 1st Main Mysore Road, Chamarajpet, Bangalore.
8211	Fahimunnisa Mukhtar Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	733 23/03/95	K.H. Ranganatha Colony No.80, 2nd Cross, 1st-Main Road. K.H.R.Colony Mysore Rd., JJR Nagar,Bangalore.
8212	Farzana Parveen K. Afross Pasha	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	742 20/05/95	No.411/A, R.V. Road, Basvanagudi Post Office Rastratriya Vidyalaya Road, Bangalore.
8213	Fathima Zahara Ishaq Ahmed Shariff	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	761 31/07/96	No.411/1, 5th Cross, 1st Main Road, R.T. Nagar, Bangalore.
8214	Fayyez Ahmed Mubarak Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	704 22/04/94	Near Mecca Masjid, Timmapur, PO. Rangampet, Tq. Shigrapur, Distt. Gulbarga.
8215	Firoose Naseem Syed Zakaula	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	764 05/08/96	No.5, 1st Main Road, K.G. Halli, Arabic College Post, Bangalore North Tk., Bangalore.
8216	Fouzia Khanum Mohamad Adeebulla	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1990	725 22/08/94	815, 11th-Cross, KTJ Nagar, Davanagere, Chitradurga.
8217	Fouzia Sultana Abdul Jabbar	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	727 23/06/94	Or.No.D-39, Bheemarananagudi, Tq-Shahapur, Distt. Gulbarga.
8218	Gopalakrishna B.V. Bhadralah B.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	721 14/05/94	At Uppinakere, PO. Nagarakere, Tq Maddur, Distt. Mandya.

8219	Ifthikharuddin Noonuddin Ahamed N.K.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1980	2168 31/08/95	No.51, 5-A-Cross, TMCS Layout, J.P. Nagar, 1-Phase, Banalore.
8220	Iqbal H.M. Memon Late Haji Mohammed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1980	2164 31/08/95	No.D-174, K.P.W.D. Quarters, Jeevan Beema Nagar, HAL, 3-Stage, Bangalore.
8221	Ishrat Jahan Mohamed Aslam	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1991	759 26/08/96	No.626, 11th Main HAL, 11th Stage, Indiranagar, Bangalore.
8222	Kauser Parveen Aftab Ahamed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1982	2170 05/09/95	No.7/1, 1-Floor, 2-Main Road, M.V. Street, J.C. Nagar, Bangalore.
8223	Khalid Jawed Ashraf Alik	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1994	748 05/07/95	No.1046 (2615), 36th Cross, 26th Main 4th T. Block, Jayanagar, Thilaknagar Post, Bangalore.
8224	Khurshid Ahmed Raqueeb R.A.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1993	717 13/05/94	No.4, M.No.3rd Street, Chaurinar Road, Bangalore.
8225	Kouserunnisa Vazeer Jan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1994	739 18/05/95	Door No.388, 38th-A-Cross, 26th Main Road, 9th Block, Jayanagar, Bangalore.
8226	Lalitha Reddy G. G. Venkata Ramudu	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1994	743 20/05/95	No.32, Defence Colony, Kodigehally Main Road, Bangalore.
8227	M.S. Zeyaur Rehman Mahamed Shaffeur	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1994	732 14/02/95	Mubarak Mohalla, Molakalmuru, Distt. Chitradurga.
8228	Mahajabeen Nazeeer Ahmed M.H.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1995	776 10/09/96	Bhopesandra Main Road, RMV, 11th Stage, Bangalore.
8229	Mallesh Gowda M.N. Nirvani Gouda	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1984	2171 05/09/95	No.601, 10-Cross, 7 Block West Jayanagar, Bangalore.
8230	Maste Tarveer Ahmed Nayaz Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1995	767 06/08/96	No.92, 5th Main Road, Jayamahal Extn., Bangalore.
8231	Mirza Sikandar Baig Mirza Nizir Baig	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1983	2175 28/09/95	H.No.5-948, Chota Roza, Husani Alam, Gulbarga.

8232	Mohammed Arifulla B. Mohamed Sanaulla B.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1983	713 13/05/94	7, M No. 3rd Street, New Market Rd., Srinivajinagar, H.K.P. Road, Bangalore.
8233	Mohamed Adebulla Mohamed Azmathulla	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1980	724 22/06/94	815, 11th-Cross, K.T.J. Nagar, Davangere, Chitradurga.
8234	Mohamed Ahmed Almas C.M. Abdul Ghani	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1986	757 07/05/96	No.43, 5th Cross, 1st Main Kankanagar, R.T. Nagar Post, Bangalore, North Tk. Bangalore.
8235	Mohamed Noorulla Mohamed Isak	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1980	2174 20/09/95	New House Kilpadi Village, P.O. Mulki, Tq. Mangalore, Distt. D.K.
8236	Mohammed Hafiz Abdul Samad	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1984	753 23/11/95	No.2717, Chickpet, Tq. Doddaballapur, Distt. Bangalore.
8237	Mohammed Khaleelullah Sharif A.R. A.H. Abdul Rewoof	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1982	2166 31/08/95	No.28, Nalbanda Wadi, Police Road Cross, Bangalore.
8238	Mohammed Shafi-ur-Rahman Mohammed Khaleel-ur-Rahman	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1985	774 09/09/96	No.946, Kalaipei, Kolar.
8239	Mohammed Nayeem Uz Zaman Mohammed Nizamuddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1986	763 05/08/96	No.405, 3rd Main Road, Anandnagar, Bangalore.
8240	Mohd. Nisar Ali Jahir Ali	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1983	722 22/08/94	C/o Karnataka Clinic, Palet Wadi, Sindhanur, Distt. Raichur.
8241	Mohd. Raof Hashmi Mohd. Ibrahim	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1984	737 12/05/95	H.No.18-13-8/A/12, P.O. Keshavnagar, E-Bandlaguda, Hyderabad.
8242	Mohammed Asif Quraishi Gaffar Qureshi	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1993	711 07/05/94	2640, At. Nalabachwadi, P.O. Ramnagar, Bangalore.
8243	Mubeen Taj Ghouse Mohiuddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1985	778 10/09/96	No.308, 7th Cross, Rameshnagar, H.A.L. Extn. Vibhuthipura Post, Bangalore.
8244	Mujahid Pasha A. Anwar Basha P.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1983	723 22/06/94	203, 9, 1st, Banujinagar, Bangalore.

8245	Mushtari Banu Nawazish Ali Baig	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1980	2172 07/09/95	No.C-18, 7 Cross, Jayamahal Extn., Bangalore.
8246	Muzzaffar Hussain Iqbal Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	758 25/05/96	H.No.3234, Opp. Railway Station, Thopekhane Mohallah, Ramanagaram, Bangalore.
8247	Nateesa Sulthana N Nazeer Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	744 23/05/95	No.805, 3rd Cross Rd., P.O. Robertsonpet Tq. Bangarpet, Distt. Kolar.
8248	Nahida Tabassum Noorullah Khan M.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	716 13/05/94	46, Cockburn Road, Shivajinagar, Bangalore.
8249	Nailla Mir Amanulla	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	741 16/05/95	Door No.B-28, Dispensary Road, Khalasipalayam, Bangalore
8250	Nazeema Ambreen K. Iqbal Ahmed Khan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	782 04/12/96	BSA Clinic & Nursing Home, Main Rd., Mahal Post, Kalikiri(Mandal) Tq., Distt. Chittoor.
8251	Nirmala B.S. Subramanyan A.N.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	714 13/05/94	58, Mathurupa, Opp. Tq. M.N. Polytechnic Kammegondana Halli, Jalahalli, West Bangalore.
8252	Nisheeth Rehana Mohammed Ziaul Hakh	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	772 09/09/96	No.47, 3rd Cross, 1st Stage, Pillanna Garden, Bangalore
8253	Noor Fathima Rasheed M. Abdul Rasheed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	762 31/07/96	No.7 & 8, Behind Fathima Stores, Rose Garden, Nelasandra, Viveknagar P.O., Bangalore
8254	Padmaja A.R. Rangaswamy A.T.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	705 25/04/94	954, B "A" Main Road, Prakashnagar, Bangalore
8255	Rafia Begum N. Late M. Mohd. Nasiruddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1980	2169 01/09/95	No.1515, 8 Main Road, Vinobanagar, Tumkur.
8256	Rahamathulla Mohd. Saleha	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	745 26/05/95	C/o Syed Shuhabuddin, No.1016, Khazi Street, Fort Kolar.
8257	Razzak Khan H.M. H.M. Masood Khan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1986	781 16/11/96	H.No.22/1, Near Elahi Mosque, Arokyamma Layout Venkateshpur, Bangalore

8258	Reshma N. Jagadeesha K.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	775 09/08/96	No. 130, 3rd Main Road, Chamarejpet, Bangalore.
8259	Sadat Hussain Abdul Hal Mirasder	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	736 12/05/95	Azam Manzil Opp. Govt. High School PO, Rangampet, Tq. Shorapur, Distt. Gulbarga.
8260	Saifulla P. M. M. Shafeeula	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	726 22/06/94	49, M.S. Building, Vivekanagar, Bangalore.
8261	Sajjad Pasha Alaulia Khan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	708 29/04/94	1, Maistry Venkataswamiappa Street, M.R. Palyam, J.C. Nagar, Bangalore.
8262	Sami Ulla Abdul Rawoof	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1980	2161 31/08/95	No. 10, Masjid Street, Kalasipalyam, Bangalore.
8263	Satty Prasanna Prabhakara Bhat	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	752 07/09/95	No. 27, 3rd, C Cross, 3rd Main Road Nandini Layout, Bangalore.
8264	Savitha M. M. Muthaiah	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	740 16/05/95	Door No. 38/1, 1st Cross, 5th Main Road, Hanumanathanagar, Bangalore.
8265	Sayed Naseem Bano Nawab Noweb Mohd. Hussaini	BUMS Univ. of Bombay, Mumbai, 1992	756 25/03/96	H. No. 21-58, Darban Base, Syed Manzil Asar Mohalla PO. & Tq. Shahapur, Distt. Gulbarga
8266	Sayeeda Athar Salim Salik M.A.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	710 06/05/94	1-9-99, Azadnagar, Raichur.
8267	Shebana Sultana M.A. Akbar Khan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	718 19/05/94	10/5, Dinnur 9th-Main Rd. R.T. Nagar, Bangalore.
8268	Shahajadha Khadir Syed Imam	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	730 15/09/94	PO & Tq. Chinthamani, Distt. Kolar.
8269	Shahed Hussain Kashiff Mohammed Ariff	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	760 31/07/96	No. 92, 16th Cross, 7th Main Road, Padarayanapura, Bangalore.
8270	Shaheena Begaum A. Ahmed Ulla Khan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	2173 07/09/95	No. 47, 1-Cross, New Extn., Kalasipalyam, Bangalore.

8271	Shaikh Ali Mohamad Azizulah	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1993	712 13/05/94	6, Masjid Street, 4th Main, Chinnappa Garden Benson Town, Bangalore.
8272	Shameem Rukhsana Mohammed Ahrnc Khan	BUMS Osmania Univ., Hyderabad, 1984	771 29/08/96	No.210, 14th 'A' Cross, 5th Main, IInd Block, R T Nagar, Bangalore.
8273	Skyeda Naz Parveen Banu N. M. Syed Nasirulla	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1983	2176 14/11/95	No.10/1, Sirsi Road, 4 Cross, Chamrajapet, Bangalore.
8274	Subramanya T.R. T.R. Ramalah	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1984	755 12/01/96	H.No.42, 4 Street, Katraguppe, Khadhi Layout Vivekanandanagar, B.S.K- 3rd Stage, Bangalore.
8275	Sudha K.H. Sudarsan Tantry	BUMS Bangalore Univ., Bangalore. 1983	731 28/12/94	1724, Police Station Road, Besavanagudi, Bangalore.
8276	Sudheendra K.H. Hayevadana Puranic	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1983	719 26/05/94	C/o Principal P.P. Vidyaapeeta PO, Katharguppa, Bangalore.
8277	Syed Arees Ahmed Syed Jamal Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1980	2163 31/08/95	No.11/3, Casynruaba Street, Thimmiah Road Cross, Bangalore.
8278	Syed Bakther Syd Shahabuddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1985	770 29/08/96	No.5, IInd Block, P & T Quarters, Kavaleyrasnadra, Bangalore.
8279	Syed Firoz Ahmed Syed Khader Mohiddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1994	734 31/03/95	112, A.K.H.B. Colony, 5th Block, Koramangala, Bangalore.
8280	Syed Mohammed Ali Syed Suleman	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	720 01/06/94	C/o Jabbarsaheb No.44, 2-Cross, 1st Main Mahadahalli, R. T. Nagar PO., Bangalore.
8281	Syed Rafeequlla S. Syed Mahmood S.	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1980	2159 31/08/95	No.93, 2 Main Road, Ranganatha Layout, J.J. Ramnagar, Bangalore.
8282	Syed Shakira Banu Syed Yasinu Khadri	BUMS S.V. Univ., Tirupati, 1991	754 23/11/95	Jagiradar, Ibrahimipura Peth, PO. Mudagal, Tq. Lingsusur, Distt. Raichur.
8283	Syed Shamshulwara Mohammed Khaleelur Rehman	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1992	706 25/04/94	5, 1st Cross, Sonnappa Block, J.C. Nagar, M.R. Palya, Bangalore.

8284	Syed Vikhat Ahmed Syed Mukhtar Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1993	729 22/07/94	Old Syndicate Bank, Nargan Main Rd., Kaduganahalli, Arabic College PO., Bangalore.
8285	Syed Zahid Hussain Syed Yaseen	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	766 05/08/96	H.No.42, Ghani Manzil, Bengere Kasba, Mangalore, Distt. D.K.
8286	Syeda Sameem Fathima Ameer Jan	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	773 06/09/96	No.223, J.H.B.C.S. 8th Cross, IInd Main J.P. Nagar, Bangalore.
8287	Tasneem Babu S. Abdul Azeez	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	779 11/09/96	No.8/8, IInd Cross, 26th Main, Roshan Colony Tileknagar, Bangalore.
8288	Tasneem Banu Musheer Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1991	749 31/07/95	No.54, 1 Main Road, Palace Guthalli, Bangalore.
8289	Umraz Mubeen Mohammed Ahmed	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1982	2167 31/08/95	No.28, Nalbanda Wadi, Police Road Cross, Bangalore.
8290	Waheeda Sultana Mahboob Ali	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1995	765 05/08/96	No.315, JHBCS Layout, J.P. Nagar Post, Bangalore.
8291	Ziauddin S. K. A. Shahabuddin	BUMS Bangalore Univ., Bangalore, 1980	2165 31/08/95	No.227, 4-Cross, HMT Layout, Mattikere, Bangalore.

Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi